



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६ ] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी ५, १९९४ (माघ १६, १९१५)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1994 (MAGHA 16, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

### भाग I—खण्ड ४

#### [PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हो गई अहमरों की नियुक्तियों, विवरणियों व छट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक ५ फरवरी १९९४

सं० ए०-११०४१/१/९२-स्था०-१—दिनांक १८ जनवरी  
१९९४—राष्ट्रपति भा० २० ले० से० का अधिकारी कु० सोमी  
टंडन की रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में दिनांक १८ जनवरी,  
१९९४ के पूर्वाह्न, में अगले आदेशों तक अपर वित्तीय सलाहकार  
(संयुक्त सचिव) नियुक्त करते हैं।

एम० के० मुम्मन  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

४ जनवरी, १९९४ (पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग  
में सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त  
करते हैं।

2. राष्ट्रपति जल संसाधन मंत्रालय से स्थानान्तरण हो  
जाने के पश्चात् मन्त्रालय श्री ए० के० पुरी के० स० से० को दिनांक  
४ जनवरी, १९९४ (अपराह्न) से रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग  
में सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त  
करते हैं।

एम० के० मुम्मन  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)

रक्षा वैमानिक युनिट आश्रामत सेवा

सं० ४२-२२०१२/२/९३-स्था०-१—दिनांक १९ फरवरी  
१९९४—राष्ट्रपति विधि कार्य विभाग से स्थानान्तरण हो  
जाने के पश्चात् मन्त्रालय श्री के० ए० वनजी के० स० से० को दिनांक  
१—४४ GI/93

(285)

नियुक्तियां बताते हैं :—

1. श्री अनिल कुमार पटाशर 24 जून 1993 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु० नि० नि० का कार्यालय त० वि० त० उ० नि० (वायु) रक्षा मंत्रालय कोरप्युट में व० व० अ० अ०-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

2. श्री अवालूर वेंकटेश्वरा प्रभु 17 दिसम्बर, 1993 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु० नि० नि० का कार्यालय, त० वि० त० उ० नि० (वायु) रक्षा मंत्रालय बंगलौर में व० व० अ०-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

3. श्री अनिल जी० अर्भ्यकर 30 अगस्त 1993 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए अपर निदेशक के कार्यालय एम० एस० क्य० ए० ए० रक्षा मंत्रालय हैदराबाद में व० व० अ०-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

4. श्री अशोक कुमार सिंह 01 सितम्बर, 1993 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए म० नि० नि० का कार्यालय त० वि० त० उ० नि० (वायु) रक्षा मंत्रालय, लखनऊ में व० व० अ०-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

5. श्री महिन्द भगत, 13 दिसम्बर, 1993 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु० नि० नि० का कार्यालय, त० वि० त० उ० नि० (वायु) रक्षा मंत्रालय, ओजर में व० व० अ०-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

6. श्री गुरुमुखदास बतारा 10 सितम्बर 1993 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु० नि० नि० का कार्यालय त० वि० त० उ० नि० (वायु) रक्षा मंत्रालय कोरवा में व० व० अ०-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

7. श्री अनिल कुमार कोटा 28 अक्टूबर 1993 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु० नि० नि० का कार्यालय (जी० डब्ल्यू०) त० वि० त० उ० नि० (वायु) रक्षा मंत्रालय हैदराबाद में व० व० अ०-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

ज० पी० दत्त  
डैस्क अधिकारी

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं० 43 दिनांक 31 दिसम्बर 1993—निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 27 अक्टूबर 1993 से 26 अप्रैल 1994 तक छह माह की अवधि का नियमित पदाधिकारियों के

मिलने में जो भी घट्ट हो तक के लिए सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय में सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त बताते हैं—

श्री पी० आर० सिन्हा।

श्री टी० डी० धरियल (प्रतिनियुक्त)

श्री एम० सेवरामलिंगम

श्री एस० अवगेशन

2. ये नियुक्तियां पूर्णतः काम चलाऊ व्यवस्था के लिए की जाती हैं तथा प्रशासकीय कारणों अवधा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने की दशा में विना सूचना के समाप्त की जानकारी है।

सेना मुख्यालय

ए० जी० शाखा

निम्नलिखित सहायकों को 22 जुलाई 1993 से अगले आदेश जारी होने तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थानापन सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है :—

श्री क० एस० सिंहमार

श्री एस० पी० कुरील

2. ये नियुक्तियां सी० डब्ल्यू सं० 3/78 (एम० जी० वंसल तथा अन्य बनाम भारत का संघ एवं अन्य), पर टी० ए० सं० 4356/85 के केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण (प्रधान पीठ) 20 नवम्बर 1992 के निर्गत तथा न्यायालय में लंबित पड़े संबंधी भर्ती वाले एवं पदोन्नति पाकर बने सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता संबंधी अन्य मामलों वे नियंत्रणों को लागू करने में आवश्यक संशोधनों के अवधीन होंगी।

3. नामिका से को गई पदोन्नतियां सं० मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली, 1968 की तीसरी अनुसूची (सं सि० स्टा० अधिकारियों की नियुक्तियों संबंधी जोट-2) के प्रावधानों के अध्यवधीन होंगी।

(प्राधिकार : ए०/14102/93/आर० पी०/म० प्र० अ०/पी०-1 दिनांक

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के नियमावली 1960 के नियम 10(2) के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय अणुलिंगक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे लिखी गई तारीख से छः महीने के लिए या 22 अप्रैल 1993 या नियमित पदाधिकारियों के मिलने में से जो घट्ट हो तक समय तक सिविलियन स्टाफ

अधिकारी के पद पर नियुक्ति का सकान प्राधिकारों द्वारा अनु-  
नोदन प्राप्त हो गया है :—

## राष्ट्रीय

हरीद हुसैन—23 अक्टूबर, 1992।

श्रीमती मन्जू जीगन—23 अक्टूबर, 1992।

श्रीमती जयश्री गलगोटिया—23 अक्टूबर, 1992।

केंद्र एम० पी० सिंह—23 अक्टूबर, 1992।

अरुण कुमार—23 अक्टूबर, 1992।

कुमारी अमृता शर्मा—23 अक्टूबर, 1992।

राम सिंह—23 अक्टूबर, 1992।

बी० अ.र० अग्रवाल—18 नवम्बर, 1992।

केंद्र एम० सुवीधी—23 अक्टूबर, 1992।

श्रीमती लीना मुखर्जी—23 अक्टूबर, 1992।

अरुण स्वरूप—23 अक्टूबर, 1992।

नगपति सिंह—23 अक्टूबर, 1992।

संजय तिहार—23 अक्टूबर, 1992।

2. ये नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थार्थी अवधि के लिए हैं जिन्हें प्रशासनिक कारणों से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

3. उपरोक्त प्रोन्नति विशुद्ध रूप में अन्तःकालीन है और ऊपर लिखित व्यक्तियों का वरियता के लिए कोई दावा नहीं होगा। वह इन प्रोन्नतियों के अधिकार पर कोई आगे प्रोन्नति नहीं होंगी।

मंगस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के नियमितीया 1968 के नियम 10 (2) के अन्तर्गत यशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा तथा दृगस्त्र सेवा मुख्यालय अशुलिपिक सेवा के नियम-लिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे लिहा। गई तारीख से छः महीने के लिए या 25 अक्टूबर, 1993 या नियमित पदाधिकारियों के मिलने में से जो पहले हो, उन सभी तक सिविलियन स्टफ अधिकारी के पद पर नियुक्ति का सकान प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया है :—

## राष्ट्रीय

श्रीमती मंजू जीगन—26 अप्रैल, 1993।

हरीद हुसैन—26 अप्रैल, 1993।

श्रीमती जयश्री गलगोटिया—3 मई, 1993।

संजय तिहार—26 अप्रैल, 1993।

केंद्र एम० पी० सिंह—26 अप्रैल, 1993।

अरुण कुमार—26 अप्रैल, 1993।

कुमारी अमृता शर्मा—26 अप्रैल, 1993।

श्रीमती ई० सेलो—26 अप्रैल, 1993।

श्रीमती लीना मुखर्जी—26 अप्रैल, 1993।

अरुण स्वरूप—26 अप्रैल, 1993।

केंद्र एम० सुवीधी—26 अप्रैल, 1993।

कुमारेश कुमार—26 अप्रैल, 1993।

नगपति सिंह—26 अप्रैल, 1993।

2. ये नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थार्थी अवधि के लिए हैं जिन्हें प्रशासनिक कारणों से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

3. उपरोक्त प्रोन्नति विशुद्ध रूप से अन्तःकालीन है और ऊपर लिखित व्यक्तियों का वरियता के लिए कोई दावा नहीं होगा। वह इन प्रोन्नतियों के अधिकार पर कोई आगे प्रोन्नति नहीं होंगी।

सकान प्राधिकारी द्वारा संश्ट्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा तथा अशुलिपिक सेवा के नियम-लिखित अधिकारियों को दर्शावित अधिकार पर स्थानांतरण सिविलियन स्टफ अधिकारी के पद पर दिनांक 16 अक्टूबर, 1992 से अगले अदेश तक नियुक्ति का संस्तुति प्रदान का जाता है :—

बी० एम० पी० सिंह—16 अक्टूबर, 1992।

कुमार लाल बोहरा—16 अक्टूबर, 1992।

बी० गोपीनाथन—16 अक्टूबर, 1992।

राम कुमार चौहान—16 अक्टूबर, 1992।

राम स्वरूप—16 अक्टूबर, 1992।

पी० एम० जाटव—23 अक्टूबर, 1992।

श्रीनंदी रूबी अधिकारी त्रहनल—21 दिसंबर, 1992।

रवी दत्त—16 अक्टूबर, 1992।

जी० बी० पत्न—16 अक्टूबर, 1992।

आर० केंद्र डी० मंगल—16 अक्टूबर, 1992।

श्रीमती आशा महाजन—16 अक्टूबर, 1992।

आई० डी० फेवल रमानी—16 अक्टूबर, 1992।

एन० बी० शर्मा—16 अक्टूबर, 1992।

टी० एन० एम० नवार—16 अक्टूबर, 1992।

एन० केंद्र टाट्टन—16 अक्टूबर, 1992।

फूल सिंह—16 अक्टूबर, 1992।

लाल चन्द—23 अक्टूबर, 1992।

पी० पी० दत्त—16 अक्टूबर, 1992।

इन्द्र चन्द—16 अक्टूबर, 1992।

नर० चन्द—16 अक्टूबर, 1992।

ये अदेश केन्द्रीय प्रशासनिक व्यावधिकारण के प्रधान बैठक में लिखित टी० ए० सं० 356/85 केंद्र सं० डब्ल्यू३/78 (एम० जी० केंद्र व अध्य बैठक भवन सरकार व अन्य) व्याख्यालों में लिखित प्रत्येक रूप में नियुक्त तथा प्रीन्त सहायक सिविल-

लियन स्टाफ अधिकारियों के पारस्परिक वरिष्ठता से संबंधित अन्य मामलों के अंतिम निर्णयाधीन हैं। ये नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय में दायर आरो २० से ३० खोसला बनाम भारत सरकार व अन्य तथा अन्य संबंधित मामलों 1984 के सिविल याचिका सं. 4133-34 तथा 1990 के सी० ३० डब्ल्यू सं. ४९३ के दिनांक 21 फरवरी, 1989 तथा 9 जनवरी, 1991 के निर्णयों को लागू करने में होने वाले आवश्यक परिशोधनों के भी ज्ञान है।

सेना शाखा

(क्यू० एम० जी० शाखा)

सशस्त्र सेना सिविल सेवा नियमावली 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों को दिनांक 9 दिसम्बर, 1993 से 26 अप्रैल, 1994 तक या नियमित पदधारी के मिलने में से जो भी पहले हो उस समय तक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया तथा क्यू० एम० जी० शाखा में तैनात किया गया है।

श्री के० सी० सरोज, मु० प्र० अ० ।

श्री जे० सी० नाहर, डी० जी० क्यू० ए० ।

श्री सोहन पाल, एम० एस० ।

2. ये नियुक्तियां पूर्ण रूप से अन्तः कालीन व्यवस्था के अधार पर हैं और इन्हें प्रशासनिक कारणोंवश या नियमित पदधारियों के उपलब्धि के फलस्वरूप बिना नोटिस दिए रह की जा सकती है।

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय

निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे दी गई तिथि से अगले आदेशों तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थानापन सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है:—

नाम नियुक्ति की तिथि

श्री करतार सिंह—16 अक्टूबर, 1992।

श्री टी० सी० आसीवाल—16 अक्टूबर, 1992।

श्री कोमल सिंह—16 अक्टूबर, 1992।

श्री चन्दन सेन गुप्ता—16 अक्टूबर, 1992।

श्री डी० वी० सिंह—22 फरवरी, 1993।

श्री गौतम राय—16 अक्टूबर, 1992।

श्री चौहल सिंह—16 अक्टूबर, 1992।

राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय

श्री विलोचन राऊत को दिनांक 27 अक्टूबर, 1993 से छह माह की अवधि अथवा नियमित पदधारी के मिलने में से जो भी पहले हो तक के लिए सशस्त्र सेना मुख्यालय, सिविल

सेवा नियम 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. ये नियुक्ति पूर्णतः काम चलाऊ व्यवस्था के लिए, की जाती है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने की दशा में बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है।

पी० एन० पौलिक

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 44, तारीख 20 दिसम्बर, 1993—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तिथि से कृतिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केन्द्र बंगलौर में एक वर्ष की अवधि के लिए वैज्ञानिक “सी” (तदर्थ) के रूप में:—

डा० एस० ए० श्रीनिवासन—10 सितम्बर, 1993।

डा० संजीव कुमार रस्तोगी—13 सितम्बर, 1993।

डा० अंजन बसु—24 सितम्बर, 1993।

डा० वी० विनय—27 सितम्बर, 1993।

कृतिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केन्द्र, बंगलौर के श्री जी० आर० शिवराम कुमार वैज्ञानिक “सी” (तदर्थ) को उसी केन्द्र में दिनांक 4 दिसम्बर, 1992 (पूर्वाह्न) से उसी केन्द्र में एक वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक “सी” के रूप में।

रक्षा इलेक्ट्रोनिक्स प्रयोज्यता प्रयोगशाला, देहरादून में दिनांक 21 अप्रैल, 1993 (पूर्वाह्न) से श्री राजेश कुमार गोपल को एक वर्ष की अवधि के लिए वैज्ञानिक “डी” (तदर्थ) के रूप में।

डी० जे० एन्ड्रेय  
सहायक निदेशक (कार्मिक)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 45, दिनांक 31 दिसम्बर, 1993—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से तथा स्थापना में दो वर्ष की परखावधि पर स्थायी वैज्ञानिक “बी” के पद पर

नाम स्वापना तारीख

कु० रंजना खट्टर, एस० ए० जी०, दिल्ली-19 नवम्बर, 1992 (पूर्वाह्न)।

श्री पी० वी० आई० आई० मोगेन्द्राराव, डी० आर० डी० एल०, हैदराबाद—30 सितम्बर, 1993 (पूर्वाह्नि)।

श्री के० सुचिन्द्र, डी० आर० डी० एल०, हैदराबाद—30 सितम्बर, 1993 (पूर्वाह्नि)।

कृ० बी० जयाश्री, डी० आर० डी० एल०, हैदराबाद—सितम्बर 1993 (पूर्वाह्नि)

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखि तारीख से तथा स्थापना से दो वर्ष की परखावधि के पर अस्थाई वैज्ञानिक "बी" के पद पर :—

नाम	स्थापना	तारीख
श्री विजू टी० कुंजीवेली, एस० पी० एल०,	दिल्ली—06	
अप्रैल, 1993 (पूर्वाह्नि)।		

मिस रचना मन्चदा एस० पी० एल०, दिल्ली—17 सितम्बर, 1993 (पूर्वाह्नि)।

श्री धीरज मल्होत्रा, डी० एस० सी०, दिल्ली—19 नवम्बर, 1992 (पूर्वाह्नि)।

श्री राजीव ग्रोवर, डी० एन० आर० डी०, दिल्ली—26 सितम्बर, 1990 (पूर्वाह्नि)।

श्री परिमल कुमार, आर० ए० सी०, दिल्ली—07 मई, 1992 (पूर्वाह्नि)।

श्री एस० राजा, एस० ए० जी०, दिल्ली—29 अक्टूबर, 1990 (पूर्वाह्नि)।

श्री वी० वी० एच० कृष्णा नन्दा इनामस, दिल्ली—06 अगस्त, 1992 (पूर्वाह्नि)

मस एल० सुन्दराजन, सी० ए० आई० आर०, बैगलौर 29 मार्च, 1993 (पूर्वाह्नि)।

आर० के० शर्मा  
सहायक निदेशक (कार्मिक)

#### सेना शाखा

सं० 46, दिनांक 31 दिसम्बर, 1993—राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3/विशेष/70 के अन्तर्गत निम्नलिखित गियुक्तियाँ करते हैं :—

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उन्हें 07 मार्च, 1992 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर पदोन्नति के लिए दिनांक 05 नवम्बर, 1987 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए दिनांक 07 मार्च, 1987 से वरिष्ठता के साथ सैकिन्ड लैफिटनेंट के रैंक में दिनांक 07 मार्च, 1992 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की तुलना से जिव्हे स्थायी कमीशन दिया जाएगा उनकी

परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी। उनकी वरिष्ठता के अनुसार उनकी दिनांक 07 मार्च 1992 से सैकिंड लैफिटनेंट के रैंक से दिनांक 05 नवम्बर, 1989 से वरिष्ठता सहित पदोन्नति की जाती है :—

हर्ष दोप शर्मा (एस० एस०-32744 अब आई० सी०-45809 ए), इन्फ०।

धाटनेकर प्रफुल गोविन्द (एस० एस०-32800 अब आई० सी०-45848 वाई) एम० ई०

वी० के० आनन्द  
कर्नल

कर्नल एम० एस० (आर० व आर०)

सेना शाखा  
(सैनिक अभियंता सेवा)

सं० 47, दिनांक 7 जनवरी, 1994—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने लिखी हुई तारीखों से "सहायक अधिशासी अभियंता" (भवन और सड़क) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। अधिकारीगण दो वर्ष तक परखावधि पर रहेंगे :—

(क) एम० ई० एस०-186186, श्री सत्य प्रकाश द्विवेदी—01 अप्रैल, 1993 (पूर्वाह्नि)।

(ख) एम० ई० एस०-186185, श्री दया नन्द आर्य—02 अप्रैल, 1993 (पूर्वाह्नि)।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने लिखी हुई तारीखों से "सहायक अधिशासी अभियंता" (भवन और सड़क) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। अधिकारीगण दो वर्ष तक परखावधि पर रहेंगे :—

(क) एम० ई० एस० श्री अब्दुल अली—17 मार्च, 1993 (पूर्वाह्नि)।

(ख) एम० ई० एस०, श्री गोपाल वार्ष्णेय—19 मार्च, 1993 (पूर्वाह्नि)।

1. राष्ट्रपति, एम० ई० एस०-8464768, श्री राम कृष्ण ग्रोवर, सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल) को 30 सितम्बर, 1992 (पूर्वाह्नि) से अगले आदेशों तक अधिशासी अभियंता (इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी दो वर्ष तक परखावधि पर रहेंगे।

राष्ट्रपति, श्री सुदेश कुमार गुप्ता, सहायक सर्वेक्षक एम० ई० एस०-506892 को 12 अक्टूबर, 1991 (पूर्वाह्नि) से अगले आदेशों तक सर्वेक्षक कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री मोहिन्द्र कुमार बंसल, अधिशासी अभियन्ता एम० ई० एस०-470786 को 17 जून, 1993 (पूर्वाह्नि) से

अगले आदेशों तक अधीक्षक अभियन्ता के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री उदय शंकर दलाई, एम० ई० एस० को 24 मई, 1993 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक सहायक अधिकारी अभियन्ता के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। अधिकारी दो वर्ष तक परखावधि पर रहेंगे।

ए० के० सेठी  
अवर सचिव

सं० 48, दिनांक 7 जनवरी, 1994—श्री विनायक लक्ष्मण दवाकर, मुख्य नवशानवीश को 12 मार्च, 1992 से अगले आदेशों तक तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। वह दो वर्ष तक परखावधि पर रहेंगे।

एम० ई० एस०-147023, श्री बंकल चिन्न नरसिंहल, अधीक्षक भवत और सड़क ग्रेड-1, को 16 अक्टूबर, 1991 (पूर्वाह्न), से अगले आदेशों तक सहायक अभियन्ता भवन और सड़क के पद पर नियुक्त किया जाता है। अधिकारी दो वर्ष तक परखावधि पर रहेंगे।

एस० एन० मुख्य  
कर्नल  
निदेशक कामिक “बी”

सेना शखा

सं० 49, दिनांक 22 दिसम्बर, 1993—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

प्रादेशिक सेना  
प्रादेशिक कानून  
कैप्टन बनाया जाता है।

संसार चन्द शर्मा, टी० ए० (एम०)-1167, ए० एम० सी० (टी० ए०)—24 जनवरी 1993।

राम भास्कर शुक्ला टी० ए० (एम०)-1168, ए० एम० सी० (टी० ए०)—06 फरवरी 1993।

तपस कुमार बोस, टी० ए० (एम०)-1169, ए० एम० सी० (टी० ए०)—02 जनवरी 1993।

रविन्द्र नाथ करमकार टी० ए० (एम०)-1170, ए० एम० सी० (टी० ए०)—14 नवम्बर 1992।

2/लेप्टि० बनाया जाता है, (परख पर)

अनिल वसन्त राधा मारडीकर, (टी० ए०-42164-ए० एस० सी०)—12 नवम्बर, 1992।

चौका मुरेन्द्रा बोबू (टी० ए०-42165) इन्जीनियर्स—30 नवम्बर, 1992।

बी० ए० नाराकणा राव (टी० ए०-42166) इन्जीनियर्स—30 नवम्बर 1993।

गिरी किन्हू (टी० ए०-42167) इन्जीनियर्स—30 नवम्बर 1992।

जे० जे० जया कुमार (टी० ए०-42168) इन्जीनियर्स—01 दिसम्बर 1992।

अशोक प्रताप तिह (टी० ए०-42169) इन्जीनियर्स—01 दिसम्बर, 1992।

के० ए० एन० माथुर, (टी० ए०-42170), इन्जीनियर्स—01 दिसम्बर, 1992।

जैनेन्द्रा दास, (टी० ए०-42171), इन्जीनियर्स—09 दिसम्बर, 1992।

2/लेप्टि० बनाया जाता है (परख पर)

वाई० रेडी मुरेन्द्र रेडी, टी० ए०-42156, इन्जीनियर्स—30 नवम्बर, 1992।

नूनील कुमार रहुरी, टी० ए०-42157, इन्जीनियर्स—30 नवम्बर, 1992।

संगम बतरहर, टी० ए०-42158, इन्जीनियर्स—30 नवम्बर, 1992।

मंदूर अरविंद, टी० ए०-42159, इन्जीनियर्स—30 नवम्बर, 1992।

प्रवाज कुनूर, टी० ए०-42161, इन्जीनियर्स—30 नवम्बर, 1992।

रितेन मल्हा, टी० ए०-42162, इन्जीनियर्स—30 नवम्बर, 1992।

रामेश्वर मार्गो चौधरी, टी० ए०-42163, इन्जीनियर्स—07 दिसम्बर, 1992।

जेवरहम० महादा, टी० ए०-42173, ए० एन० सा०—06 जनवरी, 1993।

अमय रावदा, टी० ए०-42174, इन्जीनियर्स—04 फरवरी, 1993।

ए० के० बक्शी

ल० कर्वेत

ए० दृष्ट० एस०-अर्ह०, सी०

अवर सचिव

## नौसेना शाखा

सं० 50, तारीख 31 दिसम्बर 1993—राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय के पद के पत्र सं० ओ एफ/1907/एन ए/क्यू/1895/यू एस/डी (एन-II) तारीख 28 मई 90 के अन्तर्गत इंजीनियरी शाखा (नेवल कंस्ट्रक्टर कोर) में कार्यकारी सब लेफिटेनेट के पद पर उनके नाम के सामने दी हुई तारीख से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

भारतीय नौसेना

(स्थायी कमीशन)

इंजीनियरी शाखा (नेवल कंस्ट्रक्टर कोर)

नाम	निजी नम्बर	कमीशन की तारीख
तोमर दिवाकर	41422-आर	07 अगस्त 89

राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० ओ एफ/140/एन एच क्यू/815/यू एस/डी (एन-II) तारीख 01 मई 89 के अन्तर्गत शिक्षा शाखा के निम्नलिखित नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्ति करते हैं :—

भारतीय नौसेना

(स्थायी कमीशन)

शिक्षा शाखा

नाम	निजी नम्बर	कमीशन की तारीख
ब्रह्मदत्त जी० बी०	70331-टी	13 फरवरी 89

बी० सतीश कुमार  
सी० एस० औ०  
ए.डॉ. एम पौ. आर  
(आर एण्ड आर)

## नौसेना मुख्यालय

सं० 51, दिनांक 13-12-93—निम्नलिखित त्यैकितक सहायक सहायता को उनके नाम के सामने दिखाई गई तिथि से 31-12-93 तक अथवा चयनसूची से उन्नीद्वारों की उपलब्धता तक, जो भी पहले हो सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिखित सेवा में अस्थायी अधार पर निजी सचिव नियुक्त किया जाता है :—

(1) श्री एस० एन० अटोडा—29 अक्टूबर 1993  
(अपराह्न)

(2) श्री एस० एस० भोगल—01 नवम्बर 1993।

2. उपरोक्त निजी सचिव की नियुक्ति निम्न शर्तों के अनुसार होगी :—

(क) नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी अधार पर है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना किसी सूचना के उन्हें प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(ख) उपर्युक्त पद के लिए नियमित अधार पर नियुक्ति के लिए वे न तो कोई दादा करेंगे और न ही अस्थायी अधार पर कोई गई सेवा को दरिघता के लिए गिना जाएगा।

पी० एन० मौलिक  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए)

## (सेना मुख्यालय)

सं० 52, दिनांक 5-1-94—राष्ट्रपति सहर्ष ले० जन० सुरिन्दर सिंह (आई० सी० 10008) अति० वि० से० मे० को 01 दिसम्बर 1993 (पूर्वाह्न) से पूरा हार्स के कर्नल के पद में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष मे० जन० बी० जयशंकर (आई० सी० 13946) को 01 नवम्बर (पूर्वाह्न) से माहर रेजीमेन्ट के कर्नल के पद में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष ब्रिग० बी० के० कपूर (आई० सी० 15861) को 01 दिसम्बर 1993 (पूर्वाह्न) से 6 आर्म्ड रेजीमेन्ट के कर्नल के पद में नियुक्त करते हैं।

के० पा० थामस  
एस सी० एस ओ० एम एस (एक्स)

सं० 53, दिनांक 5-1-94—राष्ट्रपति सहर्ष ले० जन० अजय सिंह (आई० सी० 7745) प० वि० से० मे०, अति० वि० से० मे० से० सेवा निवृत्त को 30 नवम्बर 1993 (अपराह्न) से पूरा हार्स के कर्नल के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष ले० जन० बी० बड़ौदा (आई० सी० 8214) प० वि० से० मे०, अति० वि० से० मे० सेवा निवृत्त को 31 अक्टूबर 1993 (अपराह्न) से माहर रेजीमेन्ट के कर्नल के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

ले० जन० अजयसिंह (आई० सी० 7745) प० वि० से० मे०, अति० वि० से० मे० सेवा निवृत्त को 30 नवम्बर, 1993 (अपराह्न) से 6 आर्म्ड रेजीमेन्ट के कर्नल के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

के० पी० थामस,  
एस० सी० एस० ओ०  
ए० एम० एस० (एक्स०)

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 54 दिनांक 21 दिसम्बर, 1993—निम्नलिखित पदोन्नति की जाती है :—

यत्व अनुसंधान एवं विकास संस्थान, देहरादून के श्री खड़क सिंह, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1 को दिनांक 4-10-93

(पूर्वाह्नि) से इसी संस्थान में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के पद पर।

हवाई वितरण अनुसंधान तथा विकास संस्थान, आगरा छावनी के श्री गया प्रसाद, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1 को दिनांक 1-10-93 (पूर्वाह्नि) से इसी संस्थान में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के पद पर।

अनुसंधान एवं विकास संस्थान (इंजीनियर्स) पुणे के श्री एस० के० कुरेशी, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1 को दिनांक 1-11-93 (पूर्वाह्नि) से इसी संस्थान में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के पद पर।

रक्षा सामग्री एवं भण्डार अनुसंधान तथा विकास स्थापना कानपुर के श्री पी० सी० चौधरी, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1 को दिनांक 29-10-93 (पूर्वाह्नि) से इसी स्थापना में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के पद पर।

रक्षा सामग्री एवं भण्डार अनुसंधान तथा विकास स्थापना कानपुर के श्री एम० पी० पाठक, वरिष्ठ भण्डार पालक को दिनांक 1-10-93 (पूर्वाह्नि) से इसी स्थापना में स्थानापन्न भण्डार अधिकारी के पद पर।

विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, पुणे के श्री एल० एन० शेकोडे, वरिष्ठ भण्डार पालक को दिनांक 6-10-93 (पूर्वाह्नि) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न भण्डार अधिकारी के पद पर।

विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, पुणे के श्री एम० उन्नीकृष्णन् लेखाकार को दिनांक 5-3-93 (पूर्वाह्नि) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर।

एन० सी० एम० एल० बम्बई के श्रीमती के० बी० राजन, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1 को दिनांक 1-10-93 (पूर्वाह्नि) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के पद पर।

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से तथा स्थापना/प्रयोगशाला में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर :--

क्र०सं०	नाम	स्थापना	तारीख
1	2	3	4

## सर्वश्री

- अनन्त राम आर०डी०(वै०) 29-10-93 पूना (पूर्वाह्नि)
- के० एस० पाल -वही- -वही-
- बी० बी० रिषी -वही- -वही-
- बो० रमेश बाबू सी० बी० आर० 29-10-93 डीई०, मद्रास (पूर्वाह्नि)

1	2	3	4
सर्वश्री			
5.	चरन सिह	डी० एम० एस० 29-10-93 आर० डी० ई०, (पूर्वाह्नि) कानपुर	
6.	मोहन कुजुर	-वही-	-वही-
7.	एस० एस० शुक्ला	-वही-	1-11-93 (पूर्वाह्नि)
8.	ए० के० समेना	-वही-	29-10-93 (पूर्वाह्नि)
9.	एन० जी० के० नायर ए० डी० ई०, बैगलौर		-वही-
10.	बी० रामा सुब्रामनियन	-वही-	-वही-
11.	एम० वैनकटेश मूर्ती	-वही-	-वही-
12.	पी० एन० साह	-वही-	-वही-
13.	मालथेशा नडियार	-वही-	-वही-
14.	एम० सीताराम भट्ट जी० टी० आर० ई०, बैगलौर	-वही-	-वही-
15.	आर० वासवान	-वही-	29-10-93 (पूर्वाह्नि)
16.	ओन्नी ब्र० स्वामीनाथन एल०आर०डी० ई०, बैगलौर		-वही-
17.	एस० एन० शर्मा	-वही-	-वही-
18.	आर० एन० बागची एल० आर० डी० 2-11-93 ई०, बैगलौर (पूर्वाह्नि)		
19.	एम० एस० शंकर	-वही-	-वही-
20.	के० रामा मोहन राव डी० एल० आर० 29-10-93 एल०, हैदराबाद (पूर्वाह्नि)		
21.	कु० सी० नामनी डी० आर० डी० एल०, हैदराबाद	-वही-	-वही-
22.	श्रीमती सी० पंकजावक्षी -वही-		-वही-
23.	टी० के० शील आई० आर० डी० 2-11-93 ई०, देहरादून	-वही-	-वही-
24.	बी० के० नन्दा -वही-		-वही-

श्रोएव० नारायण, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1, जी० टी० आर० ई०, बैगलौर को 1-10-93 (पूर्वाह्नि) से उसी स्थापना में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी के पद पर।

एम० एल० अरोड़ा,  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

## रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 55 तारीख 30-11-93—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

सुक्ष्म तरंग ट्यूब अनुसंधान तथा विकास केन्द्र बैंगलौर की श्रीमती बी० लता किस्टी वैज्ञानिक 'बी' को उसी केन्द्र में दिनांक 1-7-93 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न वैज्ञानिक 'सी' के रूप में।

गैस ट्यूबिंग अनुसंधान स्थापना बैंगलौर की श्रीमती के० ए० सुजाता वैज्ञानिक 'बी' को उसी स्थापना में 1-7-93 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न वैज्ञानिक 'सी' के रूप में।

वैज्ञानिक विकास स्थापना बैंगलौर के श्री एम० एन० जगदीश कुमार वैज्ञानिक 'बी' दिनांक 10-7-1993 (पूर्वाह्न) से उसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक 'सी' के रूप में।

पर्यावरण एवं विस्कोटक सुरक्षा केन्द्र, दिल्ली के श्री एस० एस० प्रसाद, वैज्ञानिक 'ई' उसी केन्द्र में 7-9-1993 (पूर्वाह्न) से स्थापनापन्न वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में।

डी० जे० एन्ड्रयू

सहायक निदेशक (कार्यिक)

## सेना शाखा

सं० 56 दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 को राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

ले० कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में

एल० डी० डोभल (आई० सी०-26412 वाई०) ए० ई० सी०—21 जनवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 1 जनवरी, 1992 से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

एम० एल० सभावल (आई० सी०-26563 एक्स०) ए० ई० सी०—6 जनवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 1 जनवरी, 1992 से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

आर० के० सहगल (आई० सी०-26635 डब्ल्यू०) ए० ई० सी०—15 जनवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 1 जनवरी, 1992 से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

के० एस० चौहान (आई० सी०-32096 ए०) इन्फॉन्ट्री—22 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 1 जनवरी, 1992 से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

जेक० कुर्दिश (आई० सी०-25000 एन०) इंजीनियर—1 जनवरी 1992।

2-444GI/93

आर० बी० नायर (आई० सी०-21103 एम०) इन्टकोर —25 अप्रैल 1993 परन्तु वरिष्ठता 1 अप्रैल 1991 से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

के० एन० भट्ट आई० सी०-19196 ए०) एन० ई० सी०-6 अप्रैल 1993 परन्तु वरिष्ठता 1 नवम्बर 1991 से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में  
(चयन द्वारा)

ए० एम० सेठी (आई० सी०-27001 इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

टी० एस० आनन्द (आई० सी०-27003 एक्स०) इन्टकोर—28 सितम्बर 1992 परन्तु वरिष्ठता 1 अप्रैल 1992 से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

के० एस० सेठी (आई० सी०-27004 ए०) आर्टी०—1 अप्रैल 1992।

एल० के० रावल (आई० सी०-27005 एक०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

जी० एस० घूमना (आई० सी०-27006 एल०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

पी० एस० बधवार (आई० सी०-27009 वाई०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

एच० एस० डिल्लन (आई० सी०-27010 एन०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

डी० के० मायने (आई० सी०-27013 पी०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

डब्ल्यू० पी० दास (आई० सी०-27016 एफ०) ए० ओ० सी०—30 जुलाई 1992 परन्तु वरिष्ठता 1 अप्रैल 1992 से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

जे० के० मेहंदीरत्ना (आई० सी०-27010 एक्स०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

ए० के० लाल (आई० सी०-27022 एच०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

आर० के० वर्मा (आई० सी०-27025 एल०) 28 जनवरी 1993 परन्तु वरिष्ठता 1 अप्रैल 1992 से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

पी० मेनन (आई० सी०-27026 वाई०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

एस० के० छेत्री (आई० सी०-27027 एफ०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

आर० एस० बटार (आई० सी०-27028 के०) इन्फॉन्ट्री—1 अप्रैल 1992।

के० पी० रमेश (आई० सी०-27029 एम०) ए० सी०—1 अप्रैल 1992।

कै० कै० सिंहल (आई० सी०-२७०३० एफ०), इंजी०—  
—१ अप्रैल 1992।

जै० सिंह (आई० सी०-२७०३४ एक्स०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल 1992।

कै० एस० खंडे (आई० सी०-२७०३५ ए), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल 1992।

ए० एम० वर्मा (आई० सी०-२७०३८ एन), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल 1992।

एस० कै० सेठी (आई० सी०-२७०४० एल०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल 1992।

एन० एल० पोल० (आई० सी०-२७०४१ एन), आर्टीलरी—  
—१ अप्रैल, 1992।

ए० कोल (आई० सी०-२७०५० पी०), इन्फैट्री—१  
अप्रैल, 1992।

ए० कै० सिंह (आई० सी०-२७०५२ ए०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

सी० एस० सिरोही (आई० सी०-२७०५८ एफ०),  
इन्फैट्री—१ अप्रैल, 1992।

ए० कुमार (आई० सी०-२७०५९ कै०), आर्टी०—१  
अप्रैल, 1992।

वी० कै० सिंह (आई० सी०-२७०६१ एफ०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

जी० एन० ज्ञा (आई० सी०-२७०६२ कै०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

कै० सी० कै० नाथर (आई० सी०-२७०६४ पी०),  
इंजीनियर—१ अप्रैल, 1992।

ए० डी० सैनी (आई० सी०-२७०६८ एल०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

कै० डी० पेगनिस (आई० सी०-२५८१३ एफ०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

एम० एम० चौधरी (आई० सी०-२५८१४ कै०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

जी० सिंह (आई० सी०-२५८१५ एम०), आर्टी०—१  
अप्रैल, 1992।

बी० सिंह (आई० सी०-२५८१६ पी०), इन्फैट्री—१  
अप्रैल, 1992।

एच० मोहन (आई० सी०-२५८१७ एक्स०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

जै० पी० एस० अहलुवालिया (आई० सी०-२५८१८ ए०),  
आर्टी०—१ अप्रैल, 1992।

ए० पी० सिंह (आई० सी०-२५८१९ एच०), इंजीनियर—  
—१ अप्रैल, 1992।

आई० जै० एस० सन्धू (आई० सी०-२५८२१ ए०), आर्टी०—  
—१ अप्रैल, 1992।

पी० कै० चक्रवर्ती (आई० सी०-२५८२२ एच०), आर्टी०—  
—१ अप्रैल, 1992।

डी० सी० कटोच (आई० सी०-२५८२४ एन०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

सी० सिंह (आई० सी०-२५८२५ डब्ल्यू०), ए० सी०—१  
अप्रैल, 1992।

आर० खेतरपाल (आई० सी०-२५८२६ वाई०) ई० एम०  
ई०—१५ जनवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठना १ अप्रैल, 1992  
से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

जै० एस० सेठी (आई० सी०-२५८२७ एफ०), आर्टी०—  
—१ अप्रैल, 1992।

एन० सिंह (आई० सी०-२५८२८ कै०), इन्फैट्री—१  
अप्रैल, 1992।

एन० जै० सिंह (आई० सी०-२५८२९ एम०), आर्टी०—  
—१ अप्रैल, 1992।

पी० एस० साही (आई० सी०-२५८३० एफ०), आर्टी०—  
—१ अप्रैल, 1992।

बी० आर० कुण्डलस (आई० सी०-२५८३१ कै०), आर्टी०—  
—१ अप्रैल, 1992।

एन० एन० कदम (आई० सी०-२५८३४ एक्स०),  
इन्फैट्री—१ अप्रैल, 1992।

एच० पी० एस० क्लेट (आई० सी०-२५८३६ एच०),—  
इन्फैट्री—१ अप्रैल, 1992।

ए० कै० चोपड़ा (आई० सी०-२५८३८ एन०), ए० ओ०  
सी०—१९ जुलाई, 1992 परन्तु वरिष्ठता १ अप्रैल, 1992  
से वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

बलजीन सिंह (आई० सी०-२५८२९ डब्ल्यू०), आर्टी०—  
—१ अप्रैल, 1992।

जी० सिंह (आई० सी०-२५८४१ एन०), आर्टी०—१  
अप्रैल, 1992।

पी० आर० पाटिल (आई० सी०-२५८४२ डब्ल्यू०),  
इन्फैट्री—१ अप्रैल, 1992।

एस० एस० अहलुवालिया (आई० सी०-२५८४४ एफ०),  
इन्फैट्री—१ अप्रैल, 1992।

आर० कै० गुप्ता (आई० सी०-२५८४५ कै०), इंजीनियर—  
—१ अप्रैल, 1992।

एस० पी० राये (आई० सी०-२५८४७ पी०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

वाई० एम० तिवारी (आई० सी०-२५८४९ ए०), इन्फैट्री—  
—१ अप्रैल, 1992।

- एस० एस० राजा (आई० सी०-25850 पी०), इन्फैन्ट्री—  
1 अप्रैल, 1992।
- आर० सुहांग (आई० सी०-25851 एक्स०), इन्फैन्ट्री—  
1 अप्रैल 1992।
- झ० सिंह (आई० सी०-25852 ए०), इन्फैन्ट्री—1  
अप्रैल, 1992।
- भनवर सिंह (आई० सी०-29074 एक्स०), इन्फैन्ट्री—  
1 नवम्बर, 1991।
- एस० एस० क्लेर (आई० सी०-29104 डब्ल्यू०)  
इन्फैन्ट्री—1 नवम्बर, 1991।
- के० जे० सिंह (आई० सी०-29254 ए०), इन्फैन्ट्री—  
1 नवम्बर, 1991।
- दर्शन सिंह (आई० सी०-29392 एफ०), इन्फैन्ट्री—  
1 नवम्बर, 1991।
- एस० के० ठाकुरी (आई० सी०-29460 के०), इन्फैन्ट्री—  
1 नवम्बर, 1991।
- बी० एस० रावत (आई० सी०-29677 एस०), इन्फैन्ट्री—  
1 नवम्बर, 1991।
- एस० सी० शर्मा (आई० सी०-29827 वाई०), इन्फैन्ट्री—  
1 नवम्बर, 1991।
- एन० एस० राजा (आई० सी०-24717 ए०), आर्टी०—  
1 नवम्बर, 1991।
- के० के० सक्सेना (आई० सी०-28536 एस०), इंटकोर—  
1 नवम्बर, 1991।
- टी० झ० शर्मा (आई० सी०-29528 ए०), आर्टी०—  
1 नवम्बर, 1991।
- रविन्द्र कुमार (आई० सी०-24760 एफ०), इन्फैन्ट्री—  
1 नवम्बर, 1991।
- जे० के० जेकब (आई० सी०-24816 एच०), आर्टी०—  
1 नवम्बर, 1991।
- बलर्हार सिंह (आई० सी०-24931 एच०) ए० एस०  
सी०—1 नवम्बर, 1991।
- झ० के० कपूर (आई० सी०-26938 एल०) ए० एन०  
सी०—1 मई, 1991।
- मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में  
(संमयमान ढारा)
- जी० एस० सोलंकी (आई० सी०-32763 के०) ए० एस०  
सी०—19 अप्रैल, 1993।
- पी० के० सूरी (आई० सी०-32799 एच०) हूंजीनियर—  
19 अप्रैल, 1993।
- आर० एस० माधुर (आई० सी०-32808 वाई०) ए०  
एस० सी०—19 अप्रैल, 1993।
- बी० के० नायर (आई० सी०-32820 ए०) आर्टी०—  
19 अप्रैल, 1993।
- नरेश शर्मा (आई० सी०-32940 एच०) आर्टी०—  
10 मई, 1993।
- एम० एम० खन्ना (आई० सी०-32618 एम०) सिमल—  
11 मई, 1993।
- के० बी० सिंह (आई० सी०-25471 वाई०) आर्टी०—  
14 मई, 1993।
- पी० जय कुमार (आई० सी०-25614 एन०) इन्फैन्ट्री—  
14 मई, 1993।
- रनजीत सिंह (आई० सी०-33018 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री—  
18 अक्टूबर, 1993।
- टी० मुद्रजी (आई० सी०-32714 पी०) इन्फैन्ट्री—  
19 अक्टूबर, 1993।
- बी० बी० दयानी (आई० सी०-32732 के०) इन्फैन्ट्री—  
19 अक्टूबर, 1993।
- आर० सिंह (आई० सी०-32735 एक्स०) इन्फैन्ट्री—  
19 नवम्बर, 1993।
- शंकर सिंह (आई० सी०-32740 एच०) आर्टी०—  
19 अक्टूबर, 1993।
- बी० के० बाली (आई० सी०-32742 एन०) इन्फैन्ट्री—  
19 अक्टूबर, 1993।
- जी० पी० दुमे (आई० सी०-32744 वाई०) ए० एस०  
सी०—19 अक्टूबर, 1993।
- के० एस० सिधू (आई० सी०-23751 पी०) इन्फैन्ट्री—  
19 अक्टूबर, 1993।
- जपनत रावत (आई० सी०-32766 एक्स०) इन्फैन्ट्री—  
19 अक्टूबर, 1993।
- झ० एस० पनपेहर (आई० सी०-32773 एन०) आर्टी०—  
19 अक्टूबर, 1993।
- ए० के० रमा (आई० सी०-32781 एम०) हूंजीनियर—  
19 अक्टूबर, 1993।
- एस० सी० सूद (आई० सी०-32783 एक्स०) हूंजीनियर—  
19 अक्टूबर, 1993।
- आर० एल० सोवत (आई० सी०-32788 डब्ल्यू०) ए०—  
एस० सी०—19 अक्टूबर, 1993।
- एस० वी० सिंह (आई० सी०-32789 वाई०) ए० ओ० सी०  
19 अक्टूबर, 1993।
- एस० एस० यिड (आई० सी०-32791 डब्ल्यू०) ए० ओ०  
सी०—19 अक्टूबर, 1993।
- पी० के० चपड़ा आई० सी०-32795 एम०), आर्टी०—  
19 अक्टूबर 1993।

एस० यादव (आई० सी०-32800 एम०), सिंगलल  
—19 अक्टूबर 1993।

बी० एल० बोहरा (आई० सी०-32804 एच०), इंजी०  
—19 अक्टूबर 1993।

बी० के० सेठी (आई० सी०-32180 इल्य०), इंजीनियर  
19 अक्टूबर 1993।

एम० एम० सिंहकी (आई० सी०-32814 एम०), इंजी०  
—19 अक्टूबर 1993।

बी० के० श्रीवास्तवा (आई० सी०-32815 पी०), इन्फैन्ट्री  
—19 अक्टूबर 1993।

एम० पुरुषे (आई० सी०-32821 एच०), इन्फैन्ट्री —  
19 अक्टूबर 1993।

डी० वी० पन्नवेंधा (आई० सी०-32822 एल०), सिंगलल  
—19 अक्टूबर 1993।

आर० एस० राठी (आई० सी०-32824 इल्य०), इन्फैन्ट्री  
19 अक्टूबर 1993।

के० पी० बालाकृष्णानन (आई० सी०-32913 पी०),  
इन्फैन्ट्री —10 नवम्बर 1993।

एस० पी० एस० परमार (आई० सी०-32918 एल०),  
इन्फैन्ट्री 10 नवम्बर 1993।

जी० एस० पुरेवाल (आई० सी०-32924 एफ०), ए० सी०  
—10 नवम्बर 1993।

पी० जे० एस० अद्वृजा (आई० सी०-32944 पी०), इन्फैन्ट्री  
—10 नवम्बर 1993।

आर० के० चौधरी (आई० सी०-32949 एच०), इन्फैन्ट्री  
—10 नवम्बर 1993।

एस० पी० दुरेजा (आई० सी०-36188 एल०), सिंगलल  
19 नवम्बर 1993।

प्रतिम सिंह (आई० सी०-36191 एल०), सिंगलल —  
19 नवम्बर 1993।

रोशन लाल (आई० सी०-28086 ए०), इन्ट कोर—  
30 अप्रैल 1990।

एच० आर० लहिल (आई० सी०-25139 एच०), इन्फैन्ट्री  
13 जून 1992।

बी० के० चड्हा (आई० सी०-32404 इल्य०), आर्टी०—  
टेलर्स 1992।

एच० के० अच्छे (आई० सी०-25756 एल०), ए० ई० सी०  
—14 नवम्बर 1992।

स० 57, विनांक 3-1-94 राष्ट्रपति निम्नलिखित  
अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं :—

### नियमित सेवा

#### स्थायी कमीशन

#### लैफिटनेट में कैप्टन

एम० एस० विज (आई० सी०-47008) आर्टीलीरी,  
टी० एस० मुवी (आई० सी०-47012) ए० सी० आर०  
ए० पी० सिंह (आई० सी०-47031) इन्फैन्ट्री, एस० एन०  
तीवारी (आई० सी०-47038) इन्फैन्ट्री, पी० एस० साम्बाल  
(आई० सी०-47067) सिंगलल, वार्षि कुमार (आई० सी०-  
47068) ए० सी०, संजीव त्यागी (आई० सी०-47073)  
ए० एस० सी०, वरिचर सिंह (आई० सी०-47077) इन्फैन्ट्री,  
एस० काकू (आई० सी०-47085) आर्टीलीरी, ओ० पी० राना  
(आई० सी०-47092) इन्फैन्ट्री, जे० सिंह (आई० सी०-  
47097) आर्टीलीरी, एस० एस० वेनीपाल (आई० सी०-  
47103) ए० एस० सी०, राजेश कुमार (आई० सी०-  
47116) सिंगलल्स, जे० एम० प्रसाद (आई० सी०-47124) ह००  
एम० ई०, ए० जैन (आई० सी०-47129) आर्टीलीरी,  
अख्य बक्षी (आई० सी०-47138) इन्फैन्ट्री, एन० गोयल  
(आई० सी०-47174) इन्फैन्ट्री, अलोक बेरी (आई०  
सी०-47177) आर्टीलीरी, जे० एस० तनवर (आई०  
सी०-47194) इन्फैन्ट्री, आर० के० बर्मन (आई० सी०-  
47202) आर्टीलीरी, वी० एम० नायक (आई० सी०-47204)  
ए० एस० सी०, एम० एस० बाजबा (आई० सी०-47234)  
आर्टीलीरी, के० रमेश कुमार (आई० सी०-47235) ह०० एम०  
ई०, एच० सिंह (आई० सी०-47236) आर्टीलीरी, एस० वर्मा  
(आई० सी०-47239) आर्टीलीरी, वी० पी० अद्यूले (आई०  
सी०-47240) इन्फैन्ट्री, आर० पी० एस० वराईच (आई०  
सी०-47252) इन्फैन्ट्री, ए० एस० ओझल (आई० सी०-47261)  
इन्फैन्ट्री, जी० एम० चौधरी, (आई० सी०-47265)  
इंजीनियर्स, बी० आर० तिवारी (आई० सी०-47266)  
(इंजीनियर्स, बी० आर० तिवारी (आई० सी०-47268)  
ए० एस० सी० एस० एस० गुरेंद्रिया (आई० सी०-47277)  
इन्फैन्ट्री, जे० एस० बोपाराय (आई० सी०-47284) आर्टीलीरी  
एस० कोशिक (आई० सी०-47285) इन्फैन्ट्री, यशपाल सिंह  
आई० सी० 47286) इन्फैन्ट्री, सौरभ काला (आई० सी०-  
47288) इंजीनियर्स, जी० एस० वर्मा (आई० सी०-47289)  
ए० एस० सी०, बी० एस० बाचबा (आई० सी०-47293)  
आर्टीलीरी

एस० जी० आर० घन्दर (आई० सी०-47307), ए०  
सी०—26 अप्रैल, 1993।

आर० एस० यादव (आई० सी०-47308), ए० एस० सी०—  
26 अप्रैल, 1993।

जी० आर० सिंहा (आई० सी०-47316), इंजीनियर्स—  
26 अप्रैल, 1993।

- य० प्रकाश (आई० सी०-47330), मिगनल्स—26 अप्रैल, 1993।
- हरीश कटोच (आई० सी०-47334), ए० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- बी० हैब्ले (आई० सी०-47340), ए० एस० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- प्रदीप कुमार (आई० सी०-47341), इंजीनियर—26 अप्रैल, 1993।
- बी० के० धनकर (आई० सी०-47345), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- जी० एस० एस० बिन्द्रा (आई० सी०-47346), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- बी० उपल (आई० सी०-47347), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- राहुल राय (आई० सी०-47358), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- मनीष कपूर (आई० सी०-47364), इंजीनियर—26 अप्रैल, 1993।
- रवि प्रकाश (आई० सी०-47369), ए० ओ० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- बलदी० सिल् (आई० सी०-47371), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- बी० एम० विर्क (आई० सी०-47381), मैक इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- जगन्नार सिह (आई० सी०-47383), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- ए० मल्होत्रा (आई० सी०-47384), ए० एस० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- आर० एस० पर्याण (आई० सी०-47385), ए० एम० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- के० एम० संतोष (आई० सी०-47386), ए० ओ० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- ए० के० शर्मा (आई० सी०-47387), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- जे० एस० हृष्णल (आई० सी०-47391), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- ए० मेहरोत्रा (आई० सी०-47392), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- के० प्रसाद (आई० सी०-47421), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- ए० घटुर्वदी (आई० सी०-47428), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- ए० मीलिक (आई० सी०-47430), ए० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- बी० एस० शेखावत (आई० सी०-47433), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- ए० एन० माथुर (आई० सी०-47434), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- आर० जगलाप (आई० सी०-47435), मिगनल्स—26 अप्रैल, 1993।
- जी० मजुमदार (आई० सी०-47436), ए० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- आर० के० चौधरी (आई० सी०-47437), ए० एम० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- बी० एम० चौहान (आई० सी०-47441), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- ए० एस० विल्डीयाल (आई० सी०-47446), ए० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- जी० एस० सिल् (आई० सी०-47451), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- हरेन्द्र निह (आई० सी०-47454), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- प्रवीन सिह (आई० सी०-47460), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- ए० एस० गिल (आई० सी०-47462), इन्फैन्ट्री—26 अप्रैल, 1993।
- आर० एस० बबल (आई० सी०-47463), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- ए० चौहान (आई० सी०-47467), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- विवेक शांजी (आई० सी०-47471), ए० एम० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- ए० बालजी (आई० सी०-47475), आर्टिलरी—26 अप्रैल, 1993।
- आर० के० वेमेरू (आई० सी०-47493), ए० ई० सी०—26 अप्रैल, 1993।
- पी० एम० सागवन (आई० सी०-47084), आर्टिलरी—19 दिसम्बर, 1993।
- ए० चौहान (आई० सी०-47223), इन्फैन्ट्री—19 दिसम्बर, 1992।
- जगदीश सिह (आई० सी०-47309), ए० ओ० सी०—19 दिसम्बर, 1992।
- प्रीतपाल सिह (आई० सी०-47321), ए० ओ० सी०—19 दिसम्बर, 1992।

जी० एस० सन्धु (आई० सी०-47354), ई० एम० ई०--  
--19 दिसम्बर, 1992।

दिवकर हितेशी (आई० सी०-47469), ई० एम० ई०--  
19 दिसम्बर, 1992।

तनमौयराय (आई० सी०-47542), ई० ई० सी०--  
19 दिसम्बर, 1992।

आर० पी० दाहिया (आई० सी०-49347), इंजीनियर्स--  
--26 अप्रैल, 1993।

एस० सुधीन्द्र (आई० सी०-49354), ई० एम० ई०--  
26 अप्रैल, 1993।

ए० के० शर्मा (आई० सी०-49355), ई० एम० ई०--26  
अप्रैल, 1993।

पी० के० मल्होत्रा (आई० सी०-49359), ई० एम० ई०--  
--26 अप्रैल, 1993।

ए० एस० तकशाक (आई० सी०-49362), ई० एम० ई०--  
--26 अप्रैल, 1993।

संजीव कुमार (आई० सी०-49365), इंजीनियर्स--  
26 अप्रैल, 1993।

जितेन्द्र जैन (आई० सी०-49370), ई० एम० ई०--  
26 अप्रैल, 1993।

ए० डी० थोराट (आई० सी०-49372), ई० एम० ई०--  
--26 अप्रैल, 1993।

सो० एस० बन्दाले (आई० सी०-49374), ई० एम० ई०--  
--26 अप्रैल, 1993।

ए० के० दास (आई० सी०-49380), इंजीनियर्स--26  
अप्रैल, 1993।

के० के० शर्मा (आई० सी०-49381), ई० एम० ई०--  
26 अप्रैल, 1993।

श्रीनग चौधरो (आई० सी०-49383), ई० एम० ई०--  
26 अप्रैल, 1993।

एस० डी० चौधरी (आई० सी०-49386), ई० एम० ई०--  
--26 अप्रैल, 1993।

एस० वाई०आर० देशमुख (आई० सी०-49387), ई०  
एम० ई०--26 अप्रैल, 1993।

आर० एम० नायर (आई० सी०-49388), इंजीनियर्स--  
--26 अप्रैल, 1993।

ए० के० जून (आई० सी०-49394), इंजीनियर्स--  
26 अप्रैल, 1993।

एस० के० पाण्डा (आई० सी०-49406), ई० एम० ई०--  
--26 अप्रैल, 1993।

अष्टन न्यायी (आई० सी०-49407), ई० एम० ई०--  
26 अप्रैल, 1993।

एस० एम० जान (आई० सी०-49409), ई० एम० ई०--  
--26 अप्रैल, 1993।

एस० गर्ग (आई० सी०-49414), ई० एम० ई०--26  
अप्रैल, 1993।

बी० एस० राव (आई० सी०-49415), ई० एम० ई०--26  
दिसम्बर, 1993।

एस० कार्की (आई० सी०-49348), इंजीनियर्स--20  
दिसम्बर, 1992।

के० जी० राजन (आई० सी०-49364), ई० एम० ई०--  
20 दिसम्बर, 1992।

के० डी० सिह (आई० सी०-49392), सिगनल्स--20  
दिसम्बर, 1992।

अपूर्व सिह (आई० सी०-47567), इन्फैन्ट्री--11 जून,  
1993।

विक्रम रेना (आई० सी०-47574), इन्फैन्ट्री--11 जून,  
1993।

अन्नय सेठी (आई० सी०-47580), आर्टिलरी--11  
जून, 1993।

एम० एस० सौहट (आई० सी०-47586), ए० एस०  
सी०--11 जून, 1993।

राजेन्द्र मेहता (आई० सी०-47600), आर्टिलरी--11  
जून, 1993।

वी० पी० एस० कौशिक (आई० सी०-47603), इन्फैन्ट्री  
--11 जून, 1993।

जयदेव सिह (आई० सी०-47608), इन्फैन्ट्री--11 जून,  
1993।

एस० के० सिह (आई० सी०-47611), ए० ओ० सी०--  
11 जून, 1993।

मरोन विपाठी (आई० सी०-47617), ए० सी०--11  
जून, 1993।

नवाब सिह (आई० सी०-47641), मैक इन्फैन्ट्री--11  
जून, 1993।

अनुरोध विश्वा (आई० सी०-47644), ई० एम० ई०--  
11 जून, 1993।

आर० के० वंसन (आई० सी०-47671), आर्टिलरी--  
11 जून, 1993।

दोरुक सहगत (आई० सी०-47689), इन्फैन्ट्री--11  
जून, 1993।

जो० आर० बी० कत्तावाद (आई० सी०-47692),  
इन्फैन्ट्री--11 जून, 1993।

जो० एम० गनाधारी (आई० सी०-47696), इन्फैन्ट्री  
11 जून, 1993।

ई० हरिशंकर (आई० सी०-47697), ए० एस० सी०—  
11 जून, 1993।

प्रियांका तेजी (आई० सी०-47701), इन्फैन्ट्री—11  
जून, 1993।

एस० वी० कदम (आई० सी०-47702), इन्फैन्ट्री—  
11 जून, 1993।

डो० के० गुर्जा (आई० सी०-47706), सिंगल्स—11  
जून, 1993।

जॉनसन जे० लोबो (आई० सी०-47709), इन्फैन्ट्री—  
11 जून, 1993।

राम भगत (आई० सी०-47714), ए० एस० सी०—  
11 जून, 1993।

सुरेश कुमार (आई० सी०-47719) ए० ओ० सी०—  
11 जून, 1993।

संदीप सिंह (आई० सी०-47723), इन्फैन्ट्री—11 जून,  
1993।

यू० एम० विसाल (आई० सी०-47726), मैक इन्फैन्ट्री—  
—11 जून, 1993।

मुद्दीप सिंह (आई० सी० 47728), इन्फैन्ट्री—11 जून  
1993।

सी० पी० एस० नेगी (आई० सी०-47734), इन्फैन्ट्री—  
11 जून, 1993।

राजीव मिश्रा (आई० सी०-47736), आर्टीलरी—11  
जून, 1993।

ए० के० मिश्रा (आई० सी०-47740), ई० एम० ई०—  
11 जून, 1993।

सी० एस० बाबू (आई० सी०-47745), आर्टीलरी—11  
जून, 1993।

राजीव चढ़ा (आई० सी०-47749), ए० सी०—11  
जून, 1993।

अजय श्रीधर (आई० सी०-47755), सिंगल्स—11  
जून, 1993।

अतुल विष्ट (आई० सी०-47757), इन्फैन्ट्री—11  
जून, 1993।

प्रतीक मोहिल (आई० सी०-47759), इन्फैन्ट्री—11  
जून, 1993।

सुरेश छन्दा (आई० सी०-47760), आर्टीलरी—11  
जून, 1993।

संजय लोखद (आई० सी०-47763), ए० सी०—11  
जून, 1993।

ए० एस० शेखावत (आई० सी०-47772), इंजीनियर्स  
—11 जून, 1993।

बै० पी० तिह (आई० सी०-47773), इन्फैन्ट्री—11  
जून, 1993।

पी० एस० भद्रेश्या (आई० सी०-47777), इन्फैन्ट्री—  
11 जून, 1993।

विनिन कमार (आई० सी०-47778), ई० एम० ई०—  
11 जून, 1993।

जे० एस० गोरक्षा (आई० सी०-47779), आर्टीलरी—  
11 जून, 1993।

एम० एस० घट्ट (आई० सी०-47781), इन्फैन्ट्री—  
11 जून, 1993।

बी० एस० घोड़ा (आई० सी०-47793), इन्फैन्ट्री—  
11 जून, 1993।

आर० के० राध (आई० सी०-47796), ए० ओ० सी०—  
11 जून, 1993।

जी० एस० गिल (आई० सी०-47804), इन्फैन्ट्री—  
11 जून, 1993।

विनिन्दर सिंह (आई० सी०-47805), सिंगल्स—11  
जून, 1993।

जाँ० पी० तिह (आई० सी०-47807), इन्फैन्ट्री—11  
जून, 1993।

बी० एस० बिष्ट (आई० सी०-47812), इन्फैन्ट्री—11  
जून, 1993।

विवेक नायर (आई० सी०-47814), ए० सी०—11  
जून, 1993।

आर० आर० शिंके (आई० सी०-47815), आर्टीलरी—  
11 जून, 1993।

विजय शुभार (आई० सी०-47823), ए० ओ० सी०—  
11 जून, 1993।

लोकेश-चन्द्र (आई० सी०-47826), आर्टीलरी—11  
जून, 1993।

बृजेन्द्र सिंह (आई० सी०-47829), ई० एम० ई०—  
11 जून, 1993।

सुब्रह्मिन्दर सिंह (आई० सी०-47833), आर्टीलरी—11  
जून, 1993।

पी० जे० सिंह (आई० सी०-47837), इन्फैन्ट्री—11  
जून, 1993।

अलोक नरेश (आई० सी०-47844), इन्फैन्ट्री—11  
जून, 1993।

सी० ए० जी० करवाल्हो (आई० सी०-47849), इन्फैन्ट्री—  
—11 जून, 1993।

विपन भाटिया (आई० सी०-47850), इन्फैन्ट्री—11  
जून, 1993।

पी० सी० नंथानी (आई० सी०-47856), हजीनियर्स—  
11 जून, 1993।

पी० एस० यादव (आई० सी०-47858), हन्केन्ट्री—  
11 जून, 1993।

यित्रद कुल्हा (आई० सी०-47862), आर्टीलरी—  
11 जून, 1993।

सुरेश बाबू पी० (आई० सी०-47867), हन्केन्ट्री—  
11 जून, 1993।

जौ० सी० हे० (आई० सी०-47872), आर्टीलरी—11  
जून, 1993।

फार्मिस फनडीज (आई० सी०-47874), मैक हन्केन्ट्री—  
11 जून, 1993।

एस० एस० ग्रेवाल (आई० सी०-47876), मिगनल्स—  
11 जून, 1993।

पृथीपाल सिंह (आई० सी०-47879), हन्केन्ट्री—11  
जून, 1993।

एवं० कॉ० इना (आई० सी०-47885), ए० एस० सी०—  
11 जून, 1993।

बी० एस० शेखावत (आई० सी०-47889), हन्केन्ट्री—  
11 जून, 1993।

ए० एस० ग्रेवाल (आई० सी०-47890), ए० एस० सी०—  
11 जून, 1993।

संदीप मिला (आई० सी०-47896), ए० सी०—11  
जून, 1993।

एस० कॉ० झा (आई० सी०-47900), हन्केन्ट्री—11  
जून, 1993।

एस० आर० मिश्रा (आई० सी०-47903), आर्टीलरी—  
11 जून, 1993।

जलज भार्गव (आई० सी०-47907), आर्टीलरी—11  
जून, 1993।

बी० एस० इलाल (आई० सी०-47909), हन्केन्ट्री—  
11 जून, 1993।

सुनील कम्पट (आई० सी०-47910), हन्केन्ट्री—11  
जून, 1993।

धार्म० जै० राव (आई० सी०-47913), हन्केन्ट्री—11  
जून, 1993।

शश्वर भार्गव (आई० सी०-47914), हन्केन्ट्री—11  
जून, 1993।

आर० एल० धन्या (आई० सी०-47915), हन्केन्ट्री—  
11 जून, 1993।

झी० कॉ० एस० चीहाह (आई० सी०-47920), ए० सी०—  
11 जून, 1993।

प्रमोद भगतानी (आई० सी०-47922), हन्केन्ट्री—11  
जून, 1993।

नेजिन्दर सिंह (आई० सी०-47925), हन्केन्ट्री—11  
जून, 1993।

सुधीर बुगलिंग (आई० सी०-47928), ए० सी०—  
11 जून, 1993।

राजीव भिंड (आई० सी०-47933), मिगनल्स—11  
जून, 1993।

ए० कै० मलिक,  
सी० एस० औ०  
टी० ए० एस० एस० ४ सी०

—  
सं० ५८, विनांक ३ बनवारी, 1994—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

हन्केन्ट्री  
गारद ब्रिगेड  
सूबेदार मेजर के रैंक में  
सूबेदार ईश्वर दास (जे० सी०-184145 एम)—०१  
सितम्बर, 1993।

सूबेदार के रैंक में  
नायब सूबेदार गया प्रमाद (जे० सी०-163860 एम)—  
१३ मई, 1993।

नायब सूबेदार बुद्धि राम सिंह यादव (जे० सी०-180683  
वाई)—०१ अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार सुलतान सिंह (जे० सी०-169113 एच)  
—०१ मितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार विजेन्द्र सिंह जादों (जे० सी०-169327  
वाई)—०१ सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार सुमेर लाल (जे० सी०-169329 के)—  
०१ सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-173123 के)—  
०१ सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार फकीरा सिंह (जे० सी०-174901 डब्ल्यू)  
—०१ सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार मीर सिंह यादव (जे० सी०-180670  
एफ)—०१ सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जे० सी०-184225 ए)—  
०१ सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार युद्धीर सिंह (जे० सी०-172966 एल)  
—०१ सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार लाल अहादुर (जे० सी०-172529 एल)  
--01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार धर्म पाल (जे० सी०-173115 एल)--  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार बाबू राम भारद्वाज (जे० सी०-169107  
पी)--01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार रनजीत सिंह (जे० सी०-173112 एस)  
--01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार प्रकाश अनंद किशना (जे० सी०-180679  
डब्ल्यू)--01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-174899 के)--  
01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार तरमेम सिंह (जे० सी०-180658 ए)--  
01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार विश्वनाथ (जे० सी०-180659 एच)--  
01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार जवाहर सिंह (जे० सी०-174900 एम)--  
01 नवम्बर, 1993।

पैराशूट रेजिस्ट्रेटर  
सूबेदार (लिपिक) के रैक में

नायब सूबेदार (लिपिक) अर्जि राम मुण्डेल (जे० सी०-  
194509 एकम)--01 नवम्बर, 1993।

मराठा लाइट इन्फैंट्री  
सूबेदार मेजर के रैक में

सूरेशर किशन वाचे (जे० सी०-108899 के)--01  
जून, 1993।

सूरेशर गाम राव कदम (जे० सी०-114401 पी०--  
01 अगस्त, 1993।

सूरेदार मेजर लिपिक के रैक में

सूरेदार लिपिक चन्द्रशेखर विनाकार्ड (जे० सी०-147424  
डब्ल्यू)--01 जून, 1993।

सूरेशर लिपिक विमलांग पाटील (जे० सी०-152821  
पार्ड)--01 जून, 1993।

सूबेदार मेजर (म्यूजिशियन) के रैक में

सूबेदार (म्यूजिशियन) किसन विराहा बट्टी (जे० सी०-  
157810 एन)--07 नवम्बर, 1992।

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार चामे मनोहर निवर्मनी (जे० सी०-164936  
पार्ड)--01 जून, 1993।

नायब सूबेदार मधुकर जिआ राम किलेदार (जे० सी०-  
171707 डब्ल्यू)--01 जूलाई, 1993।

नायब सूबेदार मांडरेदयानन्दगणपत (जे० सी०-169884  
डब्ल्यू)--01 जूलाई, 1993।

नायब सूबेदार पाटील जालीदर (जे० सी०-168838  
एल)--01 जूलाई, 1993।

नायब सूबेदार पाटील विजाम रंगराज (जे० सी०-168535  
एकम)--01 जूलाई, 1993।

नायब सूबेदार वाजी राध शिरके (जे० सी०-168837  
एन)--01 जूलाई, 1993।

नायब सूबेदार जाधव भिवसेन (जे० सी०-158990  
डब्ल्यू)--01 जूलाई, 1993।

नायब सूबेदार महेश भावन (जे० सी०-169140 एम)  
--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार एमोहम्मद अली (जे० सी०-167175  
के)--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार चवहाण बबन (जे० सी०-156883  
डब्ल्यू)--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार कलमकर भाऊ मिमांसी (जे० सी०-  
172985 डब्ल्यू)--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार धमाल शिवाजीअण्णा (जे० सी०-172737  
ए)--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जगताप श्रीरंग वगळ (जे० सी०-160882)  
एल)--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार विजाम माने (जे० सी०-172741 एच)  
--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार विष्णु शंकर बोरसे (जे० सी०-171849  
एल)--01 अगस्त, 1993।

सूबेदार लिपिक के रैक में

नायब सूबेदार लिपिक वामुदेवन नायरव्ही के० (जे० सी०-  
185501 के०)--01 जून, 1993।

नायब सूबेदार लिपिक वामु पाटील (जे० सी०-188369  
ए०)--01 जूलाई, 1993।

नायब सूबेदार लिपिक गजापान पिल्ले के० जी० (जे०  
सी०-188370 पी०)--01 जूलाई, 1993।

राजपूत रेजिस्ट्रेटर

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार अनंद शेला प्राप्ति (जे० सी०-162125  
पी०)--01 जूलाई, 1993।

नायब सूबेदार अर्जन सिंह (जे० सी०-171720 ए०)  
--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार शिव प्रभाद (जे० सी०-162126 एक्स०)  
--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी०-171916 एक)---  
29 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार मलकीप्रति सिंह (जे० सी०-177778 एक)  
---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार सूर्य पाल सिंह (जे० सी०-184987  
डब्ल्यू)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार सुखपाल सिंह (जे० सी०-183424 एक)  
---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार हीराम सिंह (जे० सी०-178257 एम०)  
01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार राज पाल सिंह (जे० सी०-181813 एच)  
---01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार रामबीर सिंह (जे० सी०-181814 एल)  
---01 नवम्बर, 1993।

#### जाट रेजिमेंट

##### सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार राजबीर सिंह, सेना मैडल (जे० सी०-122056  
एफ)---01 अगस्त, 1993।

##### सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार कल चन्द (जे० सी०-175967 वाई)---  
01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जे० सी०-177947 के)---  
01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार वेदपाल सिंह (जे० सी०-177974 एन)---  
01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार उदे सिंह (जे० सी०-181831 एल)---  
01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जे० सी०-184333 के)  
---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जे० सी०-179367 एन)  
---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार बहाना नन्द (जे० सी०-173196 डब्ल्यू)  
---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार हवा सिंह (जे० सी०-176305 एच)---  
01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार सूरज मल (जे० सी०-177948 एम)---  
01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार किशना राम चौधरी (जे० सी०-177949  
पी)---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार रुधा राम जाट (जे० सी०-181829  
एन)---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार आजाद सिंह (जे० सी०-181835 एक)  
---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-184344 डब्ल्यू)  
---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार इनवीर सिंह कलकल (जे० सी०-184345  
वाई)---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार राम कुमार अहलावत (जे० सी०-184334  
एम)---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार रवीर सिंह (जे० सी०-184337 ए)---  
01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार करण सिंह (जे० सी०-188656 के)---  
01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार रामजी लाल (जे० सी०-188667  
डब्ल्यू)---01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार आशा राम जाट (जे० सी०-152839  
पी)---01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार छाजु राम (जे० सी०-159200 एच)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार दिलदेश राज (जे० सी०-171727 के)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार चेतन राम (जे० सी०-168852 एच)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार महेंद्र सिंह (जे० सी०-175968 एक)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार मनदा राम (जे० सी०-175969 के)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार दिलारी सिंह (जे० सी०-177983 पी)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार बुध राम (जे० सी०-177956 एल)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार राम कुमार सिंह विजारनिधां (जे० सी०-  
180742 ए)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-188657 एम)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जे० सी०-175032  
वाई)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जे० सी०-162295 वाई)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार जय सिंह (जे० सी०-173184 एक)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार हरी चन्द तेवटिया (जे० सी०-177957  
एन)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार जगवीर सिंह (जे० सी०-185002 पी)---  
01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार पारीमल सिंह (जे० सी०-185172 वाई)  
--01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार याम कन्द्र जाट (जे० सी०-185761 पी)  
--01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार मूल चन्द (जे० सी०-156045 एफ)---  
01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार पूरन चन्द (जे० सी०-162299 पी)---  
01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार राज सिंह (जे० सी०-177958 डब्ल्यू)  
--01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार भोज राज सिंह (जे० सी०-196233  
एल)---01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार सत्वीर सिंह (जे० सी०-183001 एन)---  
01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-168869 डब्ल्यू)  
--01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार सुदेर सिंह (जे० सी०-175975 एक्स)---  
01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार चूना राम (जे० सी०-177946 एफ)---  
01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जे० सी०-168862 एम)  
--01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार माल बिह गौटाना (जे० सी०-169168  
एम)---01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार खजान सिंह (जे० सी०-177959 वाई)---  
01 अक्तूबर, 1993।

#### सूबेदार कलर्क के रैंक में

नायब सूबेदार कलर्क लाल सिंह यादव (जे० सी०-196486  
ए)---01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार कलर्क सोहन राम (जे० सी०-194590  
पी)---01 अक्तूबर, 1993।

#### सिख रेजिमेंट

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विजया भानू ई० (जे० सी०-141482 के)---01  
नवम्बर, 1993।

सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-139608 ए)---01  
नवम्बर, 1993।

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार साधू सिंह (जे० सी०-169395 एम)---  
01 सितम्बर, 1993।

#### सूबेदार कलर्क के रैंक में

नायब सूबेदार कलर्क सुरजीत सिंह (जे० सी०-193779  
ए)---01 नवम्बर, 1993।

#### कुमाऊँ रेजिमेंट

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शियो ताज (जे० सी०-176006 के)---  
01 जून, 1993।

नायब सूबेदार ललिता प्रसाद (जे० सी०-180771 पी)---  
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार देवी दत्त तेगाड़ी (जे० सी०-178056  
एन)---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार हरीश चन्द (जे० सी०-178062 एफ)---  
01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार चन्दगी राम (जे० सी०-180776 एन)---  
01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार लक्ष्मी दत्त (जे० सी०-179441 के)---  
01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार बची बिह बोरा (जे० सी०-180888 एन)  
--01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार मदन सोहन सिंह (जे० सी०-183053  
के)---01 सितम्बर, 1993।

#### राजाम रेजिमेंट

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार फुहरधांग मार (जे० सी०-112869 के)---  
01 जुलाई, 1993।

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार लिपनचूगांनुगां (जे० सी०-166746  
एल)---01 मार्च, 1993।

नायब सूबेदार विजयन नायर बी० एन० (जे० सी०-  
166741 एम)---01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार लीबन खोसत गंगते (जे० सी०-171767  
एल)---01 अक्तूबर, 1993।

नायब सूबेदार अंग वांगचो (जे० सी०-175093 डब्ल्यू)  
--01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार लालीनसांगा (जे० सी०-171768 एन)---  
01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार बाबू राम बासताकोटी (जे० सी०-172786  
एच)---01 दिसम्बर, 1993।

## बिहार रेजिस्टर

सूबेदार मेजर के रैक में

नायब सूबेदार रघुनान सिंह साव (जे० सी०-113989 पी)---  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार सत्य नारायण चौधे (जे० सी०-135807 डब्ल्यू)  
---01 अक्टूबर, 1993।

## सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-166110 के)---  
01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार अलवर्ट मिन्ज (जे० सी०-169246 वाई)  
---01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार महेश दास (जे० सी०-155763 एल)  
01 मई, 1993।

नायब सूबेदार आंठो मुद्दा (जे० सी०-173625एन)  
01 जून, 1993।

नायब सूबेदार धरमबिद्यास कुजूर (जे० सी०-176386  
एन)---01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार बुद्धल मॉझी (जे० सी०-183067 के)  
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे० सी०-169247 एफ)  
---01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार सनतेन जामुदा (जे० सी०-145581 के)  
---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार सुरेश प्रसाद यादव (जे० सी०-164616  
के)---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार रामजी सिंह (जे० सी०-175415 एल)  
---01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार फनिन्द्र कुमार यादव (जे० सी०-192476  
वाई)---01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार दीना नाथ सिंह (जे० सी०-172617 एफ)  
---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार जोसेफ सुरीन (जे० सी०-175423 के)  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार सिलमेस्टर टेटे (जे० सी०-172620 एफ)  
---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार बिन्दा राय (जे० सी०-192477 एफ)  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार रंजीत राम यादव (जे० सी०-172618  
के)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जे० सी०-175416  
एन)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार लिलू टुडू (जे० सी०-173928 एफ)---

01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार बेनेदीक बासकी (जे० सी०-155456 एन)  
---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार राम आसोश सिंह (जे० सी०-178064  
एम)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार काशी नाथ प्रसाद (जे० सी०-178065  
पी)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार श्याम जी सिंह (जे० सी०-185247 एल)  
---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार ललन सिंह (जे० सी०-192668 डब्ल्यू)  
01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार चंतन्य राम (जे० सी०-204347 एन)  
01 अक्टूबर, 1993।

## महार रेजिस्टर

सूबेदार लिपिक (जी० डी०) के रैक में

नायब सूबेदार लिपिक (जी० डी०) गिरधारी सिंह भाई  
(जे० सी०-196885 के)---01 फाराही, 1993।

नायब सूबेदार लिपिक (जी० डी०) तरंगोचन सिंह (जे०  
सी०-196886 एम)---15 अगस्त, 1993।

जम्मू और काशीर लाइट इन्फैन्ट्री  
सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-173963 के)---01  
अप्रैल, 1993।

सूबेदार चुर सिंह (जे० सी०-100485 एच)---01 जून,  
1993।

सूबेदार राम चन्द (जे० सी०-97507 एच)---01 जून,  
1993।

सूबेदार गवाश लाल सैन (जे० सी०-95797 एम)---01  
जून, 1993।

सूबेदार जोव सिंह (जे० सी०-105832 ए)---01 जुलाई,  
1993।

सूबेदार जनकार सिंह (जे० सी०-105833 एच)---01  
जुलाई, 1993।

सूबेदार कर्जूल सिंह (जे० सी०-100479 पी)---01  
अगस्त, 1993।

सूबेदार शादी लाल (जे० सी०-97377 एल)---01  
सितम्बर, 1993।

सूबेदार प्रकाश सिंह (जे० सी०-107404 ए)---01  
सितम्बर, 1993।

सूबेदार मोहम्मद बर्गीर (जे० सी०-118629 एच)  
01 अक्टूबर, 1993।

सूबेदार देव राज (जे० सी०-101258 ए)---01  
अक्टूबर, 1993।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

सूबेदार के रैक में

1 जी० आर०  
सूबेदार मेजर के रैक में  
सूबेदार इन्द्रा जंग थापा (जे० सी०-138560 एम)---  
27 अगस्त, 1993।

सूबेदार सी० राज थापा (जे० सी०-117293 एफ)---  
01 मितम्बर, 1993।

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार मुरेन्द्र लिह थापा (जे० सी०-175459  
एच)---27 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार गनेश बहादुर छेरी (जे० सी०-180906  
एल)---01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार चित्रा बहादुर गुरुंग (जे० सी०-176013  
ए)---01 मितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार हरि बहादुर (जे० सी०-180907 एन)---  
01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार सुरेण कुमार थापा (जे० सी०-183181  
एफ)---01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार इन्द्रा बहादुर थापा (जे० सी०-176014  
एच)---01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-178142 वाई)  
---01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार मुरेन्द्र जंग गुरुंग (जे० सी०-183142  
एच)---01 नितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार रुद्रा बहादुर रानी (जे० सी०-183143  
एम)---01 नितम्बर, 1993।

3 जी० आर०

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार सोम बहादुर थापा (जे० सी०-188704  
वाई)---01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार चित्रा बहादुर गुरुंग (जे० सी०-178151  
ए)---20 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार हरि बहादुर थापा (जे० सी०-180928  
के)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार नर बहादुर थापा (जे० सी०-180929  
एम)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार कल बहादुर थापा (जे० सी०-180930  
एफ)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार धन बहादुर थापा (जे० सी०-183155  
ए)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार गोपेन्द्र प्रभाद गुरुंग (जे० सी०-179486  
के)---01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार थापा (जे० सी०-179187  
एम)---01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार कुलदीप कुमार गुरुंग (जे० सी०-168633  
एफ)---01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार नेत्र बहादुर गुरुंग (जे० सी०-168639  
एच)---01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार शेख बहादुर गुरुंग (जे० सी०-168640  
एक्स)---01 नवम्बर, 1993।

लद्दाख स्टेट्स

सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार लोरा अर्गचुक (जे० सी०-175137  
एच)---01 मितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार कुगा नामस्याल (जे० सी०-175138  
एल)---01 मितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार लेरिंग गुट्टप (जे० सी०-175139 एन)---  
01 अक्टूबर, 1993।

सुखबीर सिंह कैमवाल, प्रब्रर भूचिव

म० 59, दिनांक 31 दिसम्बर, 1993---शष्ट्रपति,  
निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार लिम्ल मिह (जे० सी०-63760 एक्स)---01  
अप्रैल, 1993।

सूबेदार पी० घस्की (जे० सी०-93376 एम)---01  
अप्रैल, 1993।

सूबेदार सैमुएल थमान (जे० सी०-65323 इच्यू)---  
01 जुलाई, 1993।

सूबेदार जय रान थादव (जे० सी०-96712 एम)---  
01 जुलाई, 1993।

सूबेदार चित्रा नाय प्रसाद चौधरी (जे० सी०-113747  
एम)---01 जुलाई, 1993।

सूबेदार जगदीप प्रसाद शुक्ला (जे० सी०-111767  
एफ)---01 जुलाई, 1993।

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार ना नारायण (जे० सी०-139177 एन)---  
01 मई, 1993।

नायब सूबेदार पुनाय कुकूर (जे० सी०-138432 एन)---  
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार बनवाईल (जे० सी०-138453के)---  
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार विजयभरदवाल (जे० सी०-139183  
एम)---01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार अग्नि दीप सिंह (जे० सी०-138464  
इडल्पू)---01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार वायर राम (जे० सी०-138440 एम)---  
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार बासुदेव पनिकर पोर्टनुर प्रमेष्वरन (जे०  
सी०-138448 वाई)---01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार हरो राम (जे० सी०-118572 वाई)---  
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार श्री राम (जे० सी०-140144 ए)---01  
जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार भाले शिंह (जे० सी०-138420 वाई)---  
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार राम गोपाल (जे० सी०-138461 एच)---  
01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार तिरंजन शिंह (जे० सी०-138452  
एफ)---01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार बलबाई शिंह (जे० सी०-138450  
इडल्पू)---01 जुलाई, 1993।

प्रकाश बन्द,  
अवर मन्त्रिव

(चेन्ना शाखा)

मे० 60, दिनांक 22 दिसम्बर, 1993—राष्ट्रपति  
निम्नलिखित पदोन्नति करने हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैटटन से मेजर बनाया जाता है

कैटटन अंद० पी० जयसवाल (टी० ए०-41616),  
इन्फैन्ट्री—14 मध्य, 1991।

कैटटन ए०म० कौ० डे (टी० ए०-41827), इन्फैन्ट्री—  
21 मध्य, 1991।

कैटटन अनुप कुमार राय (टी० ए०-41687), इन्फैन्ट्री—  
06 जुलाई, 1992।

नेफिटेट से कैटटन बनाया जाता है

ले० जे० वी० प्रसाद (टी० ए०-41749), इन्फैन्ट्री—  
01 जुलाई, 1993।

ले० पी० ए०म० राठौर (टी० ए०-41752), इन्फैन्ट्री—  
01 जुलाई, 1991।

ले० पी० पी० अनंतराव (टी० ए०-11912), इन्फैन्ट्री—  
11 फरवरी, 1992।

ले० कौ० कौ० तत्त्वर (टी० ए०-11935), इन्फैन्ट्री—  
24 जून, 1992।

ले० ए०म० कौ० डोमरा (टी० ए०-41936), इन्फैन्ट्री—  
24 जून, 1992।

ले० ए०म० अर० डोमरा (टी० ए०-41948), इन्फैन्ट्री—  
30 मई, 1992।

ले० ए० श्रीनिशाम (टी० ए०-41953), इन्फैन्ट्री—  
25 जुलाई, 1992।

ले० निर्भय शिंह (टी० ए०-41737), इन्फैन्ट्री—06  
जुलाई, 1992।

ले० ए०म० कौ० पारिज (टी० ए०-41708),  
इन्फैन्ट्री—04 दिसम्बर, 1988।

ले०फिट०अ०८० ए०म० शर्मा (टी० ए०-41722), इन्फैन्ट्री—  
04 दिसम्बर, 1980।

ए० पी० पंडित,  
अवर मन्त्रिव

### थल सेना विभाग

मे० 61, दिनांक 28 दिसम्बर, 1993—राष्ट्रपति  
निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

इन्फैन्ट्री

109 इन्फैन्ट्री बटालियन प्रा० मे०

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार विश्वामीरात्त शावले (टी० जे०-3507)  
—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार गजानन ज्ञानवा माने (टी० जे०-3510)—  
01 अक्टूबर, 1993।

112 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार कुलदीप शिंह (टी० जे०-3281)—01  
अक्टूबर, 1993।

कौ० कुमार, ले० कर्नल,

जे० ए०म० ओ०-1/टी० ए०-3

### राष्ट्रीय कैडेट कॉर्स

मे० 62, दिनांक 3 जनवरी, 1994—राष्ट्रपति  
निम्नलिखित अकारों की भाग्य सरकार के पत्र मे० 3131/  
प्रगतिशील/टी० जे० ए०म० मी० सी०/ए०म० ए०-3 (बी) 818/  
ए/टी० (जे० ए०-6) दिनांक 07 अप्रैल, 81 के अनुसार

लैफिट० कर्नल के चयन रैक में पदोन्नति करते हैं। उनके बेतन का नियमन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पद सं० 5431/प्रमोशन/डी० जी० एन० सी० सी०/एम० एम० (बी) /1257/ए/डी० (जी० एस०-6) दिनांक 3 जन, 1981 के अनुसार किया जाएगा। स्थायी संवर्ग में उनकी पदोन्नति तथा बेतन के लिए उनकी वरिष्ठता रक्षा मंत्रालय के पद सं० 5110/81/डी० जी० एन० सी० सी०/पर्म०/ए/डी० (जी० एस०-6) दिनांक 13 मई, 1981 के अनुसार निश्चित की जाएगी।

पूर्णकालिक एन० सी० सी० स्थायी कमीशन प्राप्त  
अक्सर

(श्रृंखला संक्षेप)

(चयन द्वारा लैफिट० कर्नल के रूप में)

ओ० पी० वक्ता (एन० सी० सी०/पी० सी०-12333)-  
12 जुलाई, 1993।

महेन्द्र सिंह (एन० सी० सी०/पी० सी०-12096)---  
15 जुलाई, 1993।

शाल्पिति, निम्नलिखित अक्सरों द्वारा भारत सरकार के पद सं० 5431/प्रमोशन/डी० जी० एन० सी० सी०/एम० एस० (बी) /818/ए/डी० (जी० एस०-6) दिनांक 7 अप्रैल, 1981 के अनुसार कमाण्डर के चयन रैक में पदोन्नति करते हैं।

~~इस प्रति बतावान का नियमन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पद सं० 5431/प्रमोशन/डी० जी० एन० सी० सी०/एम० पर्म० (बी) /1257/ए/डी० (जी० एस०-6) दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के अनुसार किया जाएगा। स्थायी संवर्ग में उनकी पदोन्नति तथा बेतन के लिए उनकी वरिष्ठता रक्षा मंत्रालय के पद सं० 5110/81/डी० जी० एन० सी० सी०/पर्म०/डी० (जी० एस०-6) दिनांक 13 मई, 1981 के अनुसार निश्चित की जाएगी।~~

पूर्णकालिक एन० सी० सी० स्थायी कमीशन प्राप्त

(नौ सेना संक्षेप)

(लै० कमाण्डर से कमाण्डर के रूप में)

कै० एल० सिध्वानी (एन० सी०-सी०/पी० सी०-11634)  
11 नवम्बर, 1992।

टी० एस० स्थाल  
उप महानिदेशक (पी० एस० एफ०)

(नौसेना शाखा)

सं० 63, दिनांक 3 जनवरी, 1994—निम्नलिखित शीनियर फोरमैन को सिविलियन उक्तीकी सहायक के पद पर उनके सामने दिए गए दिनांक से पदोन्नति करते हैं:—

(क) श्री जी० मधु मोहन राव, सीनियर फोरमैन (विद्युत)---26 अक्टूबर, 1993।

(ख) श्री के० सत्यनारायण, सीनियर फोरमैन (विद्युत)  
---26 अक्टूबर, 1993।

(ग) श्री के० चलपाथी राव, सी० एस० फोरमैन (विद्युत)  
---26 अक्टूबर, 1993।

(घ) श्री ए० एम० राव वाला, सीनियर फोरमैन (शस्त्र)  
---11 अक्टूबर, 1993।

(ङ) श्री के० एस० मोहन, सीनियर फोरमैन (शस्त्र)  
19 अक्टूबर, 1993।

(च) श्री पी० हनुमथा राव, सीनियर फोरमैन (शस्त्र)  
---24 सितम्बर, 1993।

(छ) श्री एम० वी० चिसे, सीनियर फोरमैन (शस्त्र)---  
13 अक्टूबर, 1993।

(ज) श्री वी० पी० रंगराव, सीनियर फोरमैन (इंजी०)  
---28 जून, 1993।

(झ) श्री पी० सी० रामसेन, सीनियर फोरमैन (इंजी०)  
---26 अक्टूबर, 1993।

(ट) श्री एन० रामाकृष्णा, सीनियर फोरमैन (इंजी०)  
---1 नवम्बर 1993।

(ठ) श्री वाई० एम० कपरेकर, सीनियर फोरमैन (इंजी०)  
(इंजी०)---8 नवम्बर, 1993।

(ड) श्री डी० पी० नगीनकर, सीनियर फोरमैन (इंजी०)  
9 नवम्बर, 1993।

(ढ) श्री सी० वी० एस० पिंशारोडी---27 अक्टूबर,  
1993।

(त) श्री के० एस० वाडकर, सीनियर फोरमैन (निर्माण)  
---27 अक्टूबर, 1993।

(थ) श्री एच० ई० जक्कूस, सीनियर फोरमैन (निर्माण)  
---16 नवम्बर, 1993।

(द) श्री वी० गणेशन, सीनियर फोरमैन (निर्माण)---  
20 अक्टूबर, 1993।

(ध) श्री जी० महालक्ष्मी, सीनियर फोरमैन (निर्माण)---  
28 सितम्बर, 1993।

2. वे दो साल के लिए परखाधीन रहेंगे।

यू० एन० खन्ना

कमांडर

उप निदेशक सिविलियन कार्मिक

## वायु शास्त्र

म० 64, दिनांक 3 जनवरी, 1994—गणपति, निर्गन-  
विद्वित मूल पदोन्नति करते हैं—

## भारतीय वायुसेना

## उड़ान शास्त्र

## ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

एम० क० दभा (10106) उड़ान (प)—1 जुलाई,  
1991, (एन० एस०) —1 जुलाई, 1989।

(इनका नाम पदक्रम सूची में ग्रुप कैप्टन एम० सी०  
शर्मन्दा (10113) उड़ान (प) के ऊपर आयेगा)

एम० सी० कपूर, बी० एम० एम० (8984) उड़ान  
(प) —1 जुलाई, 1991।

ए० एम० क्षुशलपा (10177) उड़ान (प) —1 जुलाई,  
1991।

क० सी० कुरुक्षिला, बीरचक (10862) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

ए० ड० कणाधिकार, बी० एम० (10865) उड़ान  
(प) —1 जुलाई, 1991।

ज० एम० ग्रेवाल, बी० एम० (10866) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

एम० पी० एस० सिधु, बी० एम० एम० (11051)  
उड़ान (प) —1 जुलाई, 1991।

ए० ही० जोशी, बी० एम० (10886) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

आर० बी० कादके (10895) उड़ान (प) —1 जुलाई,  
1991।

एम० एम० घोसे (10896) उड़ान (प) (मेहानिकून)  
—1 जुलाई, 1991।

आर० बी० कुमार, वाई० एम० एम० (10918) उड़ान (प)  
—1 जुलाई, 1991।

एम० क० गुप्ता (10983) उड़ान (प) —1 जुलाई,  
1991।

टी० एस० मुरम ए० बी० एम० एम० (10916)  
उड़ान (प) —1 जुलाई, 1991।

ए० क० सिह, बी० एम० (11005) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

ई० मसन्द, बीर चक, बी० एम० (11272) उड़ान  
(प) —1 जुलाई, 1991।

बी० एन० लापरे, बीर चक (11285) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

टी० एस० चट्टवाल, एम० सी०, बी० एम० (11290)  
उड़ान (प) —1 जुलाई, 1991।

ज० ए० बैतजामन, बी० एम० (11296) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

ए० सिंहा, बी० एम० (11297) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

ज० ए० एस० गुजराल, बी० एम० (11300) उड़ान  
(प) —1 जुलाई, 1991।

आर० एन० मिह (11301) उड़ान (प) —1 जुलाई,  
1991।

बी० मेनन, बी० एम० (11307) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

एम० दीक्षा, बीरचक (11309) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

## ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

एस० एल० सुद (11317) उड़ान (प) —1 जुलाई,  
1991।

पी० क० ब्रिक्सनोई (11397) उड़ान (प) —  
1 जुलाई, 1991।

एफ० एच० मेझर, पी० एम० (11442) उड़ान  
—1 जुलाई, 1993।

## स्फीड्रून लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में

एम० सी० बीनोपन (109867) उ० (प०) —1 नवंबर  
1987।

(इनका नाम संयुक्त विरिट्टना सूची में विंग कमांडर बी०  
एन० रामचन्द्र (10920) उ० (प०) और अजिंत पदवानाभम  
(11292) उ० (प०) के बीच में आयेगा)।

सी० एम० ग्रेवाल (10939), उ० (प०) —2 अक्टूबर,  
1988।

(इनका नाम संयुक्त विरिट्टना सूची में विंग कमांडर एम०  
एन० पाटिल (10971) उ० (नै०) और ओ० एम० सोधी  
(10988) उ० (नै०) के बीच में आयेगा)।

बी० एवि कुमार (11031), उ० (प०) —2 अक्टूबर,  
1988।

(इनका नाम संयुक्त विरिट्टना सूची में विंग कमांडर  
आ० एम० लापल (11041) उ० (नै०) और ए० एम० वैद्रवान  
(11033) उ० (प०) के बीच में आयेगा)।

जी० मी० विविष्या (11432), उ० (प०) —1 दिसम्बर,  
1988।

(इनका नाम संयुक्त विरिट्टना सूची में विंग कमांडर  
ए० एम० गडकरी (11449), उ० (नै०) के ऊपर आयेगा)।

ए० क० श्रीवास्तव (11623), उ० (नै०) —1 जनवरी,  
1989।

(इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर एस० के० भौमिक (11606), उ० (पा०) और डी० ड्राईवर (11610) उ० (पा०) के बीच में आयेगा)।

एम० कपूर (12048), उ० (नै०)---2 अगस्त, 1989।

(इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर वी० के० शर्मा (12022) उ० (पा०) के ऊपर आयेगा)।

वाई० एस० अहलावत (12064), उ० (पा०)---3 अक्टूबर, 1989।

(इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर सुरेश कंपूर (12043), उ० (पा०) के नीचे आयेगा)।

के० जे० टैम्पलटन (10910), उ० (पा०)---1 नवम्बर, 1989।

(इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर ए० के० श्याम (12065) उ० (पा०) और पी० एस० बेहरे (11889) उ० (पा०) के बीच में आयेगा)।

प्रकृत्या० बक्शी (11684), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

एस० एम० वैलोरी (10565), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

एस० एस० सन्दिल (11629), उ० (नै०)---2 जून, 1990।

के० सिंह (11838), उ० (नै०)---2 जून, 1990।

एस० के० अरोड़ा (11872), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

डी० आर० दुर्विस्वामी (11887), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

एम० सुन्दरम् (12369), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

वी० एस० यादव (12373), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

पी० के० मिश्रा (12374), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

पी० के० बारबोरा (12375), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

आर० एल० त्वार्गी (12378), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

पी० एस० दीपनीश्वर (12379), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

एस० यू० आण्टे (12380), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

डी० डी० कंकरा (12422), उ० (नै०)---2 जून, 1990।

यू० एन० गांगुली (12381), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

एस० चौपड़ा (12385), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

जे० पी० एस० तलवार (12386), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

डी० एस० शहीद (12387), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

ए० खना (12388), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

के० एन० छिना (12389), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

वी० एस० रानावते (12390), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

नी० पी० वी० चौधरी (12394), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

ए० थापर (12395), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

ए० जी० थाड़नी (12428), उ० (नै०)---2 जून, 1990।

वी० एल० एन० राजू (12397), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

एस० के० लाल (12398), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

रम्जीत सिंह (12400), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

एम० के० गुलाटी (12401), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

वी० के० चौपड़ा (12402), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

डी० जे० एस० कंवर (12403), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

एस० के० घटनावक (12429), उ० (नै०)---2 जून, 1990।

एस० के० दीपित (12407), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

एस० रघ्याकुण्ड (12408), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

पी० सिंह (12409), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

वी० एस० करन्धिकार (12410), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

परवेश कुमार (12411), उ० (पा०)---2 जून, 1990।

- डी० एस० सीदाच (12413), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- एस० एस० सेशन (12414), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- सी० ओ० जे० सकलेटोन (12416), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- आर० के० लखवारा (12418), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- सी० ए० डालटन (12438), उ० (ने०)---2 जून,  
1990।
- एस० चैतन्य (12539), उ० (ने०)---2 जून, 1990।
- एस० एम० कुमार (12502), उ० (पा०)---2 जून  
1990।
- आर० के० चक्रावर्ती (12503), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- जी० एस० भोगल (12504), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- एस० सी० एस० अधिकारी (12505), उ० (पा०)---  
2 जून, 1990।
- डी० एस० तनेजा (12540), उ० (ने०)---2 जून,  
1990।
- एस० के० भान (12510), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- पुष्पेन्द्र सिंह (12512), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- प्रदीप पुरी (12513), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- सी० मुरुखीधर (12541), उ० (ने०)---2 जून,  
1990।
- डी० साही (12519), उ० (पा०)---2 जून, 1990।
- एन० सहगल (12521), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- अशोक मेहता (12522), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- पी० एफ० मान्टस (12524), उ० (पा०)---2 जून,  
1990।
- एस० सी० मदान (12546), उ० (ने०)---2 जून,  
1990।
- एस० ही० बी० बाई० जार्ज (12527), उ० (पा०)  
2 जून, 1990।
- डी० बी० वात्साती (12547), उ० (ने०)---2 जून,  
1990।
- के० एस० शर्मा (12534), उ० (पा०)---30 जून,  
1990।
- डी० एस० गिल (12534), उ० (पा०)---30 जून,  
1990।
- एन० पवार (12548), उ० (पा०)---30 जून  
1990।
- एच० एम० त्रिदवा (12529), उ० (पा०)---30 जून,  
1990।
- एम० एल० कपूर (9877), उ० (ने०)---30 जून,  
1990।
- आर० बी० पंडित (10134), उ० (पा०)---30 जून,  
1990।
- बी० जी० देसाई (10258), उ० (ने०)---30 जून,  
1990।
- के० एस० राव (10225), उ० (पा०)---24 जुलाई,  
1990।
- जे० एस० के० महाजन (12417), उ० (पा०)---31  
जुलाई, 1990।
- एच० पी० शुक्ला (12520), उ० (पा०)---31 जुलाई,  
1990।
- एस० जे० शेखर (12525), उ० (पा०)---31 जुलाई,  
1990।
- डी० एम० बरार (12749), उ० (पा०)---31 जुलाई,  
1990।
- कुलदीप शिवा (12750), उ० (पा०)---31 जुलाई,  
1990।
- बी० के० चोपड़ा (12752), उ० (पा०)---31 जुलाई,  
1990।
- एस० बी० महेन्द्रले (7220), उ० (पा०)---1  
अक्टूबर 1990।
- डी० जी० प्रकाश राव (10529) उ० (पा०)---1  
अक्टूबर 1990।
- राजेन्द्र सिंह (11621) उ० (ने०)---1 प्रक्तूबर  
1990।
- एस० सी० सिंह (12227) उ० (पा०)---1  
अक्टूबर 1990।
- बी० माथुर (7716) उ० (पा०)---1 अक्टूबर 1990।
- राज बहादुर सिंह (10109) उ० (पा०)---1 अक्टूबर  
1990।
- एस० बोस (12757) उ० (पा०)---31 अक्टूबर  
1990।
- पी० कपूर (12788) उ० (ने०)---31 अक्टूबर  
1990।
- ए० एस० अम्बाजे (12760) उ० (पा०)---31  
अक्टूबर 1990।
- डी० के० वासुदेवा (12790) उ० (ने०)---31 अक्टूबर  
1991।

- एस० के० गहलोड (12764), उ० (पा०)---31 जनवरी 1991।
- एन० वी० ख्यामी (12765), उ० (पा०)---28 फरवरी, 1991।
- बी० एस० कपारी (12766), उ० (पा०)---28 फरवरी, 1991।
- बी० गोविन्दराज (12791), उ० (न०)---28 फरवरी, 1991।
- एस० एस० बोस (12769), उ० (पा०)---28 फरवरी, 1991।
- भूपिन्द्रपाल सिंह (12772), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एस० के० टन्डन (12792), उ० (न०)---11 मार्च, 1991।
- एम० एच० साकी (12775), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- शंकर सिंह, (12795), उ० (न०)---11 मार्च, 1991।
- मन मोहन सिंह (12777), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- झी० झी० घटनेकर (12778), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एन० के० उपाध्याय (12779), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एम० जफरुल्लाह (12797), उ० (न०)---11 मार्च, 1991।
- टी० आर० शंकरन (12780), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- झी० एस० कार्मिक (12783), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- ए० आर० ओका (12786), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- अजय शर्मा (12419), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एच० के० बजाज (12762), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- झी० चतुर्वेदी (12965), उ० (न०)---11 मार्च, 1991।
- एस० मुकर्जी (12925), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- झी० आर० मोहन (12926), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० के० बोरा (12927), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० सी० उपल (12929), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एस० सी० मुकुल (12930), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एन० ए० मोहतरा (12931), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- पी० एस० चंग (12932), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- के० राजाराम (12933), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- ए० एस० लिम्बे (12934), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- पी० के० मूले (12936), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० एच० चड्ढा (12938), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- बी० आर० अम्बर (12939), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- झी० गजारे (12968), उ० (न०)---11 मार्च, 1991।
- बी० एस० बाजवा (12940), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- झी० शाही (12943), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- ए० एस० गिल (12944), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- टी० पी० श्रीवास्तवा (12946), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- पी० एल० सूथरा (12969), उ० (न०)---11 मार्च, 1991।
- टी० एस० रनधारा (12947), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० पी० एस० सचदेवा (12948), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- के० पी० देविया (12949), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० काकर (12951), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० जे० सिहानी (12953), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- झी० के० अरोरा (12954), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एस० अन्दर (12957), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।

- यू० जी० किरणी (१२९५९), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- एस० छल्यू० शिव (१२९७५), उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- के० आर० नारायण (१२९६०), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- डी० के० शर्मा (१२९६२), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- बी० गुप्ता (१२९७७), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- झी० के० रावल (१०६२७), उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- आर० एस० मल्हारी (१०९४५), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- झी० के० सन्धीर (१०५२३), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- झी० एस० गडोक (१२४२०), उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- झी० एस० लिवेदी (१२४२६), उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- एम० एफ० सिद्धिकी (१२४२७), उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- प्रदीप शर्मा (१२५४३), उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- ए० शौ० केसकर (१२५४५) उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- एम० ए० ए० कमल (१२७९३), उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- झी० के० शर्मा (१२७५३), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- एम० झी० पालेकर (१२९४५), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- एस० बागची (१२९७१), उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- वाई० छल्यू० जोशी (१२९७४), उ० (ने०)---११ मार्च,  
1991।
- ए० के० गुप्ता (१३०७२), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- एन० ए० के० ब्राउन (१३१२९), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- झी० कुकरेखा (१३१३०), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- एम० जैन (१३१३१), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- के० के० नोहवार (१३१३२), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- एस० दामोदरन (१३१३३), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- एस० के० जायसवाल (१३१३४), उ० (पा०)---११  
मार्च, 1991।
- बी० पी० नन्दराजोग (१३१३६), उ० (पा०)---११  
मार्च, 1991।
- एम० एम० हांजरा (१३१३७), उ० (पा०)---११  
मार्च 1991।
- एन० एच० कुलकर्णी (१३१३८), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- आर० मट्टाचार्य (१३१३९), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- ए० एस० कार्णिक (१३१४०), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- जी० मित्रा (१३१३४) उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- आर० एस० राघव (१३१४२) उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- एम० बी० मंजुनाथ (१३१४५), उ० (पा०)---११ मार्च  
1991।
- आर० प्रताप (१३१४६), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- अजीत० सिंह (१३१४७), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- जी० सी० कोषर (१३१४९), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- टी० जे० बर्मी (१३१५१), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- एम० एस० मलिक (१३१५५), उ० (पा०)---११  
मार्च 1991।
- आर० सी० बरुआ (१३१५६), उ० (पा०)---११  
मार्च, 1991।
- अरविन्द कुमार (१३१५७), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- आर० एस० दास (१३१५८), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।
- आर० राय (१३१६०), उ० (पा०)---११ मार्च,  
1991।

- शेर सिंह (13162), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- जे० एस० अहल्यालिया (13164), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- ए० आर० निंगम (13240), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- ए० गुप्ता (13241) उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- ए० गुप्ता, (13242) उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- झौ० एन० गनेश (13243), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- पी० एम० मथुरा (13244), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- बी० पी० नाजल्पा (13246), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- बी० के० यजुर्वेदी (13248), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- पी० के० गावरी (13249), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- के० स्वामीनाथन (13251), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- जी० आर० गोरखधिन्दी (13252), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- जो० एम० सुमरा (13253), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एच० एस० माहनी (13254), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एम० मुर्तु (13255), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- सी० एम० रघुपति (13256), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० नन्दी (13258), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० आर० अय्यर (13263), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एम० के० अग्रवाल (13264), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एष० एन० भवानी (13265), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- के० श्रीनिवास (13267), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- जे० के० सिंहा (13268), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० ई० केटकर (13269), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- के० जे० भट्ट (13271), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- ए० जी० पाटिल (13272), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एन० ढी० सूद (9493), उ० (न०)---11 मार्च, 1991।
- अमितव सेन (9543) उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- टी० एन० धवन (9505) उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० वाई० परमेश्वर (9747) उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एम० एष० बाखरे (9756), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- झौ० बी० सिंह (9768), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आई० जे० मदन (9879), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० एल० एस० कहलों (9801) उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० एस० वाही (9830), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एन० सी० विरकानी (9831) उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० बी० मिह (10262), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- जी० एस० शर्मा (10184), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- आर० डी० बहल (10228), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एच० एस० सिंह (10500), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- ए० बी० कुमार (10532) उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एस० एस० यादव (10634), उ० (त०)---11 मार्च, 1991।
- के० एम० तिवारी (11049) उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- टी० के० विनयराज (11438), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- एम० सुदर्शन (11868), उ० (पा०)---11 मार्च, 1991।
- बी० के० महेश्वरी (12242), उ० (पा०)---16 मार्च, 1991।

स्वाक्षर लीडर से विंग कमांडर के मूल रेक में

आर० बी० चित्तनिस (11845), उ० (पा०) -- 8 फरवरी,  
1989।

कुलधन्त सिह (11817) उ० (पा०) -- 8 फरवरी,  
1989।

[इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर  
रंजन (11815) उ० (नै०) के नीचे आएगा]

झौ० बी० के० सिह (11827), उ० (नै०) -- 1  
मार्च, 1989।

[इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर झौ०  
के० साहनी 11874) उ० (पा०) के नीचे आएगा]

झौ० झौ० बम्बोट (12025), उ० (पा०) -- 1 अगस्त,  
1989।

[इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर  
एस० जे० पोटे (12050) उ० (नै०) के नीचे आएगा]

पी० एस० प्रसाद (12231), उ० (पा०) -- 2 जून,  
1990।

[इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर झौ०  
आर० दूरा इस्कामी (11887) उ० (पा०) के नीचे आएगा]

पू० शास्त्री (12233), उ० (पा०) -- 2 जून 1990।

[इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर पी०  
एस० प्रसाद (12231) उ० (पा०) और एम० सुनवरम  
(12369) उ० (पा०) के बीच में आयेगा]

आर० पी० एम० नायर (12787), उ० (नै०) --  
31 जुलाई 1990।

[इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची विंग कमांडर झौ० के०  
चौपड़ा (12752), उ० (पा०) के नीचे आयेगा]

अनिल मल्ला (12759), उ० (पा०) -- 31 अक्टूबर,  
1990।

[इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची के विंग कमांडर एस०  
(12757) उ० (पा०) और पी० कपूर (12788), उ०  
(नै०) के बीच में आयेगा]

कुलमनवीर सिह (12784), उ० (पा०) -- 11 मार्च,  
1991।

[इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर झौ०  
एस० कार्तिक (12783), उ० (पा०) और ए० आर० ओका  
(12786), उ० (पा०) के बीच में आयेगा]

झौ० के० भारद्वाज (12544), उ० (नै०) -- 11 मार्च.  
1991।

[इनका नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में विंग कमांडर प्रदीप  
शर्मा (12543) उ० (नै०) और ए० बी० केसकर  
(12545); उ० (नै०) के बीच में आयेगा]

ए० एम० सिह  
स० कर्मिक निदेशक (अधिकारी) 2(ए०)

सेना शाखा

(क्यू० एम० जी० शाखा)

स० 65, विनांक 3 जनवरी, 94—क्यू० एम० जी० शाखा  
के सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री मुकन्दी साल, (जन्म तिथि  
1-1-36) 31-12-93 को 58 वर्ष निवृत्त आयु को  
प्राप्त होने पर दिनांक 31-12-93 (अपराह्न) से सेवा से  
निवृत्त तथा विनांक 1-1-94 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में  
स्थानान्तरित।

(एम० जी० ओ० शाखा)

एम० जी० ओ० शाखा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी  
श्री जे० के० कटारिया 24-12-93 (जन्म तिथि 25-12-35)  
58 वर्ष की निवृत्त आयु को प्राप्त होने पर विनांक  
31-12-93 (अपराह्न) से निवृत्त तथा दिनांक 1-1-94  
(पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित।

एम० जी० ओ० शाखा के पी० एस० श्री पी० सी० छल्मा  
16-12-93 (जन्म तिथि 17-12-35) 58 वर्ष की  
निवृत्त आयु को प्राप्त होने पर दिनांक 31-12-93 (अपराह्न)  
से निवृत्त तथा दिनांक 1-1-94 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना  
में स्थानान्तरित।

निम्नलिखित एम० जी० ओ० शाखा के सहायक सिविलियन  
स्टाफ अधिकारी उपने नाम के आगे लिखे तारीखों को 58 वर्ष  
की निवृत्त आयु को प्राप्त होने पर विनांक 31-12-93  
(अपराह्न) से सेवा से निवृत्त तथा विनांक 1-1-94 (पूर्वाह्न)  
से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित।

(क) श्री एस० बी० बंसल -- 14-12-93।

(ख) श्री ओ० पी० पात्रा -- 31-12-93।

(ग) श्री जे० सी० शर्मा -- 20-12-93।

पी० एस० मौलिक,  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

विद्युत और यान्त्रिक इंजिनीयर कोर

स० 66, विनांक 4 जनवरी, 94—निम्नलिखित अधिकारी  
निवृत्ति समय पर सेवा निवृत्त हुए:—

वर्कशाप सुपरिनेंटेन्डेन्ट श्री सी० जे० मलानी--31  
जुलाई 1993 (अपराह्न)

किरण कोलड़,  
अवार अधिकारी

## सेना शाखा

सं० 67, दिनांक 27 दिसम्बर 93—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को सेवा निवृत्त होने की अनुमति देते हैं:—

## प्रादेशिक सेना

## प्रादेशिक कमीशन

सं० 60 के० श्रीनिवास राव (टीए-41848), इंजीनियर्स, 31 मई 1992 (ए० एन०)

2/सं० जी० पी० शर्मा (टीए-41861), इंजीनियर्स, 31 मई 1993 (ए० एन०)

मेजर एन० एस० खूराना (टीए एम-1101), ए एमसी, 30 अप्रैल 1993 (ए० एन०)

सं० 68, दिनांक 12 जनवरी 94—राष्ट्रपति, लेफिट० कर्नल मिकाहल अलेक्जेंडर रॉवर्ट स्किनर, स्किनर हार्स (सेवा निवृत्त) को 6 दिसम्बर 1993 से लिंगोड़ियर का आनंदरी रैक प्रवान करते हैं।

ए० के० जैन, संयुक्त सचिव (जा०)

## (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग)

सं० 69, दिनांक 30 दिसम्बर 93—एम० एस० क्य० ए० ए० हैदराबाद के श्री के० एसन कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II का दिनांक 2 दिसम्बर, 1993 को देहावसान हो गया।

आर० के० ओशा, अबर सचिव

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

जी० आर० डी० एस०

## शुद्धि- पत्र

सं० 70, दिनांक 3 जनवरी 94—थी सुरेश चन्द्र, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी-II रक्षा सामग्री एवं भण्डार अनुसंधान तथा विकास स्थापना, कानपुर से सम्बन्धित राजपत्र अधिसूचना के प्राप्त सं० आर० डी०/कामिक-7/473/एस० ए० ओ० दिनांक 24 फरवरी 92 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—  
पंक्ति 4 में।

“दो वर्ष की परखावधि” के स्थान पर

“एक वर्ष की परखावधि” पढ़े।

आर० के० शर्मा, सहायक निदेशक (कामिक-8)

## (थल सेना विभाग)

सं० 71, दिनांक 30 दिसम्बर 93—सं० 12, दिनांक 20 मार्च 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 195 दिनांक 15 फरवरी 1993 के शीर्षक “नियमित सेना” ‘कोपर्स आफ इंजीनियर्स’, उपशीर्षक “एम० ई० एस० मिलट्री केडर”, में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

## नीचे ‘नायब सूबेदार के रैक में’

के स्थान पर नायब सूबेदार रवीन्द्र भिंह (अब जे० सी० -224926 एफ) — 6 अक्टूबर, 1990।

पढ़ा जाए नायब सूबेदार रवीन्द्र भिंह (अब जे० सी० -224926 एफ) — 6 अक्टूबर, 1990।

सं० 20, दिनांक 15 मई 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 396 दिनांक 13 अप्रैल 1993 के शीर्षक “नियमित सेना” “कोर्स आफ इंजीनियर्स”, उपशीर्षक “एम० ई० एस० मिलट्री केडर”, में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

## नीचे “सूबेदार मेजर के रैक में”

के स्थान पर सूबेदार के एम० पिलो रत्नापन (जे० सी० -87009 एन), 1 मार्च 1990।

पढ़ा जाए सूबेदार के० एस० पिलो रत्नापन (जे० सी० -87009 एन) 1 मार्च 1990।

## नीचे “सूबेदार के रैक में”

के स्थान पर सूबेदार वेन्कटास्वामी गोविन्दास्वामी (जे० सी० -993368 एच), 1 दिसम्बर 1990।

पढ़ा जाए नायब सूबेदार वेन्कटास्वामी गोविन्दास्वामी (जे० सी० -993368 एच) 1 दिसम्बर 1990।

सं० 52, दिनांक 29 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1671 दिनांक 26 नवम्बर 1990 के शीर्षक “नियमित सेना” “कोर आफ इंजीनियर्स”, उपशीर्षक “एम० ई० एस० मिलट्री केडर”

## नीचे (नायब सूबेदार के रैक में)

के स्थान पर हवलदार सुभाष चन्द्र (1458832 डब्ल्यू० अब० जे० सी० -197221 एच), 19 जनवरी 1990।

पढ़ा जाए हवलदार सुभाष चन्द्र कटीच (1458832 डब्ल्यू० अब० सी० -197221 एच) 19 जनवरी 1990।

सं० 16, दिनांक 17 अप्रैल 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 307 दिनांक 26 फरवरी 1993 के शीर्षक “नियमित सेना”, “कोर्स आफ इंजीनियर्स”, उपशीर्षक “एम० ई० एस० मिलट्री केडर” में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

## नीचे “नायब सूबेदार के रैक में”

के स्थान पर हवलदार राजिन्द्र भिंह (1447790 पी० अब० जे० सी० 210359 वई०) 24 अप्रैल 1991।

पढ़ा जाए हवलदार राजिन्द्र भिंह (1447790 पी० अब० जे० सी० 210359 वई०) 24 अप्रैल 1991।

के स्थान पर हवलदार गाल एम० (1461908 डब्ल्यू अब जे० सी०-210367 एस), 14 मई 1991।

पड़ा जाए हवलदार शार्स एम० (1461908 डब्ल्यू अब जे० सी०-210367 एस), 14 मई 1991।

के स्थान पर हवलदार जोगिन्द्र सिंह भेगनारिया (1455884 एक अब जे० सी०-210408 डब्ल्यू), 6 मई 1991।

पड़ा जाए हवलदार जोगिन्द्र सिंह भगतारिया (1455884 एक अब जे० सी०-210408 डब्ल्यू), 6 मई 1991।

के स्थान पर हवलदार थाडे लिम्बा (1547886 एम अब जे० सी०-210444 एक), 8 अप्रैल 1991।

पड़ा जाए हवलदार थेडे लिम्बा (1547886 एम अब जे० सी०-210444 एक), 8 अप्रैल 1991।

19 जून 93 के भारत के राजपत्र सं० 25 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 531, तारीख 14 मई 93 में शार्पिक "नियमित सेना" उपशार्पिक "कोर अफ इंजीनियर्स" और बम्बई इंजीनियर मुप के अन्तर्गत

हवलदार (जी० डी०) रिचर्डालं शर्मा (सं० 1544853 डब्ल्यू अब जे० सी०-347066 ए), 30 सितम्बर 1992@

@(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1992 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैक में

#### षुद्धि-पत्र

पहले हवलदार (जी० डी०) शिवे सुरेश भिकु (सं० 8023967 एम अब जे० सी०-347067 एच), 1 जनवरी 1992।@

अब हवलदार (डी० डी०) शिवे सुरेश भिकु (सं० 8023967 एम अब जे० सी०-347067 एच) 1 जनवरी 1993।@

पहले हवलदार (जी० डी०) मंगत सिंह (सं० 1546431 के अब जे० सी०-347069 एन), 4 जनवरी 1992।@

अब हवलदार (जी० डी०) मंगत सिंह (सं० 1546431 के अब जे० सी०-347069 एन), 04 जनवरी 1993।@

पहले हवलदार (जी० डी०) हरदेव सिंह (सं० 1538211 के अब जे० सी०-347020 एक्स), 01 अगस्त 1992।@

अब हवलदार (जी० डी०) हरदेव सिंह (सं० 1538281 के अब जे० सी०-347020 एक्स), 01 अगस्त 1992।@

पहले हवलदार (जी० डी०) तरकेन सिंह (सं० 1566573 एक्स अब जे० सी०-347038 एन), 9 नवम्बर 1992।@

अब हवलदार (जी० डी०) तरकेन सिंह (सं० 1566573 एक्स अब जे० सी०-347038 एन), 9 नवम्बर 1992।@

जोड़े हवलदार (जी० डी०) सोहन सिंह (सं० 1543421 पी अब जे० सी०-347040 एल), 16 नवम्बर 1992।

नायब सूबेदार (कलर्क जी० डी०) के रैक में

पहले हवलदार (कलर्क जी० डी०) मोहिन्दर सिंह यादव (सं० 1551398 एक अब जे० सी०-347009 एल), 01 सितम्बर 1992।\*\*

अब हवलदार (कलर्क जी० डी०) मोहिन्दर सिंह यादव (सं० 1551398 एक अब जे० सी०-347006 एल), 01 सितम्बर 1992।\*\*

पहले हवलदार (कलर्क जी० डी०) नायब सिंह खट्टी (सं० 1551435 के अब जे० सी०-347050 एन), 8 सितम्बर 1992।=

अब हवलदार (कलर्क जी० डी०) नायब सिंह खट्टी (सं० 1551435 के अब जे० सी०-347010 एन), 8 सितम्बर 1992।=

11 सितम्बर 93 के भारत के राजपत्र सं० 37 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 827, तारीख 5 अगस्त 93 में शार्पिक "नियमित सेना" उपशार्पिक "कोर अफ इंजीनियर्स" और बम्बई इंजीनियर मुप के अन्तर्गत

हवलदार (कलर्क जी० डी०) केवल सिंह (सं० 1548779 एक्स अब जे० सी०-347095 पी), 11 मार्च 1993।

नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 1993 से दी जायेगी।

पहले हवलदार (कलर्क जी० डी०) करनैल सिंह (सं० 1547413 एन अब जे० सी०-347096 एक्स), 11 मार्च 1993।

अब हवलदार (कलर्क जी० डी०) करनैल सिंह चौहान (सं० 1547413 एन अब जे० सी०-347096 एक्स), 11 मार्च 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैक में

पहले हवलदार (जी० डी०) शश्कुट खान (सं० 1574067 एक्स अब जे० सी०-347090 डब्ल्यू), 17 अप्रैल 1993।

अब हृष्णदार (जी० ओ०) शकुर खान (सं० 1547067  
एच० अब जे० सी० 347090 डब्ल्य०) 17 अप्रैल 1993।

सं० 16, दिनांक 17 अप्रैल 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 307, दिनांक 26 फरवरी 1993 के शीर्षक “नियमित सेना”, उपशीर्षक “कोर आफ इंजीनियर्स”, और “बंगाल इंजीनियर ग्रुप” के अन्तर्गत :—

“नायब सूबेदार कर्लक के रैक में”, के नीचे

के स्थान पर—हृष्णदार कर्लक जगदीश कुमार कोमल (1460593 एल० अब जे० सी० -210793 एल०) 19 अगस्त 91££

पढ़ा जाए—हृष्णदार कर्लक जगदीश सिंह कोमल (1460593 एल० अब जे० सी०-210793 एल०) 19 अगस्त 91££

ओ० आर० धनकानी  
अवर सचिव

सं० 72, दिनांक 3-1-94 भारत के राजपत्र में मंत्रालय की अधिसूचना सं० 429, दिनांक 21 अप्रैल 93 के अन्तर्गत जो कि राजपत्र सं० 21, दिनांक 22 मई 93 के शीर्षक “नियमित सेना” उप शीर्षक “इन्फैन्ट्री” के अन्तर्गत नायब सूबेदार के रैक में नीचे :—

के स्थान पर—हृष्णदार विलिप (सं० 2576146 डब्ल्य० अब जे० सी०-226175 के०) दिनांक 30 जून 1991.

(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1992 से दी जाएगी)।

पढ़ा जाएगा—हृष्णदार विलिप (सं० 2576146 डब्ल्य० अब जे० सी०-226175 के०) दिनांक 30 जून 1992.

(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1992 से दी जाएगी)

29 मई 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित (पेज मं० 996) रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 450, तारीख 21 अप्रैल 1993 में शीर्षक ‘दी राजपूताना राहफल्स’ उपशीर्षक ‘नायब सूबेदार के रैक में’ निम्नलिखित एन० सी० ओ० (अब जे० सी० ओ०) का जे० सी० संख्या इस प्रकार बदली किया जाये :—

- हृष्णदार हन्दर निह-जे० सी० 468039 के स्थान पर  
जे० सी० 468030 के पढ़ा जाये।

मद्रास रेजिमेंट अभिलेख कार्यालय की पद सं० सी०/013301  
जे० सी० ओ०/216/एम-2, दिनांक 3 मित्तम्बर 1993  
द्वारा नायब सूबेदार के पद के उन्नति के लिए ऐसे गए  
राजपत्र अधिसूचना में, जो राजपत्र अधिसूचना के शीर्षक  
नियमित सेना “उपशीर्षक इन्फैन्ट्री” (मद्रास रेजिमेंट) के  
अन्तर्गत नायब सूबेदार के पद के लिए प्रकाशनाधीन :—

के स्थान पर—हृष्णदार राजेन्द्रन आर० (सं० 2576277  
एफ० अब जे० सी०-438107 एम०) 12 मई 1993।

पढ़ा जाए—हृष्णदार राजेन्द्रन आर० (सं० 2576277  
एफ० अब जे० सी०-438107 एम०) 30 जून 1993\*।

\* (नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 12 मई 1993 से दी जाएगी)।

के स्थान पर—हृष्णदार राजेन्द्र कुरुप के० (सं० 2576558  
एक्स० अब जे० सी०-438115 एल०) 1 जुलाई 1993।

पढ़ा जाए—हृष्णदार राजेन्द्र कुरुप के० (सं० 2576558  
एक्स० अब जे० सी०-438115 एल०) 22 अगस्त 1993।

\* (नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1993 से दी जाएगी)।

सुखवीर सिंह कौमथाल  
अवर सचिव

(नौसेना शाखा)

सं० 73, दिनांक 4 जनवरी, 1994—भारत के राजपत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 1993 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

“(क) पैरा एन में :—

श्री ए० जे० कारण्डोज, सीनियर फोरमैन (इंजिं) को  
सिविलियन तकनीकी सहायक (इंजिं) के पद पर पदोन्नति  
करते हैं के स्थान पर श्री ए० जे० कारण्डोज, सीनियर  
फोरमैन (शस्त्र) को सिविलियन तकनीकी सहायक  
(शस्त्र) के पद पर पदोन्नति करते हैं।

(ख) पैरा ज में :—

श्री के० के० के० राव, सीनियर फोरमैन (इंजिं) को  
सिविलियन तकनीकी सहायक (इंजिं) के पद पर  
पदोन्नति करते हैं के स्थान पर श्री के० के० राव,  
सीनियर फोरमैन (शस्त्र) को सिविलियन तकनीकी  
सहायक (शस्त्र) के पद पर पदोन्नति करते हैं।

य० एन० खन्ना  
कमांडर  
उप निदेशक, सिविलियन कार्मिक

## MINISTRY OF DEFENCE

## (FINNCE DIVISION)

New Delhi, the 5th February 1994

No. A-11041/1/92-Estt.L, dated the 18th January 1994.—The President is pleased to appoint Km. Somi Tandon, an Officer of the Indian Defence Accounts Service, as Additional Financial Adviser (Joint Secretary) in the Finance Division of the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 18th January, 1994 until further orders.

S. K. SUMMAN  
Asstt. Financial Adviser (E).

No. A-22012/2/93-Estt.L, dated the 19th January 1994.—Consequent on his transfer from the Deptt. of Legal Affairs, the President is pleased to appoint Shri K. L. Banerjee, CSS as Assistant Financial Adviser (Under Secretary) in the Finance Division of the M/o Defence w.e.f. the forenoon of 4th Jan., 1994.

2. Consequent on his transfer from the Ministry of W. Resources the President is pleased to appoint Shri A. K. Puri, CSS as Assistant Financial Adviser (Under Secretary) in the Finance Division of the M/o Defence w.e.f. the afternoon 4th Jan., 1994.

S. K. SUMAN  
Asstt. Financial Adviser (F)

## DIRECTORATE OF TECHNICAL DEVELOPMENT AND PRODUCTION (AIR)

## DEFENCE AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE SERVICE

No. 42, dated the 14th January 1994.—The President is pleased to make the following appointments in DTD&P (Air) Ministry of Defence :—

1. Shri Anil Kumar Parashar, as a temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, DTD&P (Air), Ministry of Defence Koraput on probation for a period of two years w.e.f. 24th June, 1993 (F/N).

2. Shri Avalur Venkateshwara Prabhu, as a temporary Sr. Scientific Officer Grade-II in OCRI, DTD&P (Air), Ministry of Defence, Bangalore on probation for a period of two years w.e.f. 17th Sept., 1993 (F/N).

3. Shri Anil G. Abhyankar, as a temporary Senior Scientific Officer Grade-II in the Office of the Addl. Director MSQAA, Ministry of Defence, Hyderabad on probation for a period of two years w.e.f. 30th August, 1993 (F/N).

4. Shri Ashok Kumar Singh, as a temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, DTD&P (Air), Ministry of Defence, Lucknow on probation for a period of two years w.e.f. 01st Sept., 1993 (F/N).

5. Shri Mahind Bhagat, as a temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, DTD&P (Air), Ministry of Defence, Oihbar, on probation for a period of two years w.e.f. 13th December, 1993 (F/N).

6. Shri Gurumukh Das Batra, as a temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, DTD&P (Air), Ministry of Defence, Korwa on probation for a period of two years w.e.f. 10th Sept., 1993 (F/N).

7. Shri Anil Kumar Kota, as a temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI (GW), DTD&P (Air), Ministry of Defence, Hyderabad on probation for a period of two years w.e.f. 28th Oct., 1993 (F/N).

I. P. DUTT, Desk Officer

## (ARMY BRANCH)

## MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 43, dated the 31st December 1993.—The following officers are appointed as Civilian Staff Officer of AFHQ Civil Service under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules 1968 for the period of six months from 27-10-93 to 26-4-94 or till regular incumbent become available whichever is earlier.

S. No., and Name

S/Shri

- (a) PR Sinha,
- (b) TD Dhariyal (on deputation)
- (c) M Sethuramalingam
- (d) S Alagesan.

These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

## ARMY HEADQUARTERS

## AG's BRANCH

The undermentioned Assistants are appointed as officiating Assistant Civilian Staff Officer (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ Civil Service with effect from 22 Jul 1993 until further orders :—

S/Shri

KS Shinhmar.

SP Kureel.

2. The appointment is subject to modification as may be necessary in the implementation of (CAT) PB judgement dated 20-11-92 in TA No. 356/85 in CW No. 3/78 (MG Bansal & others Vs Union of India & Ors) and other related cases pending before the courts regarding inter-se-seniority of DR and promotee ACSOs.

3. The promotion made from panel shall be subject to the provisions of Third schedule (Note 1 relating to appointment of ACSO) of AFHQ Civil service Rules, 1968.

Authority : No. A/14102/93/CAO/P-1 dated 22 Jul 93.

Approval of the competent authority has been accorded to the appointment of the following officers of AFHQ Civil Service and AFHQ Stenographers Service as Civilian Staff Officers under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 for a period of six months from the dates indicated against their names upto 22-4-93 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

S/Shri

Hamid Hussain—23-10-92.

Smt. Manju Jhingan—23-10-92.

Smt. Juysree Galgotia—23-10-92.

KMP Singh—23-10-92.

Arun Kumar—23-10-92.

Kum. Amrita Sharan—23-10-92.

Ram Singh—23-10-92.

BR Aggrawal—18-11-92.

KN Subudhi—23-10-92.

Smt. Lina Mukherjee—23-10-92.

Arun Swarup—23-10-92.

Ganpat Singh—23-10-92.

Sanjay Sinha—23-10-92.

2. These appointments are made purely as stop-gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

They will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will their services rendered as CSO under Rule 10(2) reckon for seniority.

Approval of the competent authority has been accorded to the appointment of the following officers of AFHQ Civil Service and AFHQ Stenographers Service as Civilian Staff Officers under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules 1968 for a period of six months from the dates indicated against their names upto 25-10-93 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

S/Shri  
 Smt. Manju Jhingan—26-4-93.  
 Hamid Hussain—26-4-93.  
 Smt. Jayshree Galgotia—03-5-93.  
 Sanjay Sinha—26-4-93.  
 RMP Singh—26-4-93.  
 Arun Kumar—26-4-93.  
 Kum. Amrita Sharan—26-4-93.  
 Smt. E. Sailo—26-4-93.  
 Smt. Lina Mukherjee—26-4-93.  
 Arun Swarup—26-4-93.  
 KN Subdh—26-4-93.  
 Kurnesh Kundu—26-4-93.  
 Ganpat Singh—26-4-93.

2. These appointments are made purely as stop-gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. They will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will their service rendered as CSO under Rule 10(2) reckon for seniority.

Approval of the competent authority has been accorded to the appointment of the following Officers of AFHQ Civil Service and AFHQ Stenographers Service as Offg Civilian Staff Officers on long term basis with effect from 16-10-92 until further orders :—

S/Shri  
 BP Dabiya—16-10-92.  
 Kundan Lal Vohra—16-10-92.  
 B. Gopinathan—16-10-92.  
 Ram Kumar Chohan—16-10-92.  
 Ram Swarup—16-10-92.  
 PS Jitay—23-10-92.  
 Smt. Ruby Adhikari Sehgal—21-12-92.  
 Ravi Dutt—16-10-92.  
 CB Pant—16-10-92.  
 RKD Mangal—16-10-92.  
 Smt. Asha Mahajan—16-10-92.  
 ID Kewal Ramani—16-10-92.  
 SK Sharma—16-10-92.  
 TNM Nair—16-10-92.  
 SK Tandon—16-10-92.  
 Phool Singh—16-10-92.  
 Lal Chand—23-10-92.  
 PP Vats—16-10-92.  
 India Chand—16-10-92.  
 Tara Chand—16-10-92.

2. These appointments are subject to ultimate decision in TA No. 356/85 in CW No. 3/78 (MG Bansal & Ors Vs. Union of India & Ors) pending before the Principal Bench of the CAT and other related cases regarding inter-se-seniority of direct recruit and promotee ACSOs pending before the Courts. The appointments are also subject to modifications as may be necessary in the implementation of Supreme Court's judgement dated 21-2-89 and 9-1-91 in Civil Appeals No. 4133-34 of 1984 and C.W.P. No. 493 of 1990 filed by Shri R K Khosla Vs. Union of India & Ors and other related cases.

## (QMG's BRANCH)

The following officers of AFHQ Civil Service are appointed as Civilian Staff Officers under Rule 10(2) of AF HQ Civil Service Rules, 1968 w.e.f. 9-12-93 to 26-4-94 or till regular incumbents become available, whichever is earlier and posted to QMGs Branch.

- (a) Shri K C Siroj, CAO
- (b) Shri J C Nahar, DGQA
- (c) Shri Sohan Pal, MS

2. These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

## D G Q A

The following officers are appointed as officiating Civilian Staff Officers in the AFHQ Civil Service with effect from the date mentioned against their names, until further orders :—

## Name &amp; Date of Appointment

S/Shri  
 Kartar Singh—16 Oct 1992  
 T C Asiwal—16 Oct 1992  
 Komal Singh—16 Oct 1992  
 Chandan Sen Gupta—16 Oct 1992  
 D V Singh—22 Feb 1993  
 Gautam Roy—16 Oct 1992  
 Chohal Singh—16 Oct 1992.

## DIRECTORATE GENERAL NATIONAL CADET CORPS

Shri Trilochan Rout is appointed as Civilian Staff Officer in the AFHQ Civil Service with effect from 27-10-93 for the period of six months or till regular incumbent becomes available, whichever is earlier under Rule 10(2) of the AFHQ Civil Service Rules, 1968.

His appointment is made purely as stop-gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

P N MAULIK,  
 Dy. Chief Administrative Officer

MINISTRY OF DEFENCE,  
 DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGN.

No. 44, dated 20th December -1993.—The President is pleased to make the following appointments :—

## DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT SERVICE

The undermentioned individuals to be Scientists 'C' (Ad hoc) for a period of one year in Centre for Artificial Intelligence & Robotics, Bangalore with effect from the date shown against each :—

- Dr. S. H. Srinivasan—10-9-1993
- Dr. Sanjeev Kumar Rastogi—13-9-1993
- Dr. Anjan Basu—24-9-1993
- Dr. V. Vinay—27-9-1993.

Shri G. R. Sivaramakumar, Scientist 'C' (Ad hoc), Centre for Artificial Intelligence and Robotics, Bangalore to be temporary Scientist 'C' in the same Centre on probation for a period of one year with effect from 4-12-1992 (F/N).

Shri Rajesh Kumar Goyal to be Scientist 'D' (Adhoc) for a period of one year in Defence Electronics Applications Laboratory, Dehra Dun with effect from 21-04-1993 (F/N).

D. J. ANDREW,  
 Assistant Director (Pers.)

No. 45, dated 31st December 1993.—The President is pleased to make the following appointments:—

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishments and with effect from the dates shown against their names:—

*Name, Estt., and Date*

Kum. Ranjana Khattar, SAG, Delhi—19-11-1992 (F/N).

Shri P. V. R. R. Bhogendra Rao, DRDL, Hyderabad—30-09-1993 (F/N).

Shri K. Suchendar, DRDL, Hyderabad—30-09-1993 (F/N).

Kum. B. Jayashree, DRDL, Hyderabad—30-09-1993 (F/N).

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'E' on probation for a period of two years in the Establishments and with effect from the dates shown against their names:—

*Name, Estt. and Date*

Shri Biju T. Kuzhivel, SPL, Delhi—06-04-1993 (F/N).

Miss Rachna Manchanda, SPL, Delhi—17-09-1993 (F/N).

Shri Dhiraj Malhotra, DSC, Delhi—19-11-1992 (F/N).

Shri Rajeev Grover, DNRD, Delhi—26-09-1990 (F/N).

Shri Parimal Kumar, RAC, Delhi—07-05-1992 (F/N).

Shri S. Raja, SAG, Delhi—29-10-1990 (F/N).

Shri B.V.H. Krishna Nanda, INMAS, Delhi—06-08-1992 (F/N).

Miss L. Soundararajan, CAIR, Bangalore—29-03-1993 (F/N).

R. K. SHARMA,  
Asstt. Director (Pers.)

No. 46, dated 31st December, 1993.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of Al 3/S/70:—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt w.e.f. 7 Mar 92 with seniority for promotion from 5 Nov 87 but for increments of pay from 7 Mar 87 on relinquishing their SSC w.e.f. 7 Mar 92. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in the GN for grant of SSC. By virtue of their seniority, they are promoted to the rank of Lt w.e.f. 7 Mar 92 with seniority in that rank from 05 Nov 89:—

Harsh Deep Sharma (SS-32744 now IC-45809A), INF.  
Ghatnekar Prabhull Govind (SS-32800 now IC-45848-Y), EME.

V. K. ANAND,  
Col.  
Col. MSR&R

**(MILITARY ENGINEER SERVICES)**

No. 47, dated 7th January 1994.—The President is pleased to appoint the undermentioned officers as Assistant Executive Engineer (Building and Roads) with effect from the dates as indicated against their names.

The officers will be on probation for a period of two years:—

(a) MES-186186 Shri Satya Prakash Dwivedi—01-4-1993 (F/N).

(b) MES-186185 Shri Daya Nand Arya—02-04-1993 (F/N).

The President is pleased to appoint the undermentioned officers as Assistant Executive Engineer (Building and Roads) with effect from the dates as indicated against their names.

The officers will be on probation for a period of two years:—

(a) MES-NYA Shri Abdul Ali—17-03-1993 (F/N).

(b) MES-NYA Shri Gopal Varshney—19-03-1993 (F/N).

The President is pleased to appoint MES-8464768 Shri Ram Krishan Grover, Assistant Engineer Electrical and Mechanical) as Executive Engineer (Electrical and Mechanical) with effect from 30 Sep 1992 (F/N) until further orders.

The officer will be on probation period for two years.

The President is pleased to appoint MES-506892 Shri Sudesh Kumar Gupta, Assistant Surveyor of Works as 'Surveyor of Works' with effect from 12 Oct 1991 (F/N), until further orders.

The President is pleased to appoint MES-470786 Shri Mohinder Kumar Bansal, Executive Engineer as 'Superintending Engineer' with effect from 17 Jun 1993 (F/N) until further orders.

The President is pleased to appoint MES-NYA Shri Uday Shanker Dalai as 'Assistant Executive Engineer' with effect from 24 May 1993 (F/N) until further orders.

The officer will be on probation for a period of two years.

A. K. SEETHI,  
Under Secretary

No. 48, dated 7th January 1994.—MES-405043 Shri Vinayak Laxman Divakar, Chief D'Mun is appointed 'Technical Officer' with effect from 12 Mar 1992 (F/N), until further orders.

He will be on probation for a period of two years.

MES-147823 Shri Vakkala Chenna Narasimhulu, Superintendent Building and Roads, Grade I is appointed as 'Assistant Engineer Building and Roads' with effect from 16 Oct 1991 (F/N), until further orders.

The officer will be on probation for a period of two years.

S. N. MUKHERJEE  
Col.  
Dir. Pers. 'B'

No. 49, dated 22nd December 1993.—The President is pleased to make the following appointment:—

**TERRITORIAL ARMY**  
**TERRITORIAL COMMISSION**

To be Capt

(a) Sansar Chand Sharma, TA(M)-1167, AMC(TA), 24 Jan 1993.

(b) Ram Bhasker Shukla, TA(M)-1168, AMC(TA), 06 Feb 1993.

- (c) Tapas Kumar Bose, TA(M)-1169, AMC(TA), 02 Jan 1993.
- (d) Rabindra Nath Karmakar, TA(M)-1170, AMC(TA), 14 Nov 1992.

To be 2/Lt (On Probation)

- (a) Anil Vasant Rao Mardikar, TA-42164, ASC, 12 Nov 92.
- (b) Chokka Surendra Babu, TA-42165, ENGRS, 30 Nov 92.
- (c) BA Narayana Rao, TA-42166, ENGRS, 30 Nov 92.
- (d) Giri Kindo, TA-42167, ENGRS, 30 Nov 92.
- (e) JJ Jaya Kumar, TA-42168, ENGRS, 01 Dec 92.
- (f) Ashok Pratap Singh, TA-42169, ENGRS, 01 Dec 92.
- (g) Kan Mathur, TA-42170, ENGRS, 01 Dec 1992.
- (h) Shailendra Dass, TA-42171, ENGRS, 09 Dec 92.
- (a) Byreddy Surender Reddy, TA-42156, ENGRS, 30 Nov 92.
- (b) Sunil Kumar Raturi, TA-42157, ENGRS, 30 Nov 92.
- (c) Sanjay Basarkar, TA-42158, ENGRS, 30 Nov 92.
- (d) Sanjay Gairola, TA-42159, ENGRS, 30 Nov 92.
- (e) Agum Aggarwal, TA-42160, ENGRS, 30 Nov 92.
- (f) Prabhat Kumar, TA-42161, ENGRS, 30 Nov 92.
- (g) Vivek Bhalla, TA-42162, ENGRS, 30 Nov 92.
- (h) Abhijit Chaudhuri TA-42163, ENGRS, 07 Dec 92.
- (j) Shekhar M Bhagat, TA-42173, ASC, 06 Jan 93.
- (k) Abhay Chaturvedi, TA-42174, ENGRS, 04 Feb 93.

A. P. PANDIT,  
Under Secy.

#### NAVY BRANCH

No. 50, dated 31st December 1993.—The President is pleased to make the following appointment as Ag SLT in the Engineering Branch (Corps of Naval Construction) under the Ministry of Defence letter OF/1907/NHQ/895/US/D(N-II) dated 28 May 90 from the date shown against his name :—

INDIAN NAVY

(PERMANENT COMMISSION)

ENGINEERING BRANCH (CORPS OF NAVAL  
CONSTRUCTORS).

Name, Personal Number & Date of Commission

Tomar Diwakar, 41422-R—07-08-89.

The President is pleased to make the following appointment in the Education Branch under the Ministry of Defence

letter No. OF/1401/NHQ/815/US/D(N-II) dated 01 May 89 from the date shown against his name :—

INDIAN NAVY  
(PERMANENT COMMISSION)

EDUCATION BRANCH

Name, Personal Number & Date of Commission

Varadaraja GB, 70331-T—13 Feb 89.

B. SATEESH KUMAR,  
CSO  
ADMPR (R&R)

No. 51, dated 13th December 1993.—The undermentioned Personal Assistants of AFHQ Stenographers Service are appointed as Private Secretary on temporary promotion basis with effect from the dates mentioned against their names, for a period upto and including 31-12-93, or till persons from the Select List become available, whichever is earlier :—

Shri S N Arora—29 Oct 93 (A/N)

Shri S S Bhogal—1 Nov 93.

2. Appointment of the abovementioned individuals as Private Secretary on temporary basis is subject to the following conditions :—

- (a) Their appointment is purely on temporary basis and they can be reverted without notice for administrative reasons.
- (b) They will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will their service rendered on temporary basis reckon for seniority.

P. N. MAULIK,  
Up Mukhya Prashasan Adhikari

#### (ARMY BRANCH)

No. 52, dated 5th January 1994.—The President is pleased to appoint Lt. Gen. Surinder Singh (IC-10008) AVSM as Colonel of the Poona Horse with effect from 01 Dec 93 (F/N).

The President is pleased to appoint Maj Gen. V. Jayashankar (IC-13946) as Colonel of Mahar Regiment with effect from 01 Nov 93 (F/N).

The President is pleased to appoint Brig V. K. Kapoor (IC-15861) as Colonel of 6 Armd Regt with effect from 01 Dec 93 (F/N).

KP THOMAS, SCSO  
AMS (X)

No. 53, dated 5th January 1994.—The President is pleased to permit Lt. Gen. Ajai Singh (IC-7745) PVSM, AVSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Poona Horse with effect from 30 Nov 93 (A/N).

The President is pleased to permit Lt. Gen. Y. K. Vadehra (IC-8214) PVSM, AVSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Mahar Regiment with effect from 31 Oct 93 (A/N).

The President is pleased to permit Lt. Gen. Ajai Singh (IC-7745) PVSM, AVSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 6 Armd Regt with effect from 30 Nov 93 (A/N).

KP THOMAS, SCSO  
AMS (X)

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION**

D. R. D. S.

No. 54, dated 21st December 1993.—The following promotions are made :

1. Shri Kharak Singh, Office Superintendent Gde I, IRDE, Dehradun to be Officiating Administrative Officer in the same Establishment with effect from 04-10-93 (F/N).

2. Shri Gaya Prasad, Office Superintendent Gde I, ADRDE, Agra Cantt, to be Officiating Administrative Officer in the same Establishment with effect from 01-10-93 (F/N).

3. Shri P. C. Chowdhary, Office Superintendent Gde I, DMSRDE, Kanpur to be Officiating Administrative Officer in the same Establishment with effect from 29-10-93 (F/N).

4. Shri S. K. Korbishi, Office Superintendent, RDE (Engrs), Pune to be Officiating Administrative Officer in the same Establishment with effect from 01-11-93 (F/N).

5. Shri M. P. Pathak, Senior Stores Superintendent, DMSRDE, Kanpur to be Officiating Store Officer in the same Establishment with effect from 01-10-93 (F/N).

6. Shri L. N. Shekade, Senior Store Superintendent, ERDL, Pune to be Officiating Store Officer in the same Laboratory with effect from 06-10-93 (F/N).

7. Shri M. Unnikrishnan, Accountant, ERDI, Pune to be Officiating Accounts Officer in the same Laboratory with effect from 05-03-93 (F/N).

8. Smt. K. B. Rajan, Office Superintendent Gde-I, NCML, Bombay to be Officiating Administrative Officer in the same Laboratory with effect from 01-10-93 (F/N).

The following SSAs/Fman CDM of RDE (Engrs), CVRDE, DMSRDE, ADE, GTRE, LRDE, DLRL, DRDI, & JRDE to be Offic. Junior Scientific Officer in their respective Establishment's/Laboratories with effect from the dates shown against their names :—

Shri V. Ananth Ram, SSA RDE (Engrs), Pune—29-10-93 (F/N).

Shri K. S. Pal, F'man RDE (Engrs), Pune—29-10-93 (F/N).

Shri V. V. Rishi, SSA RDE (Engrs), Pune—29-10-93 (F/N).

Shri V. Ramesh Babu, CDM CVRDE Avadi, Madras—29-10-93 (F/N).

Shri Charan Singh, CDM DMSRDE, Kanpur—29-10-93 (F/N).

Shri Mohan Kujur, SSA DMSRDE, Kanpur—29-10-93 (F/N).

Shri S. S. Shukla, SSA DMSRDE, Kanpur—1-11-93 (F/N).

Shri A. K. Saxena, SSA DMSRDE, Kanpur—29-10-93 (F/N).

Shri N. G. K. Nair, F'man ADE, Bangalore—29-10-93 (F/N).

Shri V. Rama Subramanian, SSA ADE, Bangalore—29-10-93 (F/N).

Shri N. Venkatesha Murthy, SSA ADE, Bangalore—29-10-93 (F/N).

Shri P. N. Saha, SSA ADE, Bangalore—29-10-93 (F/N).

Shri Malathesha Nadiger, SSA ADE, Bangalore—29-10-93 (F/N).

Shri M. Seetharama Bhatt, SSA GTRE, Bangalore—29-10-93 (F/N).

Shri R. Vasavan, SSA GTRE, Bangalore—29-10-93 (F/N).

Smt. V. Swaminathan, F'man LRDE, Bangalore—29-10-93 (F/N).

Shri S. N. Sharma, F'man LRDE, Bangalore—29-10-93 (F/N).

Shri R. N. Bagchi, CDM LRDE, Bangalore—02-11-93 (F/N).

Shri M. S. Shankar, F'man LRDE, Bangalore—02-11-93 (F/N).

Shri K. Rama Mohan Rao, SSA DLRL, Hyderabad—29-10-93 (F/N).

Miss C. Nagmani, SSA DRDL, Hyderabad—29-10-93 (F/N).

Smt. C. Pankajakshi, SSA DRDL, Hyderabad—29-10-93 (F/N).

Shri T. K. Sheel SSA IRDE, Dehradun—29-10-93 (F/N).

Shri B. K. Nanda, SSA IRDE, Dehradun—29-10-93 (F/N).

Shri H. Narayana, Office Superintendent Gde I, GTRE, Bangalore to be officiating Admin Officer in the same establishment w.e.f. 1-10-93 (F/N).

M. L. ARORA,  
Jt. Director (Pers)

No. 55, dated 30th November 1993.—The President is pleased to make the following promotion :—

**DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE**

Mrs V Latha Christie, Scientist 'B', Microwave Tube Research And Development Centre, Bangalore to be officiating Scientist 'C' in the same Centre with effect from 01-07-93 (F/N).

Smt KA Sujatha, Scientist 'B', Gas Turbine Research Establishment Bangalore to be officiating Scientist 'C' in the same Establishment with effect from 01-7-93 (F/N).

Shri M. N. Jagdish Kumar, Scientist 'B' of Aeronautical Development Establishment, Bangalore to be officiating Scientist 'C' in the same Establishment w.e.f. 01-07-1993 (F/N).

Shri S. S. Prasad, Scientist 'E' of Centre for Environment & Explosive Safety, Delhi to officiating Scientist 'F' with effect from 07-09-1993 (F/N) in the same Centre.

D. J. ANDREW,  
Assistant Director (Pers)

**(ARMY BRANCH)**

No. 56, dated 31st December 1993.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

Jt Cols to be substantive Cols

D of S 20-6-68 L. D. Dobhal (JC-26412Y), AEC, 21st Jan. 1993 but with seniority from 01st Jan. 1992 without effect on pay and pension.

3-10-68 M. L. Sabharwal (JC-26563X), AEC, 06th Jun. 1993 but with seniority from 01st Jan. 1992 without effect on pay and pension.

3-10-68 R. K. Sehgal (JC-26635W), AEC., 15th Jan. 1993 but with seniority from 01st Jan. 1992 without effect on pay & pension.

21-12-68 K. S. Chauhan (JC-23096A), Inf, 22nd Feb. 1993 but with seniority from 01st Jan. 1992 without effect on pay & pension.

22-12-68 Jacob Kuriyan (JC-25000L), Engrs., 01st Jun. 1992.

R. V. Nair (JC-21103M), Int Corps., 25th Apr 1993 but with seniority from 01st Nov. 1991 without effect on pay & pension.

K. N. Bhatt (IC-19196N), AFC, 06th Apr. 1993 but with seniority from 01 Nov. 1991 without effect on pay & pension.  
 Majors to be substantive Lt Cols (By Selection)  
 A. M. Sethi (IC-27001M), Inf, 01st Apr. 1992.  
 T. S. Anand (IC-27003X), Int, 28th Sep. 1992 but with seniority from 01st Apr. 92 without effect on pay & pension.

K. S. Sethi (IC-27004A), Arty, 01st Apr. 1992.  
 L. K. Rawal (IC-27005H), Inf, 01st Apr. 1992.  
 G. S. Ghuman (IC-27006I), Inf, 01st Apr. 1992.  
 P. S. Badhwar (IC-27009Y), Inf, 01st Apr. 1992.  
 H. S. Dhillon (IC-27010N), Inf, 01st Apr. 1992.  
 D. K. Myne (IC-27013P), Inf, 01st Apr. 1992.  
 W. P. Das (IC-27016F), AOC, 30-7-92 but with seniority from 01 Apr. 1992 without effect on pay and pension.  
 J. K. Malnidatta (IC-27020X), Inf, 01st Apr 1992.  
 A. K. Lal (IC-27022H), Inf, 01st Apr. 1992.  
 R. K. Verma (IC-27023L), EME, 28 Jan 93 but with seniority from 01st Apr. 92 without effect on pay and pension.  
 P. Menon (IC-27026Y), Inf, 01st Apr. 1992.  
 S. K. Chhetri (IC-27027F), Inf, 01st Apr. 1992.  
 R. S. Brar (IC-27028K), Inf, 01st Apr. 1992.  
 K. P. Ramesh (IC-27029M), AC, 01st Apr. 1992.  
 K. K. Singh (IC-27030F), Engrs, 01st Apr. 1992.  
 J. Singh (IC-27034X), Inf, 01st Apr. 1992.  
 K. S. Kharb (IC-27035A), Inf, 01st Apr. 1992.  
 A. M. Verma (IC-27038N), Inf, 01st Apr. 1992.  
 S. K. Sethi (IC-27040L), Inf, 01st Apr. 1992.  
 N. L. Paul (IC-27041N), Arty, 01st Apr. 1992.  
 A. Kaul (IC-27050P), Inf, 01st Apr. 1992.  
 A. K. Singh (IC-27052A), Inf, 01st Apr. 1992.  
 C. S. Sirohi (IC-27058F), Inf, 01st Apr. 1992.  
 A. Kumar (IC-27059K), Arty, 01st Apr. 1992.  
 V. K. Singh (IC-27061F), Inf, 01st Apr. 1992.  
 G. N. Jha (IC-27062K), Inf, 01st Apr. 1992.  
 K. C. K. Nair (IC-27064P), Engrs, 01st Apr. 1992.  
 A. D. Saini (IC-27068L), Inf, 01st Apr. 1992.  
 K. D. Pagnis (IC-25813F), Inf, 01st Apr. 1992.  
 M. M. Chaudhary (IC-25814K), Inf, 01st Apr. 1992.  
 G. Singh (IC-25815M), Arty, 01st Apr. 1992.  
 B. Singh (IC-25816P), Inf, 01st Apr. 1992.  
 H. Mohan (IC-25817X), Inf, 01st Apr. 1992.  
 J. P. S. Ahluwalia (IC-25818A), Arty, 01st Apr. 1992.  
 A. P. Singh (IC-25819H), Engrs, 01st Apr. 1992.  
 I. J. S. Sandhu (IC-25821A), Arty, 01st Apr. 1992.  
 P. K. Chakravarty (IC-25822H), Arty, 01st Apr. 1992.  
 D. C. Katoch (IC-25824N), Inf, 01st Apr. 1992.  
 C. Singh (IC-25825W), AC, 01st Apr. 1992.  
 R. Khetarpal (IC-25826Y), EME, 15th Jan. 1993 but with seniority from 01st Apr. 92 without effect on pay and pension.  
 J. S. Sethi (IC-25827F), Arty, 01st Apr. 1992.  
 N. Singh (IC-25828K), Inf, 01st Apr. 1992.

N. J. Singh (IC-25829M), Arty, 01st Apr. 1992 .  
 P. S. Sahi (IC-25830F), Arty, 01st Apr. 1992.  
 B. R. Kundlas (IC-25831K), Arty, 01st Apr. 1992.  
 N. N. Kadam (IC-25834X), Inf, 01st Apr. 1992.  
 H. P. S. Klaire (IC-25836H), Inf, 01st Apr. 1992.  
 A. K. Chopra (IC-25838N), AOC, 19th Jul. 1992 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.  
 Baljit Singh (IC-25839W), Arty, 01st Apr. 1992.  
 G. Singh (IC-25841N), Arty, 01st Apr. 1992.  
 P. R. Patil (IC-25842W), Inf, 01st Apr. 1992.  
 S. S. Ahluwalia (IC-25844F), Inf, 01st Apr. 1992.  
 R. K. Gupta (IC-25845K), Engrs, 01st Apr. 1992.  
 S. P. Rai (IC-25847P), Inf, 01st Apr. 1992.  
 Y. M. Tewari (IC-25849A), Inf, 01st Apr. 1992.  
 L. S. Rana (IC-25850P), Inf, 01st Apr. 1992.  
 R. Suhag (IC-25851X), Inf, 01st Apr. 1992.  
 D. Singh (IC-25852A), Inf, 01st Apr. 1992.  
 Bhanwar Singh (IC-29074X), Inf, 01st Nov. 1991.  
 S. S. Klaire (IC-29104W), Inf, 01st Nov. 1991.  
 K. J. Singh (IC-29254A), Inf, 01st Nov. 1991.  
 Darshan Singh (IC-29392F), Inf, 01st Nov. 1991.  
 M. K. Thakuri (IC-29460K), Inf, 01st Nov. 1991.  
 B. S. Rawat (IC-29677N), Inf, 01st Nov. 1991.  
 S. C. Sharma (IC-29827Y), Inf, 01st Nov. 1991.  
 N. S. Rana (IC-24717A), Arty., 01st Nov. 1991.  
 K. K. Saxena (IC-28536M), Int Corps., 01st Nov. 1991.  
 T. D. Sharma (IC-29528A), Arty., 01st Nov. 1991.  
 Ravinder Kumar (IC-24760F), Inf, 01st Nov. 1991.  
 J. K. Jacob (IC-24816H), Arty., 01st Nov. 1991.  
 Balbir Singh (IC-24931H), ASC., 01st Nov. 1991.  
 D. K. Kapoor (IC-26938L), ASC, 01st May 1991.  
 Majors to be Substantive Lt Cols (By Time-Scale)  
 G. S. Solanki (IC-32763K), ASC., 19th Apr 1993.  
 P. K. Suri (IC-32799H), ENGRS., 19th Apr 1993.  
 R. S. Mathur (IC-32808Y), ASC., 19th Apr 1993.  
 V. K. Nair (IC-32820A), ARTY., 19th Apr 1993.  
 Naresh Sharma (IC-32950H), ARTY., 10th May 1993.  
 M. M. Khanna (IC-32618M), SIGS., 11th May 1993.  
 K. B. Singh (IC-25471Y), ARTY., 14th May 1993.  
 P. Jayakumar (IC-25614N), INF., 14th May 1993.  
 Ranjit Singh (IC-33018W), INF., 18th Oct 1993.  
 T. Mukherjee (IC-32714F), INF., 19th Oct 1993.  
 B. B. Dayani (IC-32732K), INF., 19th Oct 1993.  
 R. Singh (IC-32735X), INF., 19th Oct 1993.  
 Shankar Singh (IC-32740H), ARTY., 19th Oct 1993.  
 V. K. Bali (IC-32742N), INF., 19th Oct 1993.  
 G. P. Dubey (IC-32744Y), ASC., 19th Oct 1993.  
 K. S. Sidhu (IC-32751P), INF., 19th Oct 1993.  
 Jaswant Rawat (IC-32766X), INF., 19th Oct 1993.

D. S. Pandhker (IC-32773N), ARTY., 19th Oct 1993.  
 A. K. Sharma (IC-32781M), ENGRS., 19th Oct 1993.  
 S. C. Sood (IC-32783X), ENGRS., 19th Oct 1993.  
 R. L. Sobat (IC-32788W), ASC, 19th Oct 1993.  
 S. V. Singh (IC-32789Y), AOC., 19th Oct 1993.  
 S. S. Thind (IC-32791W), AOC., 19th Oct 1993.  
 V. K. Chopra (IC-32795M), ARTY., 19th Oct 1993.  
 S. Yadav (IC-32800M), Sigs 19th Oct 1993.  
 V. L. Vohra (IC-32804H), ENGRS., 19th Oct 1993.  
 V. K. Sethi (IC-32810W), ENGRS., 19th Oct 1993.  
 M. M. Siddique (IC-32814M), ENGRS., 19th Oct 1993.  
 V. K. Srivastava (IC-32815P), INF., 19th Oct. 1993.  
 M. Purkait (IC-32821H), INF., 19th Oct. 1993.  
 D. V. Pantvaidya (IC 32822L), SIGS., 19th Oct. 1993.  
 R. S. Rathi (IC-32824W), INF., 19th Oct. 1993.  
 K. V. Balakrishnan (IC-32913P), Inf., 10th Nov. 1993.  
 S. P. S. Parmar (IC-32918N), Inf., 10th Nov. 1993.  
 G. S. Purewal (IC-32924F), AC., 10th Nov. 1993.  
 P. J. S. Ahuja (IC-32944P), Inf., 10th Nov. 1993.  
 R. K. Chaudhury (IC-32949H), Inf., 10th Nov. 1993.  
 S. P. Dureja (IC-36188L), Sigs., 19th Nov. 1993.  
 Pritam Singh (IC-36191L), Sigs., 19th Nov. 1993.  
 Roshan Lal (IC-28086A), Int. Corps., 30th Apr. 1990.  
 H. R. Rubil (IC-25139H), Inf., 13th Jun. 1992.  
 V. K. Chadha (IC-32404W), Arty., 03rd Nov. 1992.  
 H. K. Abbey (IC-25756L), AEC., 14th Nov. 1992.

MANJIT SINGH, CSO, Dy.  
Assistant Military Secretary

S N Tiwari (IC-47038) Inf, 26 April, 1993.  
 Y Kumar (IC-47068) AC, 26 April, 1993.  
 Varinder Singh (IC 47077) Inf, 26 April, 1993.  
 O P Rana (IC-47092) Inf, 26 April, 1993.  
 S S Benipal (IC-47103) ASC, 26 April, 1993.  
 J S Prasad (IC-47124) EME, 26 April, 1993.  
 Ajay Bakshi (IC-47138) Inf, 26 April, 1993.  
 Alok Beri (IC 47177) Arty, 26 April, 1993.  
 J S Tanwar (IC-47194) Inf, 26 April, 1993.  
 V M Naik (IC 47204) ASC, 26 April, 1993.  
 M S Bajwa (IC-47234) Arty, 26 April, 1993.  
 H Singh (IC-47236) Arty, 26 April, 1993.  
 V P Adsule (IC-47240) Inf, 26 April, 1993.  
 A S Aujla (IC-47261) Inf, 26 April, 1993.  
 Vijaya Kumar M G (IC-47266) Engrs, 26 April 1993.  
 S S Guleria (IC-47277) Inf, 26 April, 1993.  
 S Kaushik (IC-47285) Inf, 26 April, 1993.  
 Saurabh Kala (IC-47288) Engrs, 26 April, 1993.  
 B S Bajwa (IC-47293) Arty, 26 April, 1993.  
 R S Yadav (IC-47308) ASC, 26 April, 1993.  
 U Prakash (IC-47330) Sigs, 26 April, 1993.  
 V Heble (IC-47340) ASC, 26 April, 1993.  
 Pradeep Kumar (IC-47341) Engrs, 26 April, 1993.  
 G M S Bindra (IC-47346) Arty, 26 April, 1993.  
 Rabul Roy (IC-47358) Arty, 26 April, 1993.  
 Ravi Prakash (IC-47369) AOC, 26 April, 1993.  
 B S Virk (IC-47381) M, Inf, 26 April, 1993.  
 A Malhotra (IC-47384) ASC, 26 April, 1993.  
 K M Santhosh (IC 47386) AOC, 26 April, 1993.  
 J S Hundal (IC-47391) Inf, 26 April, 1993.  
 K Prasad (IC-47421) Arty, 26 April, 1993.  
 A Moulik (IC-47430) AC, 26 April, 1993.  
 A N Mathur (IC-47434) Arty, 26 April, 1993.  
 G Majumdar (IC-47436) AC, 26 April, 1993.  
 B S Chauhan (IC-47441) Arty, 26 April, 1993.  
 G S Sidhu (IC-47451) Inf, 26 April, 1993.  
 Praveen Singh (IC-47460) Inf, 26 April, 1993.  
 R S Babbal (IC-47463) Arty, 26 April, 1993.  
 Vivek Jhanji (IC-47471) ASC, 26 April, 1993.  
 R K Vemuru (IC-47493) AEC, 26 April, 1993.  
 P S Sangwan (IC-47084) Arty, 26 April, 1993.  
 S Chauhan (IC-47223) Inf, 26 April, 1993.  
 Pritpal Singh (IC-47321) AOC, 26 April, 1993.  
 Dinkar Hiteshi (IC-47469) EME, 26 April, 1993.  
 Tanmoy Roy (IC-47542) AEC, 26 April, 1993.  
 B K Dhankhar (IC-47345) Inf, 26 April, 1993.  
 V Uppal (IC-47347) Arty, 26 April, 1993.  
 Manish Kapoor (IC-47364) Engrs, 26 April, 1993.  
 Balbir Singh (IC-47371) Inf, 26 April, 1993.  
 Jagtar Singh (IC-47383) Arty, 26 April, 1993.  
 R S Sheoran (IC-47385) ASC, 26 April, 1993.  
 S K Sharma (IC-47387) Inf, 26 April, 1993.  
 A Mehrotra (IC-47392) Inf, 26 April, 1993.  
 S Chaturvedi (IC-47428) Inf, 26 April, 1993.  
 B S Shekhawat (IC-47433) Arty, 26 April, 1993.  
 A Jagtap (IC-47435) Sig 26 April, 1993.  
 R K Chaudhary (IC-47437) ASC, 26 April, 1993.  
 S Ghildiyal (IC-47446) AC, 26 April, 1993.  
 Harendra Singh (IC-47454) Inf, 26 April, 1993.  
 A S Gill (IC-47462) Inf, 26 April, 1993.  
 S Chauhan (IC-47467) Arty, 26 April, 1993.  
 S V Balaji (IC-47475) Arty, 26 April, 1993.

No. 57, dated the 3rd January, 1994.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

Lt to be Capt

M S Vij (IC-47008) Arty, 26 April, 1993.  
 R A P Singh (IC-47031) Inf, 26 April, 1993.  
 P S Samyal (IC-47067) Sigs, 26 April, 1993.  
 Sanjeev Tyagi (IC-47073) ASC, 26 April, 1993.  
 S Kaku (IC-47085) Arty, 26 April, 1993.  
 J Singh (IC-47097) Arty, 26 April 1993.  
 Rajesh Kumar (IC-47116) Sigs, 26 April, 1993.  
 A Jain (IC-47129) Arty, 26 April, 1993.  
 N Goel (IC-47174) Inf, 26 April, 1993.  
 R K Barman (IC-47202) Arty, 26 April, 1993.  
 K Ramesh Kumar (IC-47235) EME, 26 April, 1993.  
 S Verma (IC-47239) Arty, 26 April, 1993.  
 R P S Waraich (IC-47252) Inf, 26 April, 1993.  
 G M Chaudhari (IC-47265) Engrs, 26 April, 1993  
 B R Tiwari (IC-47268) ASC, 26 April, 1993.  
 J S Boparai (IC-47284) Arty, 26 April, 1993.  
 Yashpal Singh (IC-47286) Inf, 26 April, 1993.  
 G S Verma (IC-47289) ASC, 26 April, 1993.  
 S G R Chander (IC 47307) AC, 26 April, 1993.  
 D R Sinha (IC-47316) Engrs, 26 April, 1993.  
 Harish Katoch (IC-47334) AC, 26 April, 1993.  
 T S Mundi (IC-47612) AC, 26 April, 1993.

Jagdish Singh (IC-47309) AOC, 19 Dec 1992.  
 G S Sandhu (IC-47354) AOC, 19 Dec 1992.  
 R P Dahiya (IC-49347) Engrs, 26 April 1993.  
 A K Sharma (IC-49355) EME, 26 April 1993.  
 A S Takshak (IC-49362) EME, 26 April 1993.  
 Jitendra Jain (IC-49370) EME, 26 April 1993.  
 C S Bandale (IC-49374) EME, 26 April 1993.  
 K K Sharma (IC-49381) EME, 26 April 1993.  
 S D Chaudhary (IC-49386) EME, 26 April 1993.  
 R M Nair (IC-49388) Engrs, 26 April 1993.  
 S K Panda (IC-49406) EME, 26 April 1993.  
 S M John (IC-49409) EME, 26 April 1993.  
 B S S Rao (IC-49415) EME, 26 April 1993.  
 S Karki (IC-49348) Engrs, 26 April 1993.  
 K D Singh (IC-49392) Sigs, 26 April 1993.  
 S Sudhindra (IC-49354) EME, 26 April 1993.  
 P K Maihotra (IC-49359) EME, 26 April 1993.  
 Sanjiv Kumar (IC-49365) Engrs, 26 April 1993.  
 A D Thorat (IC-49372) EME, 26 April 1993.  
 A K Das (IC-49380) Engrs, 26 April 1993.  
 Vijay Chaudhary (IC-49383) EME, 26 April 1993.  
 S Y R Deshmukh (IC-49387) EME, 26 April 1993.  
 A K Joon (IC-49394) Engrs, 26 April 1993.  
 Atul Tyagi (IC-49407) EME, 26 April 1993.  
 S Garg (IC-49414) EME, 26 April 1993.  
 K G Rajan (IC-49364) EME, 20 Dec 1992.  
 Apurva Singh (IC-47567) Inf, 11 June, 1993.  
 Ajay Sethi (IC-47580) Arty, 11 June, 1993.  
 Rajendra Mehta (IC-47600) Arty, 11 June, 1993.  
 Jaidev Singh (IC-47608) Inf, 11 June, 1993.  
 Manish Tripathi (IC-47617) AC, 11 June, 1993.  
 Anurodh Mishra (IC-47644) EME, 11 June, 1993.  
 R K Bansal (IC-47671) Arty, 11 June, 1993.  
 G R B Kalawad (IC-47692) Inf, 11 June, 1993.  
 E Hari Shankar (IC-47697) ASC, 11 June, 1993.  
 S V Kadam (IC-47702) Inf, 11 June, 1993.  
 Johnson J Lobo (IC-47709) Inf, 11 June, 1993.  
 Suresh Kumar (IC-47719) AOC, 11 June, 1993.  
 U M Vishal (IC-47726) M/Inf, 11 June, 1993.  
 C P S Negi (IC-47734) Inf, 11 June, 1993.  
 A K Mishra (IC-47740) EME, 11 June, 1993.  
 Rajiv Chadha (IC-47749) AC, 11 June, 1993.  
 Atul Bisht (IC-47757) Inf, 11 June, 1993.  
 Suresh Chandra (IC-47760) Arty, 11 June, 1993.  
 A S Shekhawat (IC-47772) Engrs, 11 June, 1993.  
 P S Bhadauria (IC-47777) Inf, 11 June, 1993.  
 J S Goraya (IC-47779) Arty, 11 June, 1993.  
 Vikram Raina (IC-47573) Inf, 11 June, 1993.  
 M S Sorout (IC-47586) ASC, 11 June, 1993.  
 V P S Kaushik (IC-47603) Inf, 11 June, 1993.  
 S K Singh (IC-47611) AOC, 11 June, 1993.  
 Nawab Singh (IC-47641) M/Inf, 11 June, 1993.  
 Deepak Sehgal (IC-47689) Inf, 11 June, 1993.

G M Ganachari (IC-47696) Inf, 11 June, 1993.  
 Vikas Saini (IC-47701) Inf, 11 June, 1993.  
 D K Gupta (IC-47706) Sigs, 11 June, 1993.  
 Ram Bhagat (IC-47714) ASC, 11 June, 1993.  
 Sandeep Singh (IC-47723) Inf, 11 June, 1993.  
 Sudeep Singh (IC-47728) Inf, 11 June, 1993.  
 Rajeev Misra (IC-47736) Arty, 11 June, 1993.  
 C S Babu (IC-47745) Arty, 11 June, 1993.  
 Ajay Sreedhar (IC-47755) Sigs, 11 June, 1993.  
 Prateek Mohil (IC-47759) Inf, 11 June, 1993.  
 Sanjay Lohchay (IC-47763) AC, 11 June, 1993.  
 B P Singh (IC-47773) Inf, 11 June, 1993.  
 Vineet Kumar (IC-47778) EME, 11 June, 1993.  
 M S Chahal (IC-47781) Inf, 11 June, 1993.  
 B S Ghotra (IC-47793) Inf, 11 June, 1993.  
 G S Gill (IC-47804) Inf, 11 June, 1993.  
 G P Singh (IC-47807) Inf, 11 June, 1993.  
 Vivek Nair (IC-47814) AC, 11 June, 1993.  
 Vijay Kumar (IC-47823) AOC, 11 June, 1993.  
 Brajendra Singh (IC-47829) EME, 11 June, 1993.  
 P J Singh (IC-47837) Inf, 11 June, 1993.  
 C A G Carvalho (IC-47849) Inf, 11 June, 1993.  
 P C Naithani (IC-47856) Engrs, 11 June, 1993.  
 Vijay Kumar (IC-47862) Arty, 11 June, 1993.  
 G C Dey (IC-47872) Arty, 11 June, 1993.  
 H S Grewal (IC-47876) Sigs, 11 June, 1993.  
 H K Rana (IC-47885) ASC, 11 June, 1993.  
 A S Grewal (IC-47890) ASC, 11 June, 1993.  
 S K Jha (IC-47900) Inf, 11 June, 1993.  
 Jalaj Bhargava (IC-47907) Arty, 11 June, 1993.  
 Sunil Kumar (IC-47910) Inf, 11 June, 1993.  
 Sharad Bhargava (IC-47914) Inf, 11 June, 1993.  
 D K S Chouhan (IC-47920) AC, 11 June, 1993.  
 Tejinder Singh (IC-47925) Inf, 11 June, 1993.  
 Rajeev Singh (IC-47933) Sigs, 11 June, 1993.  
 R K Rao (IC-47796) AOC, 11 June, 1993.  
 Vininder Singh (IC-47805) Sigs, 11 June, 1993.  
 B S Bisht (IC-47812) Inf, 11 June, 1993.  
 R R Shinde (IC-47815) Arty, 11 June, 1993.  
 Lokesh Chandra (IC-47826) Arty, 11 June, 1993.  
 Sukhminder Singh (IC-47833) Arty, 11 June, 1993.  
 Alok Naresh (IC-47844) Inf, 11 June, 1993.  
 Vipan Bhatia (IC-47850) Inf, 11 June, 1993.  
 P S Yadav (IC-47858) Inf, 11 June, 1993.  
 Suresh Babu P (IC-47867) Inf, 11 June, 1993.  
 Francis Fernandes (IC-47874) M/Inf, 11 June, 1993.  
 Prithpal Singh (IC-47879) Inf, 11 June, 1993.  
 B S Shekhawat (IC-47889) Inf, 11 June, 1993.  
 Sandeep Misra (IC-47896) AC, 11 June, 1993.  
 S R Mishra (IC-47903) Arty, 11 June, 1993.  
 B S Dalal (IC-47909) Inf, 11 June, 1993.  
 Y J Rao (IC-47913) Inf, 11 June, 1993.  
 R L Thapa (IC-47915) Inf, 11 June, 1993.  
 Pramod Mahtani (IC-47922) Inf, 11 June, 1993.  
 Sudhir Bugalia (IC-47928) AC, 11 June, 1993.

A K MALIK  
CSO  
DAMS C

No. 58, dated the 3rd January, 1994.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**

Infantry

Brigade of The Guards

To be Sub Maj

Nb Sub Ishwar Dass (JC-184145M), 01st Sep 1993.

To be Sub

Nb Sub Gaya Prasad (JC-163860H), 13th May 1993.

Nb Sub Budhi Ram Singh Yadav (JC-180683Y), 01st Aug 1993.

Nb Sub Sultan Singh (JC-169113H), 01st Sep 1993.

Nb Sub Brijendra Singh Jadon (JC-169327Y), 01st Sep 1993.

Nb Sub Sumer Lal (JC-169329K), 01st Sep 1993.

Nb Sub Om Prakash (JC-173123K), 01st Sep 1993.

Nb Sub Faqira Singh (JC-174901W), 01st Sep 1993.

Nb Sub Mir Singh Yadav (JC-180670F), 01st Sep 1993.

Nb Sub Narain Singh (JC-184225A), 01st Sep 1993.

Nb Sub Yadubir Singh (JC-172966L), 01st Sep 1993.

Nb Sub Lal Bahadur (JC-172529L), 01st Sep 1993.

Nb Sub Dharam Pal (JC-173115L), 01st Oct 1993.

Nb Sub Babu Ram Bhardwaj (JC-169107P), 01st Oct 1993.

Nb Sub Ranjor Singh (JC-173112X), 01st Oct 1993.

Nb Sub Parkash Chand Kishan (JC-180679W), 01st Nov 1993.

Nb Sub Mohan Singh (JC-174899K), 01st Nov 1993.

Nb Sub Tarsem Singh (JC-180658A), 01st Nov 1993.

Nb Sub Bishan Dass (JC-180659H), 01st Nov 1993.

Nb Sub Jagar Singh (JC-174900N), 01st Nov 1993.

**THE PARACHUTE REGIMENT**

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clerk) Arja Ram Mundel (JC-194509X), 01 Nov 93.

**THE MARATHA LI**

To be Sub Maj

Sub Kisan Waghe (JC-108899K), 01st Jun 1993.

Sub Shamrao Kadam (JC-114401P), 01st Aug 1993.

To be Sub Maj Clk

Sub Clk Chandrashekhar Balikai (JC-147424W), 01st Jun 1993.

Sub Clk Bhimanagouda Patil (JC-152821Y) 01st Jul 1993.

To be Sub Maj (Musician)

Sub (Musician) Kishan Viraha Batti (JC-157819L), 07th Nov 1992.

To be Sub

Nb Sub Chame Manohar Nivaruti (JC-164936Y), 01st Jun 1993.

Nb Sub Madhukar Jijaram Kiledar (JC-171707W), 01st Jul 1993.

Nb Sub Mandhare Dayanand Ganpat (JC-160884W), 01st Jul 1993.

Nb Sub Patil Jalindar (JC-168836L), 01st Jul 1993.

Nb Sub Patil Vilas Rangrao (JC-168535F), 01st Jul 1993.

Nb Sub Bajirao Sharke (JC-168837N), 01st Jul 1993.

Nb Sub Jackie Bhiveen (JC-158990W), 01st Jul 1993.

Nb Sub Sahdeo Sawant (JC-169140M), 01st Jul 1993.

Nb Sub A Mohammed Ali (JC-167175K), 01st Aug 1993.

Nb Sub Chavan Baban (JC-156883W), 01st Aug 1993.

Nb Sub Kalamkar Bhau Bhonsali (JC-172985W), 01st Aug 1993.

Nb Sub Dhamal Shivaji Anne (JC-172737A), 01st Aug 1993.

Nb Sub Jagtap Shirvang Dagadu (JC-160882L), 01st Aug 1993.

Nb Sub Vilas Mane (JC-172741H), 01st Aug 1993.

Nb Sub Vishnu Shankar Borse (JC-171849N), 01st Aug 1993.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Vasudevan Nair VK (JC-185501K), 01st Jun 1993.

Nb Sub Clk Babu Patil (JC-188369A), 01st Jul 1993.

Nb Sub Clk Rajappan Pillai KG (JC-188370P), 01st Jul 1993.

**THE RAJPUT REGIMENT**

To be Sub

Nb Sub Chandra Shekhar Prasad (JC-162125P), 1st July 1993.

Nb Sub Arjun Singh (JC-171720A), 1st Aug 1993.

Nb Sub Shiv Prasad (JC-162126X), 1st Aug 1993.

Nb Sub Dharam Singh (JC-171916N), 29th Aug 1993.

Nb Sub Malkit Singh (JC-177778N), 1st Oct 1993.

Nb Sub Surya Pal Singh (JC-184987W), 1st Oct 1993.

Nb Sub Shukh Pal Singh SM (JC-183424F), 1st Oct 1993.

Nb Sub Hauram Singh (JC-178257M), 1st Nov 1993.

Nb Sub Rajpal Singh (JC-181813H), 1st Nov 1993.

Nb Sub Rambir Singh (JC-181814L), 1st Nov 1993.

**THE JAT REGIMENT**

To be Sub Maj

Sub Rajbir Singh, SM (JC-122056F), 1st Aug 1993.

To be Sub

Nb Sub Phool Chand (JC-175967Y), 1st Aug 1993.

Nb Sub Umed Singh (JC-177947K), 1st Aug 1993.

Nb Sub Vedpal Singh (JC-177974N), 1st Aug 1993.

Nb Sub Ude Singh (JC-181831L), 1st Aug 1993.

Nb Sub Satyapal Singh (JC-184333K), 1st Aug 1993.

Nb Sub Rajinder Singh (JC-179367N), 1st Aug 1993.

Nb Sub Brahma Nand (JC-173196W), 1st Aug 1993.

Nb Sub Hawa Singh (JC-176305H), 1st Aug 1993.

Nb Sub Suraj Mal (JC-177948M), 1st Aug 1993.

Nb Sub Kishan Ram Chaudhary (JC-177949P), 1st Aug 1993.

Nb Sub Rughbir Ram Jat (JC-181829N), 1st Aug 1993.

Nb Sub Azad Singh (JC-181835F), 1st Aug 1993.

Nb Sub Rajendra Singh (JC-184344W), 1st Aug 1993.

Nb Sub Rambir Singh Kalkal (JC-184345Y), 1st Aug 1993.

Nb Sub Ram Kumar Ahlawat (JC-184334M), 1st Aug 1993.  
Nb Sub Raghbir Singh (JC-184337A), 1st Aug 1993.  
Nb Sub Karan Singh (JC-188656K), 1st Sep 1993.  
Nb Sub Ramji Lal (JC-188667W), 1st Sep 1993.  
Nb Sub Asha Ram Jat (JC-152839P), 1st Sep 1993.  
Nb Sub Chhaju Ram (JC-159200H), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Dildesh Raj (JC-171727K), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Chetan Ram (JC-168852H), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Mahender Singh (JC-175968F), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Nanda Ram (JC-175969K), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Didari Singh (JC-177983P), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Budh Ram (JC-177956L), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Ram Kumar Singh Vijarnia (JC-180742A), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Prem Singh (JC-188657M), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Hoshiar Singh (JC-175032Y), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Prem Chand (JC-162295Y), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Jai Singh (JC-173184F), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Hari Chand Tewaria (JC-177957N), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Jagbir Singh (JC-185002P), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Parimal Singh (JC-185172Y), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Ram Chander Jat (JC-185761P), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Mool Chand (JC-156045F), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Pooran Chand (JC-162299P), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Raj Singh (JC-177958W), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Bhoj Raj Singh (JC-196233L), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Satbir Singh (JC-183001N), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Amar Singh (JC-168869W), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Sube Singh (JC-175975X), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Chuna Ram (JC-177946F), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Mahabir Singh (JC-168862M), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Man Singh Gotnia (JC-169168M), 1st Oct 1993.  
Nb Sub Khazan Singh (JC-177959Y), 1st Oct 1993.  
To be Sub Clk  
Nb Sub Clk Lal Singh Yadav (JC-196486A), 1st Sep 1993.  
Nb Sub Clk Sohan Ram (JC-194590P), 1st Oct 1993.

**THE SIKH REGIMENT**  
To be Subedar Major  
Sub Vijaya Bhanu E (JC-141482K), 01 Nov 1993.  
Sub Balbir Singh (JC-139608A), 01 Nov 1993.  
To be Subedar  
Nb Sub Sadhu Singh (JC-169395M), 01 Sep 1993.  
To be Subedar Clerk  
Nb Sub Clerk Surjit Singh (JC-193779A), 01 Nov 1993.

**THE KUMAON REGIMENT**  
To be Subedar  
Nb Sub Sheo Taj (JC-176006K), 1st June 93.  
Nb Sub Lalita Prasad (JC-180771P), 1st July 93.  
Nb Sub Devi Datt Tewari (JC-178056N), 1st Aug 93.  
Nb Sub Harish Chandra (JC-178062F), 1st Aug 93.  
Nb Sub Chandgi Ram (JC-180776N), 1st Aug 93.  
Nb Sub Laxmi Datt (JC-179441K), 1st Sep 93.

Nb Sub Bachi Singh Bora (JC-180888N), 1st Sep 93.  
Nb Sub Marian Mohan Singh (JC-183053K), 1st Sep 93.

**THE ASSAM REGIMENT**  
To be Sub Maj  
Sub Fuherhang Hemar (JC-112869K), 01 Jul 93.  
To be Sub  
Nb Sub Lianchungnunga (JC-166746L), 01 Mar 93.  
Nb Sub Vijayan Nair VN (JC-166741M), 01 Sep 93.  
Nb Sub Leinkhosat Gangate (JC-171767L), 01 Oct 93.  
Nb Sub Age Wanchoo (JC-175093W), 01 Nov 93.  
Nb Sub Lakjiansanga (JC-171768N), 01 Dec 93.  
Nb Sub Babu Ram Bastakoti (JC-172786H), 01 Dec 93.

**THE BIHAR REGIMENT**  
To be Subedar Major  
Sub Ruyan Singh Saw (JC-113989P), 1st October 1993.  
Sub Satya Narayan Choubey (JC-135807W), 1st October 1993.  
To be Subedar  
Nb Sub Mohan Singh (JC-166110K), 1st April 1993.  
Nb Sub Albert Minz (JC-169246Y), 1st April 1993.  
Nb Sub Mahesh Dawa (JC-155763L), 1st May 1993.  
Nb Sub Chitho Munda (JC-173923N), 1st June 1993.  
Nb Sub Dharam Bidya Kujur (JC-176386N), 1st July 1993.  
Nb Sub Budal Majhi (JC-183067K), 1st July 1993.  
Nb Sub Karnail Singh (JC-169247F), 1st July 1993.  
Nb Sub Santan Jamuda (JC-145581K), 1st August 1993.  
Nb Sub Suresh Prasad Yadav (JC-164616K), 1st August 1993.  
Nb Sub Ramji Singh (JC-175415L), 1st August 1993.  
Nb Sub Ranendra Kumar Yadav (JC-192476Y), 1st September 1993.  
Nb Sub Dina Nath Singh (JC-172617F), 1st October 1993.  
Nb Sub Joseph Surin (JC-175423K), 1st October 1993.  
Nb Sub Silmester Tete (JC-172620F), 1st October 1993.  
Nb Sub Binda Ray (JC-192477F), 1st October 1993.  
Nb Sub Ranjit Ram Yadav (JC-172618K), 1st October 1993.  
Nb Sub Ashok Kumar (JC-175416N), 1st October 1993.  
Nb Sub Lili Tudu (JC-173928F), 1st October 1993.  
Nb Sub Benedik Baskey (JC-155456N), 1st October 1993.  
Nb Sub Rama Arish Singh (JC-178064M), 1st October 1993.  
Nb Sub Kashi Nath Prasad (JC-178065P), 1st October 1993.  
Nb Sub Shyamjee Singh (JC-185247L), 1st October 1993.  
Nb Sub Lalan Singh (JC-192668W), 1st October 1993.  
Nb Sub Chaitanya Ram (JC-204347N), 1st October 1993.

## THE MAHAR REGIMENT

To be Sub Cik (GD)

Nb Sub Cik Girdhari Singh Bhati (JC-196885K), 01 Feb 93.

Nb Sub Cik Tarlochan Singh (JC-196886M), 15 Aug 93.

## JAK LI

To be Subedar Majors

Sub Amar Singh (JC-173963K), 01 Apr 93.

Sub Chur Singh (JC-100485H), 01 Jun 93.

Sub Ram Chand (JC-97507H), 01 Jun 93.

Sub Gwash Lal Sen (JC-95797M), 01 Jun 93.

Sub Jodh Singh (JC-105832A), 01 Jul 93.

Sub Jankar Singh (JC-105833H), 01 Jul 93.

Sub Farjul Singh (JC-100479P), 01 Aug 93.

Sub Shadi Lal (JC-97377L), 01 Sep 93.

Sub Parkash Singh (JC-107404A), 01 Sep 93.

Sub Mohd Bashir (JC-118629H), 01 Oct 93.

Sub Dev Raj (JC-101258A), 01 Oct 93.

## 1 GR

To be Sub Maj

Sub Indra Jang Thapa (JC-138560L), 27th Aug 1993.

Sub Mani Raj Thapa (JC-117293F), 1st Sep 1993.

To be Sub

Nb Sub Surender Singh Thapa (JC-175459H), 27th Aug 1993.

Nb Sub Ganesh Bahadur Chhetri (JC-180906L), 1st Sep 1993.

Nb Sub Chitra Bahadur Gurung (JC-176013A), 1st Sep 1993.

Nb Sub Hari Bahadur (JC-180907N), 1st Sep 1993.

Nb Sub Suresh Kumar Thapa (JC-183181F), 1st Sep 1993.

Nb Sub Indra Bahadur Thapa (JC-176014H), 1st Sep 1993.

Nb Sub Om Prakash (JC-178142Y), 1st Sep 1993.

Nb Sub Surender Jang Gurung (JC-183142H), 1st Sep 1993.

Nb Sub Rudra Bahadur Rana (JC-183143L), 1st Sep 1993.

## 3 GR

To be Subedar

Nb Sub Som Bahadur Thapa (JC-188704Y), 1st Jul 1993.

Nb Sub Chitra Bahadur Gurung (JC-178151A), 20th Jul 1993.

Nb Sub Hari Bahadur Thapa (JC-180928K), 1st Oct 1993.

Nb Sub Nar Bahadur Thapa (JC-180929M), 1st Oct 1993.

Nb Sub Kal Bahadur Thapa (JC-180930F), 1st Oct 1993.

Nb Sub Dhan Bahadur Thapa (JC-183155A), 1st Oct 1993.

## 5 GR (FF)

To be Sub

Nb Sub Gopendra Prasad Gurung (JC-179486K), 1st Oct 1993.

Nb Sub Ashwani Kumar Thapa (JC-179487M), 1st Nov 1993.

Nb Sub Kuldip Kumar Gurung (JC-168633F), 1st Nov 1993.

Nb Sub Tej Bahadur Gurung (JC-168639H), 1st Nov 1993.

Nb Sub Sher Bahadur Gurung (JC-168640X), 1st Nov 1993.

## JADAKH SCOUTS

To be Subedar (GD)

Nb Sub Chherring Angehok (JC-175137H), 1st Sep 1993.

Nb Sub Kunga Namgial (JC-175138L), 1st Sep 1993.

Nb Sub Chherring Mutup (JC-175139N), 1st Oct 1993.

S. S. KEMWAL,  
Under Secy.

## ARMY BRANCH

No. 59, dated the 31st December 1993.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## Defence Security Corps

To be Sub Maj

Sub Nirmal Singh (JC-63760-X), 01 Apr 1993.

Sub P Thambi (JC-93376-L), 01 Apr 1993.

Sub Samuel Thampan (JC-65323-W), 01 July 1993.

Sub Jai Ram Yadav (JC-96712-X), 01 July 1993.

Sub Bishwanath Prasad Choudhary (JC-113747-M), 01 July 1993.

Sub Jagdish Prasad Shukla (JC-111767-F), 01 July 1993.

To be Sub

Nb Sub Sat Narain (JC-139177-N), 01 May 1993.

Nb Sub Punai Kujur (JC-138432-N), 01 July 1993.

Nb Sub Banwari Lal (JC-138453-K), 01 July 1993.

Nb Sub Bishamber Dayal (JC-139183-M), 01 July 1993.

Nb Sub Jagan Nath Singh (JC-138464-W), 01 July 1993.

Nb Sub Babu Ram (JC-138440-M), 01 July 1993.

Nb Sub Vasudeva Panicker Porattur Parameswaran (JC-138448-Y), 01 July 1993.

Nb Sub Hari Ram (JC-118572-Y), 01 July 1993.

Nb Sub Shri Ram (JC-140144-A), 01 July 1993.

Nb Sub Mole Singh (JC-138420-Y), 01 July 1993.

Nb Sub Ram Gopal (JC-138461-H), 01 July 1993.

Nb Sub Niranjan Singh (JC-138452-F), 01 July 1993.

Nb Sub Balbir Singh (JC-1384501W), 01 July 1993.

PRAKASH CHAND, Under Secy.

## (ARMY BRANCH)

No. 60, dated the 22nd December 1993.—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY  
(Territorial Commission)

Capt to Maj

Capt R. P. Jaiswal (TA-41616), Infantry, 14 Mar 1991.

Capt SK De (TA-41827), Infantry, 21 May 1991.

Capt Anup Kumar Roy (TA-41687), Infantry, 06 Jul 92.

Lt to Captain

Lt JV PRASAD (TA-41749), Infantry, 01 Jul 91.

Lt PS RATHORE (TA-41752), Infantry, 01 Jul 91.

Lt PP ANANTRAO (TA-41912), Infantry, 11 Feb 92.

Lt KK TANWAR (TA-41935), Infantry, 24 Jan 92.

Lt SK DOGRA (TA-41936), Infantry, 24 Jan 92.

Lt JR DOGRA (TA-41948), Infantry, 30 May 92.

Lt A SRINIVASAN (TA-41953), Infantry, 25 Jul 92.

Lt NIRBHAI SINGH (TA-41737), Infantry 06 Jul 92.

Lt SK PAREEK (TA-41708), Infantry, 04 Dec 88.

Lt RS SHARMA (TA-41722), Infantry, 04 Dec 88.

A. P. PANDIT, Under Secy.

## ARMY BRANCH

No. 61, dated the 28th December 1993.—The President is pleased to make the following promotions :—

## TERRITORIAL ARMY

## INFANTRY

## 109 INFANTRY BATTALION (TA)

To be Sub

Nb Sub Vishwas Martand Kamble (IJ-3507), 01 Oct 93.

Nb Sub Gajanan Dnyanaba Mane (IJ-3510), 01 Oct 93.

## 112 Inf Bn (TA)

To be Sub

Nb Sub Kuldip Singh (TJ-3281), 01 Oct 93.

K KUMAR, Lt Col,  
GSU-I/TA-3.

## NATIONAL CADET CORPS

No. 62, dated the 3rd January 1994.—The President is pleased to promote the following officers to the selection rank of Lt Col in accordance with Government of India letter No. 5431/Promotion/DGNCC/MS(B)/818/A/D (GS-VI) dated 07 April 1981. Their scale of pay will be regulated as per Government of India, Min of Defence, letter No. 5431/Promotion/DGNCC/MS(B)/1257/A/D(GS-VI) dated 03 June 1981. Their seniority for promotion and pay in permanent cadre will be as per Min of Defence letter No. 5110/81/DGNCC/Ters (A)/1117/D(GS-VI) dated 13 May 1981.

NCC WHOLE TIME PERMANENT COMMISSION  
OFFICERS

## (ARMY WING)

(Maj to be Lt Col by selection)

OP Batra (NCC/PC-12333), 12 Jul 93.

Mahendra Singh (NCC/PC-12096), 15 Jul 93.

The President is pleased to promote the following officer to the selection rank of Cdr in accordance with Government of India letter No. 5431/Promotion/DGNCC/MS(B)/818/A/D(GS-VI) dated 07 April 1981. His scale of pay will be regulated as per Government of India Min of Defence letter No. 5431/Promo/DGNCC/MS(B)/1257/A/D(GS-VI) dated 03

June 1981. His seniority for promotion and pay in permanent cadre will be as per Min of Defence letter No. 5110/81/DGNCC/Pers(A)/1117/D(GS-VI) dated 13 May 1981.

## NCC WHOLE TIME PERMANENT COMMISSION

## OFFICERS

## (NAVAL WING)

(Lt Cdr to be Cdr by selection)

KL SINDWANI (NCCN/PC-11634), 11 Dec 92.

TS SIAL, Dy. Dir. Gen. (P&F).

## NAVY BRANCH

No. 63, dated the 3rd January 1994.—The following Sr Foremen have been promoted as Civilian Technical Assistant from the dates mentioned against their names :—

Shri G Madhu Mohan Rao, Sr. Foreman (Elect), 26 Oct 1993.

Shri K Satyanarayana, Sr. Foreman (Elect), 26 Oct 1993.

Shri K Chalapathi Rao, Sr. Foreman (L), 26 Oct 1993.

Shri A M Rao Balla, Sr. Foreman (Weapon), 11 Oct 93.

Shri KS Mohite, Sr. Foreman (Weapon), 19 Oct 1993.

Shri P Hanumantha Rao, Sr. Foreman (Weapon), 24 Sep 1993.

Shri MV Bhise, Sr. Foreman (Weapon), 13 Oct 1993.

Shri UP Runga Rao, Sr. Foreman (Engg.), 28 Jun 1993.

Shri PC Ram Sen, Sr. Foreman (Engg.), 26 Oct 1993.

Shri N. Ramakrishna, Sr. Foreman (Engg.), 01 Nov 93.

Shri YM Kaprekar, Sr. Foreman (Engg.), 08 Nov 93.

Shri DP Nagaonkar, Sr. Foreman (Engg.), 09 Nov 1993.

Shri CVS Pisharcdy, Sr. Foreman (Engg.), 27 Oct 1993.

Shri KS Wadkar, Sr. Foreman (Const), 27 Oct 93.

Shri HE Zacheues, Sr. Foreman (Const), 16 Oct 1993.

Shri V Ganesan, Sr. Foreman (Const), 20 Oct 1993.

Shri G Mahalaxmi, Sr. Foreman (Const.), 28 Sep 93

2. They will be on probation for the period of two years.

UN KHANNA  
Commander

Dy. Director of Civilian Personnel.

## AIR BRANCH

No. 64, dated the 3rd January 1994.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

## INDIAN AIF FORCE

## FLYING BRANCH

To be Sub Active Group Captains

SK Dutt (10106) F(P), 1-7-91 to 1-7-89 (NS).

(His name will appear above Gr Capt SC Kharbanda (10113), F(P) in the gradation list).

SC Kapur, VSM, (8984) F(P), 1-7-91.

UM Kushalappa (10177) F(P), 1-7-91.

KC Kuruvilla, VrC (10862) F(P), 1-7-91.

AD Karanthikar, VM (10865) F(P), 1-7-91.

JS Grewal, VM (10866) F(P), 1-7-91.

HPS Sidhu, VSM (11051) F(P), 1-7-91.

AD Joshi, VM (10886) F(P), 1-7-91.

RV Phadke (10895) F(P), 1-7-91.  
 SM Ghose (10896) F(P) (Retd), 1-7-91.  
 RV Kumar, YSM (10918) F(P), 1-7-91.  
 SK Gupta (10983) F(P), 1-7-91.  
 DS Gurum, AVSM (10916) F(P), 1-7-91.  
 AK Singh, VM (11005) F(P), 1-7-91.  
 H Masand, Vr.C, VM (11272) F(P), 1-7-91.  
 VN Supre, Vr.C (11285) F(P), 1-7-91.  
 TS Chatwal, SC, VM (11290) F(P), 1-7-91.  
 JA Benjamin, VM (11296) F(P), 1-7-91.  
 A Sinha, YM (11297) F(P), 1-7-91.  
 JS Gujral, VM (11300) F(P), 1-7-91.  
 RN Singh (11301) F(N), 1-7-91.  
 B Menon, VM (11307), J(P), 1-7-91.  
 M Dikshit, Vr.C (11309) F(P), 1-7-91.  
 SL Sud (11317) F(P), 1-7-91.  
 PK Bishnoi (11397) F(N), 1-7-91.  
 FH Major, VM (11442), F(P), 1-7-91.

## To be Substantive WG CDR (Select)

SC Solomon (10987) F(P), 01-11-87.  
 (His name will appear between Wg Cdrs BN Ramachandra (10920) F(P), and Ajit Padmanabhan (11292) F(P) in combined seniority list).  
 CS Grewal (10939) F(P), 02-10-88.  
 (His name will appear between Wg Cdrs SS Patil (10971) F(N) and OS Sodhi (10988) F(N) in combined seniority list).  
 B Ravi Kumar (11031) E(P) 02-10-88.  
 (His name will appear between Wg Cdr R Lyall (11041) F(N) and HS Baidwan (11033) F(P) in combined seniority list).  
 GC Bidappa (11432) F(P) 01-12-88.  
 (His name will appear above the name of Wg Cdr AM Gadkary (11449), F(N) in combined seniority list).  
 AK Srivastava (11623) F(N), 01-1-89.  
 (His name will appear between Wg Cdrs Bhaumick (11606) F(P) and D Driver (11610) F(P) in combined seniority list).  
 M Kapoor (12048) F(N), 01-8-89.  
 (His name will appear above the name of Wg Cdr VK Sharma (12022) F(P) in combined seniority list).  
 YS Ahlawat (12064) F(P), 03-10-89.  
 (His name will appear below the name of Wg Cdr Suresh Kapur (12043) F(P) in combined seniority list).  
 KJ Templeton (10910) F(P), 01-11-89.  
 (His name will appear between Wg Cdrs AK Shyam (12065) F(P) and PS Behere (11889) F(P) in combined seniority list).  
 Praful Bakshi (11664) F(P), 02-6-90.  
 SM Bellary (10565) F(P), 02-6-90.  
 SS Sandil (11629), F(N), 02-6-90.  
 K Singh (11838) F(N), 02-6-90.  
 SK Aurora (11872) F(P), 02-6-90.  
 DR Duraisami (11887) F(P), 02-6-90.

M Sundaram (12369) F(P), 02-6-90.  
 BS Yadav (12373) F(P), 02-6-90.  
 PK Misra (12374) F(P), 02-6-90.  
 PK Barbora (12375) F(P), 02-6-90.  
 RL Tyagi (12378) F(P), 02-6-90.  
 PS Diwaniyan (12379) F(P), 02-6-90.  
 SU Apte (12380) F(P), 02-6-90.  
 DD Kakra (12422) F(N), 02-6-90.  
 UN Ganguly (12381) F(P) 02-6-90.  
 S Chopra (12385) F(P), 02-6-90.  
 JPS Talwar (12386) F(P), 02-6-90.  
 DS Shaheed (12387) F(P), 02-6-90.  
 A Khanna (12388) F(P), 02-6-90.  
 KS Chhina (12389) F(P), 02-6-90.  
 VS Ranawat (12390) F(P), 02-6-90.  
 GPB Chaudhury (12394) F(P), 02-6-90.  
 A Thapar (12395) F(P), 02-6-90.  
 AG Thadani (12428) F(N), 02-6-90.  
 BLN Raju (12397) F(P), 02-6-90.  
 SK Lal (12398) F(P), 02-6-90.  
 Ranjit Singh (12400) F(P), 02-6-90.  
 MK Gulati (12401) F(P), 02-6-90.  
 VK Gupta (12402) F(P), 02-6-90.  
 DJS Kanwar (12403) F(P), 02-6-90.  
 SK Pattnaik (12429) F(N), 02-6-90.  
 SK Dixit (12407), F(P), 02-6-90.  
 S Radhakrishnan (12408), F(P), 02-6-90.  
 P Singh (12409) F(P), 02-6-90.  
 VS Karandikar (12410) F(P), 02-6-90.  
 Pravesh Kumar (12411) F(P) 02-6-90.  
 BS Siwach (12413) F(P), 02-6-90.  
 SS Sasseon (12414) F(P), 02-6-90.  
 COJ Shackleton (12416) F(P), 02-6-90.  
 RK Lakhwara (12418) F(P), 02-6-90.  
 CA Dalton (12430) F(N), 02-6-90.  
 S Chaitanya (12539) F(N), 02-6-90.  
 SM Kumar (12502) F(P), 02-6-90.  
 RK Chakravorty (12503), F(P) 02-6-90.  
 GS Phogal (12504), F(P), 02-6-90.  
 SCS Adhikari (12505) F(P), 02-6-90.  
 DS Taneja (12540) F(N), 02-6-90.  
 R Sharma (12506) F(P), 02-6-90.  
 SK Bhan (12510) F(P), 02-6-90.  
 Pushpendra Singh (12512) F(P), 02-6-90.  
 Praveen Puri (12513) F(P), 02-6-90.  
 C Muralidhar (12541) F(N), 02-6-90.  
 D Sahi (12519) F(P), 02-6-90.  
 N Sehgal (12521) F(P), 02-6-90.  
 Ashok Mehta (12522) F(P), 02-6-90.

- PF Montes (12524) F(P), 02-6-90.  
 SC Madan (12546) F(N), 02-6-90.  
 Seby George (12527) F(P), 02-6-90.  
 DV Vaswani (12547) F(N), 02-6-90.  
 KS Rana (12534) F(P), 30-6-90.  
 DS Gill (12537) F(P), 30-6-90.  
 N Pawar (12548) F(P), 30-6-90.  
 HS Vidwan (12529) F(P), 30-6-90.  
 ML Kapur (9877) F(N), 30-6-90.  
 RB Pandit (10134) F(P), 30-6-90.  
 VG Desai (10258) F(N), 30-6-90.  
 KS Rao (10225) F(P), 24-7-90.  
 JSK Mahajan (12417) F(P), 24-7-90.  
 HP Shukla (12320) F(P), 31-7-90.  
 SJ Sekhar (12525) F(P), 31-7-90.  
 DS Brar (12709) F(P), 31-7-90.  
 Kuldip Shiva (12750) F(P), 31-7-90.  
 VK Chopra (12752) F(P), 31-7-90.  
 SV Mahendaley (7220) F(P), 01-10-90.  
 DG Prakash Rao (10529) F(P), 01-10-90.  
 Rajendra Singh (11621) F(N), 01-10-90.  
 SC Snigh (12227) F(P), 01-10-90.  
 V Mathur (7716) F(P), 01-10-90.  
 Rajbahadur Singh (10109) F(P), 01-10-90.  
 S Bose (12757) F(P), 31-10-90.  
 P Kapur (12788) F(N), 31-10-90.  
 AS Umbaje (12760) F(P), 31-10-90.  
 PG Malvi (12763) F(P), 31-12-90.  
 DK Vasudeva (12790) F(N), 31-01-91.  
 SK Gahlaut (12764) F(P), 31-01-91.  
 NV Tyagi (12765) F(P), 28-02-91.  
 VS Kapani (12766) F(P), 28-02-91.  
 V Govindaraj (12791) F(N), 28-02-91.  
 SS Bose (12769) F(P), 28-02-91.  
 Bhupinderpal Singh (12772) F(P), 11-3-91.  
 SK Tandon (12792) F(N), 11-3-91.  
 MH Saki (12775) F(P), 11-3-91.  
 Shankar Singh (12795) F(N), 11-3-91.  
 Man Mohan Singh (12777) F(P), 11-3-91.  
 DV Ghatnekar (12778) F(P), 11-3-91.  
 NK Upadhyaya (12779) F(P), 11-3-91.  
 M Zaferullah (12797) F(N), 11-3-91.  
 TR Sankaran (12780) F(P), 11-3-91.  
 DS Karnik (12783) F(P), 11-3-91.  
 AR Oka (12786) F(P), 11-3-91.  
 Ajay Sharma (12419) F(P), 11-3-91.  
 HK Bajaj (12762) F(P), 11-3-91.  
 G Chaturvedi (12965) F(N), 11-3-91.  
 S Mukerji (12925) F(P), 11-3-91.  
 GR Mohan (12926) F(P), 11-3-91.  
 RK Bora (12927) F(P), 11-3-91.  
 RC Uppal (12929) F(P), 11-3-91.  
 SC Mukul (12930) F(P), 11-3-91.  
 NA Moitra (12931) F(P), 11-3-91.  
 PS Bhangu (12932) F(P), 11-3-91.  
 K Rajaram (12933) F(P), 11-3-91.  
 AS Limaye (12934) F(P), 11-3-91.  
 PK Mulay (12935) F(P), 11-3-91.  
 RH Chadda (12938) F(P), 11-3-91.  
 VR Iyer (12939) E(P), 11-3-91.  
 D Gajare (12968) F(N), 11-3-91.  
 VS Bajwa (12940) F(P), 11-3-91.  
 D Sahni (12943) F(P), 11-3-91.  
 AS Gill (12944) F(P), 11-3-91.  
 TP Srivastava (12946) F(P), 11-3-91.  
 PS Luthra (12969) F(N), 11-3-91.  
 TS Randhawa (12947) F(P), 11-3-91.  
 RPS Sachdeva (12948) F(P), 11-3-91.  
 KP Devia (12949) F(P), 11-3-91.  
 R Kacker (12951) F(P), 11-3-91.  
 RA Jaisinghani (12953) F(P)—11-3-91.  
 VK ARORA (12954) F(P)—11-3-91.  
 S Chander (12957) F(P)—11-3-91.  
 UG Kartha (12959) F(P)—11-3-91.  
 SW Chib (12975) F(N)—11-3-91.  
 KR Narayan (12960) F(P)—11-3-91.  
 DK Sharma (12962) F(P)—11-3-91.  
 V Gupta (12977) F(P)—11-3-91.  
 DK Rawat (10627) F(N)—11-3-91.  
 RS Malhari (10495) F(P)—11-3-91.  
 DK Sandhir (10523) F(P)—11-3-91.  
 GS Gadhoke (12420) F(N)—11-3-91.  
 DS Trivedi (12426) F(N)—11-3-91.  
 MF Siddiqui (12427) F(N)—11-3-91.  
 Pradeep Sharma (12543) F(N)—11-3-91.  
 AB Keskar (12545) F(N)—11-3-91.  
 MAA Kamal (12793) F(N)—11-3-91.  
 VK Sharma (12753) F(P)—11-3-91.  
 MD Palekar (12945) F(P)—11-3-91.  
 S Bagchee (12971) F(N)—11-3-91.  
 YW Joshi (12974) F(N)—11-3-91.  
 AK Gupta (13072) F(P)—11-3-91.  
 NAK Browne (13129) F(P)—11-3-91.  
 D Kukreja (13130) F(P)—11-3-91.  
 M John (13131) F(P)—11-3-91.  
 KK Nohwar (13132) F(P)—11-3-91.  
 S Damodaran (13133) F(P)—11-3-91.

- SK Jayaswal (13134) F(P)—11-3-91.  
 VP Nandrajog (13136) F(P)—11-3-91.  
 SS Hanjra (13137) F(P)—11-3-91.  
 SH Kulkarni (13138) F(P)—11-3-91.  
 R Bhattacharya (13139) F(P)—11-3-91.  
 AS Karnik (13140) F(P)—11-3-91.  
 G Mitra (13141) F(P)—11-3-91.  
 RS Raghu (13142) F(P)—11-3-91.  
 MV Manjunath (13145) F(P)—11-3-91.  
 R Pratap (13146) F(P)—11-3-91.  
 Ajit Singh (13147) F(P)—11-3-91.  
 GC Kochhar (13149) F(P)—11-3-91.  
 TJ Verma (13151) F(P)—11-3-91.  
 MS Mallick (13155) F(P)—11-3-91.  
 RC Baruah (13156) F(P)—11-3-91.  
 Arvind Kumar (13157) F(P)—11-3-91.  
 RS Das (13158) F(P)—11-3-91.  
 R Rai (13160) F(P)—11-3-91.  
 Sher Singh (13162) F(P)—11-3-91.  
 JS Ahluwalia (13164) F(P)—11-3-91.  
 AR Nigam (13240) F(P)—11-3-91.  
 A Gupta (13241) F(P)—11-3-91.  
 A Gupta (13242) F(P)—11-3-91.  
 DN Ganesha (13243) F(P)—11-3-91.  
 PM Mathai (13244) F(P)—11-3-91.  
 BC Nanjappa (13246) F(P)—11-3-91.  
 VK Yajurvedi (13248) F(P)—11-3-91.  
 PK Gawri (13249) F(P)—11-3-91.  
 K Swaminathan (13251) F(P)—11-3-91.  
 GR Godkhindi (13252) F(P)—11-3-91.  
 GS Sumra (13253) F(P)—11-3-91.  
 SS Sawhney (13254) F(P)—11-3-91.  
 M Muttu (13255) F(P)—11-3-91.  
 CM Raghupathi (13256) F(P)—11-3-91.  
 R Nandy (13258) F(P)—11-3-91.  
 RR Iyer (13263) F(P)—11-3-91.  
 MK Agarwal (13264) F(P)—11-3-91.  
 HN Bhavani (13265) F(P)—11-3-91.  
 K Sreenivas (13267) F(P)—11-3-91.  
 JK Sinha (13268) F(P)—11-3-91.  
 RE Ketkar (13269) F(P)—11-3-91.  
 KJ Bhatt (13271) F(P)—11-3-91.  
 AG Patil (13272) F(P)—11-3-91.  
 ND Sud (9493) F(N)—11-3-91.  
 Amjatava Sen (9543) F(P)—11-3-91.  
 TN Dhawan (9505) F(P)—11-3-91.  
 RY Parmekar (9747) F(P)—11-3-91.  
 MH Bakre (9756) F(P)—11-3-91.  
 DV Singh (9768) F(P)—11-3-91.
- IJ Madan (9879) F(N)—11-3-91.  
 RLS Kahlon (9801) F(P)—11-3-91.  
 RS Wahi (9830) F(P)—11-3-91.  
 NC Virmani (9831) F(P)—11-3-91.  
 RB Singh (10262) F(N)—11-3-91.  
 GS Sharina (10184) F(P)—11-3-91.  
 RD Bahl (10228) F(P)—11-3-91.  
 IIS Sidhu (10500) F(P)—11-3-91.  
 AV Kumar (10532) F(P)—11-3-91.  
 SS Yadav (10634) F(N)—11-3-91.  
 KS Tiwari (11049) F(P)—11-3-91.  
 TK Vinayaraj (11438) F(P)—11-3-91.  
 M Sudarsanan (11888) F(P)—11-3-91.  
 VK Maheshwari (12242) F(P)—16-3-91.
- Sqn Ldr to be Substantive Wing Commander  
 RV Chitnis (11845) F(P), 08-2-89.  
 Kulwant Singh (11817) F(N), 08-2-89.  
 [His name will appear below the name of Wg Cdr Renjen (11815) F(N) in combined seniority list].  
 DVK Singh (11827) F(N), 01-3-89.  
 [His name will appear below the name of Wg Cdr DK Sawhney (11874) F(P) in the combined seniority list].  
 GD Bamboat (12025) F(P), 01-8-89.  
 [His name will appear below the name of Wg Cdr SJ Pote (12050) F(N) in combined seniority list].  
 PS Prasad (12231) F(P), 02-6-90.  
 [His name will appear below the name of Wg Cdr DR Duraisaini (11887) F(P) in combined seniority list].  
 U Shastri (12233) F(P), 02-6-90.  
 [His name will appear between Wg Cdrs PS Prasad (12231) F(P) and M Sundaram (12369) F(P) in combined seniority list].  
 RPM Nair (12787) F(N), 31-7-90.  
 [His name will appear below the name of Wg Cdr VK Chopra (12752) F(P) in combined seniority list].  
 Anil Bhalla (12759) F(P), 31-10-90.  
 [His name will appear between Wg Cdrs S Boso (12757) F(P) and P Kapur (12788) F(N) in combined seniority list].  
 Kulmanbir Singh (12784) F(P), 11-3-91.  
 [His name will appear between Wg Cdrs DS Karnik (12783) F(P) and AR Oka (12786) F(P) in combined seniority list].  
 DK Bharadwaj (12544) F(P), 11-3-91.  
 [His name will appear between Wg Cdrs Pradeep Sharma (12543) F(N) and AB Keskar (12545) F(N) in combined seniority list].

AM SINGH,  
Asst Director of Personnel (Officers)-2(A)

ARMY BRANCH  
(QMG's BRANCH)

No. 65, dated 3rd January 1994.—On attaining the age of superannuation i.e. 58 years on 31-12-93 (date of birth being 1-1-36), Shri Mukundi Lal, Civilian Staff Officer, QMG's Branch retired from service w.e.f. 31-12-93 (A/N) and transferred to Pension Establishment w.e.f. 1-1-94 (F/N).

**ARMY BRANCH  
(MGO BRANCH)**

On attaining the age of superannuation i.e. 58 years on 24-12-93, Shri JK Kataria, Civilian Staff Officer, MGO's Branch retired from service w.e.f. 31-12-93 (A/N) and transferred to Pension Establishment w.e.f. 01-1-94 (F/N).

On attaining the age of superannuation i.e. 58 years on 16-12-93, Shri PC Khanna, Private Secretary, MGO's Branch retired from service w.e.f. 31-12-93 (A/N) and transferred to Pension Establishment w.e.f. 01-1-94 (F/N).

On attaining the age of superannuation i.e. 58 years on the dates shown against their names, The following Assistant Civilian Staff Officers of MGO's Branch retired from service w.e.f. 31-12-93 (A/N) and transferred to pension establishment w.e.f. 01-1-94 (F/N).

Shri SB Bansal—14-12-93

Shri OP Pawa—31-12-93.

Shri JC Sharma—20-12-93.

PN MAULIK,  
By Chief Administrative Officer

**ARMY BRANCH**

**CORPS OF ELECTRICAL MECHANICAL AND  
ENGINEER**

No. 66, dated 4th January 1994.—The undermentioned officer retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the date noted against his name :—

Workshop Supdt Shri CJ Malani—31 Jul 1993 (Afternoon).

KIRAN KOCHHAR,  
Under Secy.

**ARMY BRANCH**

No. 67, dated 27th December 1993.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire :—

**TERRITORIAL ARMY**

**(TERRITORIAL COMMISSION)**

Lt K Srinivasa Rao, (TA-41648), Engrs. 31 May 92 (A/N).

2/Lt G P Sharma, (TA-41861), Engrs. 31 May 93 (A/N).

Maj N S. Khurana, [TA(M)-1101] AMC. 30 Apr 93 (A/N).

AP PANDIT,  
Under Secy.

No. 68, dated 12th January 1994.—The President is pleased to grant the honorary rank of Brigadier to Lt Col Michael Alexander Robert Skinner, Skinner Horse (Retd.) with effect from 06 December 1993.

A K JAIN,  
Jt Secy.

**MINISTRY OF DEFENCE**

**DEPTT. OF DEFENCE PRODN. & SUPPLIES**

No. 69, dated 30th December 1993.—Shri KSN Kumar, SSO-II, MSQAA, Hyderabad expired on 02 December, 1993.

R. K. OJHA,  
Under Secy.

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT**

**ORGANISATION**

D. R. D. S.

No. 70, dated 3rd January 1994.—Following amendment is made in the Draft Gazette Notification No. RD/PERS-7/473/SAO dated 24 Feb 92 in respect of Shri Suresh Chand, Senior Administrative Officer Grade II, DMSRDE, Kanpur :—

*In Line 4*

*For*—for a period of two years'

*Read*—for a period of one year.

R. K. SHARMA,  
Asstt. Director (Perf)

**(ARMY BRANCH)**

No. 71, dated 30th December 1993.—In Ministry of Defence Notification No. 195 dated 15th Feb 1993 published in the Gazette of India Ser No. 12 dated 20th Mar 1993 under heading 'REGULAR ARMY', 'CORPS OF ENGINEERS', sub heading 'MES MILITARISED CADRE',

*below (to be Nb Sub)*

*For*—Nb Sub Ravinder Singh (JC-224926F), 06th Oct 1990.

*Read*—Nb Sub Ravinder Singh (JC-224926F), 06th Oct 1990.

In Ministry of Defence Notification No. 396 dated 13th Apr 1993 published in the Gazette of India Ser No. 20 dated 13th May 1993 under heading 'REGULAR ARMY', 'CORPS OF ENGINEERS', sub heading 'MES MILITARISED CADRE',

*below (to be Nb Sub)*

*For*—Sub KS Pillai Rathappan (JC-87009M), 01st Mar 1990.

*Read*—Sub KS Pillai Ratnappan (JC-87009M), 01st Mar 1991.

*below To be Sub*

*For*—Nb Sub Venkataswamy Govindaswamy (JC-993368 H), 01st Dec 1990.

*Read*—Nb Sub Venkataswamy Govindaswamy (JC-993368 H), 01st Dec 1990.

In Ministry of Defence Notification No. 1671 dated 26th Nov 1990 published in the Gazette of India Ser No. 52 dated 29th Dec 1990 under heading 'REGULAR ARMY', 'CORPS OF ENGINEERS', sub heading 'MES MILITARISED CADRE',

*below (to be Nb Sub)*

*For*—Hav Subhash Chand (1458832W now JC-197221 H), 19th Jan 1990.

*Read*—Hav Subhash Chand Katoch (1458832W now JC-197221H), 19th Jan 1990.

In Ministry of Defence Notification No. 307 dated 26th Feb 1993 published in the Gazette of India Ser No. 16 dated 17th Apr 1993 under heading 'REGULAR ARMY', 'CORPS OF ENGINEERS', sub heading 'MES MILITARISED CADRE',

*below to be Sub Maj*

*For*—Hav Rajinder Singh (No.1447790P now JC-210359 Y), 24th Apr 1991.\*\*

*Read*—Hav Rajendra Singh (No. 1447790P now JC-210359Y), 24th Apr 1991.\*\*

*For*—Hav Saal M (No. 1461908W now JC-210367X), 14th May 1991.\*\*

*Read*—Hav Sasi M (No. 1461908W now JC-210367X), 14th May 1991.\*\*

*For*—Hav Joginder Singh Bhagtaria (No. 1455884F now JC-210408W), 06th May 1991.\*\*

*Read*—Hav Joginder Singh Bhagtaria (No. 1455884F now JC-210408W), 06th May 1991.\*\*

*For*—Hav Yade Limba (No. 1547886M now JC-210444F), 08th Apr 1991.\*\*

*Read*—Hav Yede Limba (No. 1547886M now JC-210444F), 08th Apr 1991.\*\*

In Ministry of Defence Notification No. 531 dated 14 May 93 published in Gazette of India No. 25 dated 19 Jun 93 under heading 'REGULAR ARMY' Sub heading 'Corps of Engineers and Bombay Engineer Group' after entry of Hav (GD) Richpal Sharma (No. 1544853W now JC-347066A), 30th Dec 1992. @

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1992 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub (GD)

*For*—Hav (GD) Shinde Suresh Bhiku (No. 8023967M now JC-347067H), 1st Jan 1992. @

*Read*—Hav (GD) Shinde Suresh Bhiku (No. 8023967M now JC-347067H), 1st Jan 1993. @

*For*—Hav (GD) Mangat Singh (No. 1546431K now JC-347069N), 4th Jan 1992. \*

*Read*—Hav (GD) Mangat Singh (No. 1546431K now JC-347069N), 4th Jan 1993. \*

*For*—Hav (GD) Hardev Singh (No. 1538211K now JC-347020X), 1st Aug 1992. £

*Read*—Hav (GD) Hardev Singh (No. 1538281K now JC-347020X), 1st Aug 1992. £

*For*—Hav (GD) Tarsem Singh (No. 1566573X now JC-347038N), 9th Nov 1992. %

*Read*—Hav (GD) Tarsem Singh (No. 1566573H now JC-347038N), 9th Nov 1992. %

*Add*—Hav (GD) Sohan Singh (No. 1543421P now JC-347040L), 16th Nov 1992.

To be Nb Sub (Clk GD)

*For*—Hav (Clk GD) Mohinder Singh Yadav (No. 1551398F now JC-347009L), 1st Sep 1992. \*\*

*Read*—Hav (Clk GD) Mohinder Singh Yadav (No. 1551398F now JC-347006L), 1st Sep 1992. \*\*

*For*—Hav (Clk GD) Narayan Singh Khati (No. 1551435K now JC-347050N), 8th Sep 1992. =

*Read*—Hav (Clk GD) Narayan Singh Khati (No. 1551435K now JC-347010N), 8th Sep 1992. =

In Ministry of Defence Notification No. 827 dated 5th Aug 93 published in Gazette of India No. 37 dated 11 Sep 93 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Corps of Engineers and Bombay Engineer Group' after entry of Hav (Clk GD) Kewal Singh (No. 1548779X now JC-347095P), 11th Mar 1993. £

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1993 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk GD)

*For*—Hav (Clk GD) Karnail Singh (No. 1547413N now JC-347096X), 11th Mar 1993.

*Read*—Hav (Clk GD) Karnail Singh Chohan (No. 1547413N now JC-347096X), 11th Mar 1993.

To be Nb Sub (GD)

*For*—Hav (GD) Shakur Khan (No. 1574067H now JC-347090W), 17th Apr 1993.

*Read*—Hav (GD) Shakur Khan (No. 1547067H now JC-347090W), 17th Apr 1993.

In Ministry of Defence Notification No. 307 dated 26 Feb 93 published in the Gazette of India Ser No. 16 dated 17th Apr 93 under heading 'REGULAR ARMY' Sub heading 'Corps of Engineers' and 'Bengal Engineer Group',

below To be Nb Sub Clk (GD)

*For*—Hav Clk Jagdish Kumar Komal (No. 1460593L now JC-210793L), 19 Aug 91. £ £

*Read*—Hav Clk Jagdish Singh Komal (No. 1460593L now JC-210793L), 19 Aug 91. £ £

DR DHANKANI.  
Under Secy.

No. 72, dated 3rd January 1994.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification number 429 dated 21 Apr 93 published in the Gazette of India serial number 21 dated 22 May 93 under heading 'Regular Army' sub heading 'Infantry' 'The Madras Regiment' below :—

To be Nb Sub

*For*—Hav Dilip (No. 2576146W now JC-226175K), 30th Jun 91. \*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Jun 1992 without effect on pay and allowances).

*Read*—Hav Dilip (No. 2576146W now JC-226175K), 30th Jun 92. \*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Jun 1992 without effect on pay and allowances).

In Min of Def Notification No. 450 dated 21 Apr 93, under the heading 'The Raj Rif' sub heading 'To be Nb Sub' page No. 996, the following amendments are required to be carried out as under :—

Against Hav Inder Singh

*For*—JC-468039K

*Read*—JC-468030K

In the draft Gazette Notification for promotion to the rank of Naib Subedar Submitted vide Records The Madras Regiment letter No. 01330/JOO/216/Adm-2 dated 03 Sep 93 which is under publication in the Gazette of India Notification under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'INFANTRY' ('The Madras Regiment) below :—

To be Nb Sub

*For*—Hav Rajendran R (No. 2576277F now JC-438107M), 12th May 1993.

*Read*—Hav Rajendran R (No. 2576277F now JC-438107M), 30th June 93.

Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 12 May 93 without effect on pay and allowances.

*For*—Hav Rajendra Kurup K (No. 2576558X now JC-438115L), 1st July 93.

*Read*—Hav Rajendra Kurup K (No. 2576558X now JC-438115L), 22nd August 93.

Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 July 93 without effect on pay and allowances.

S. S. KEMWAL.  
Under Secy.

**NAVY BRANCH  
CORRIGENDA**

No. 73, dated 4th January 1994.—The following amendment may pleased be made in the Gazette of India dated 16 Oct 93 :—

(a) *In para (n)*

*For*—Shri AJ Cardoz, Senior Foreman (Engg) as officiating Civilian Technical Assistant (Engg).

*Read*—Shri AJ Cardoz, Senior Foreman (Weapon) as officiating Civilian Technical Assistant (Weapon).

(b) *In para (j)*

*For*—Shri KKK Rao (ST) Senior Foreman (Engg) as officiating Civilian Technical Assistant (Engg).

*Read*—Shri KKK Rao, Senior Foreman (Weapon) as officiating Civilian Technical Assistant (Weapon).

(c) *For*—Shri R Srinivasan, Senior Foreman (Engg) as officiating Civilian Technical Assistant (Engg).

*Read*—Shri R Sreenivasan, Senior Foreman (Engg) as officiating Civilian Technical Assistant (Engg).

UN KHANNA, Cdr  
Dy Director of Civilian Pers

